

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 272]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 14 मई 2018—वैशाख 24, शक 1940

आयुष विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 मई 2018

क्रमांक/एफ 1-3/2014/1/59:- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद् द्वारा शासकीय (स्वशासी) आयुष महाविद्यालय एवं चिकित्सालय गैर शिक्षकीय सेवाओं में भर्ती से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

### नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ. —
  - (क) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शासकीय (स्वशासी) आयुष महाविद्यालय एवं चिकित्सालय (गैर शिक्षकीय) सेवा भरती नियम, 2018 होगा।
  - (ख) ये नियम अधिसूचना जारी होने के दिनांक से प्रवृत्त होंगे.
2. परिभाषाएं — इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —
  - (क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, संबंधित स्वशासी शासकीय आयुष महाविद्यालय के प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी;
  - (ख) "चयन समिति" से अभिप्रेत है, शासकीय (स्वशासी) आयुष महाविद्यालयों में इन नियमों के अधीन सीधी भरती के लिए अनुसूची-तीन के उपबंधों के अनुसार गठित की गई एक या एक से अधिक चयन समितियां;

- (ग) "विभागीय पदोन्नति समिति" से अभिप्रेत है, शासकीय (स्वशासी) आयुष महाविद्यालयों में इन नियमों के अधीन पदोन्नति से भरती के लिए अनुसूची चार में विहित की गई विभागीय पदोन्नति समिति;
- (घ) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, प्रतियोगी परीक्षा जो कि सेवा में भरती के लिए इन नियमों के नियम-11 के अधीन आयोजित की जाती हो;
- (ङ) "अनुसूची" से अभिप्रेत हैं, नियमों से संलग्न अनुसूची;
- (च) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (छ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (ज) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;
- (झ) "राज्य" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य;
- (ञ) "सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;
- (ट) "स्वशासी संस्था" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश फर्म्स एवं सोसाइटीज एक्ट 1973, के अंतर्गत स्वशासी संस्था के रूप में पंजीकृत कोई शासकीय आयुष महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय;
- (ठ) "सेवा" से अभिप्रेत है, वे समस्त पद जिनकी पूर्ति इन नियमों के उपबंधों के अनुसार की गई हो अथवा की जाना हो;
- (ड) "आयुक्त/संचालक" से अभिप्रेत है, आयुक्त/संचालक, आयुष, मध्यप्रदेश।

3. **विस्तार तथा प्रयुक्ति**— मध्यप्रदेश सिविल (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 में दिये गये उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम इस सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे।
4. **सेवा का गठन.** — सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—
  - (एक) वे व्यक्ति जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनुसूची—एक में यथा विनिर्दिष्ट पदों पर किसी शासकीय (स्वशासी) आयुष महाविद्यालय की (स्वशासी) संस्था के नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किये जाकर इन पदों को मूलतः या स्थानापन्न हैसियत से धारण कर रहे हों;
  - (दो) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग की सेवा में तत्समय लागू नियमों के अनुसार भरती किए हों और महाविद्यालयों के स्वशासीकरण के उपरांत सेवा में सम्मिलित कर लिये गये हों।
  - (तीन) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गए हों
5. **वर्गीकरण, वेतनमान आदि.**— सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या इससे संलग्न अनुसूची—एक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगी। परन्तु सरकार सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में, समय—समय पर, स्थायी/अस्थायी रूप में वृद्धि या कमी कर सकेंगी।
6. **भर्ती का तरीका.** —
  - (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के बाद सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :—
    - (क) चयन/ प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती द्वारा:  
इन नियमों की अनुसूची में वर्णित द्वितीय श्रेणी सेवा के पदों की पूर्ति हेतु चयन प्रक्रिया मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से तथा तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों की चयन प्रक्रिया प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से कराई जावेगी।
    - (ख) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा; (अनुसूची—चार में दर्शाये अनुसार)
    - (ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा जो ऐसे पद या ऐसी सेवा को धारण करते हों, जैसा कि इस संबंध में विनिर्दिष्ट किया जाए।

- (2) उप नियम (1) के खण्ड (ख), खण्ड (ग) के अधीन भरती किये गये व्यक्तियों की संख्या किसी भी समय अनुसूची-एक में उल्लिखित पदों की संख्या के साथ अनुसूची-दो में दर्शाये गये प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- (3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, सेवा में किसी भी विशेष कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा में किसी भी विशेष रिक्ति या रिक्तियों को भरने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला भरती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भरती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर सरकार द्वारा अवधारित की जाएगी।
- (4) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुये आवश्यकता के दृष्टिगत अन्य संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर सेवाये दी जा सकेंगी, किन्तु इन व्यक्तियों का धारणाधिकार मूल नियोक्ता संस्था में ही रहेगा।
- (5) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार की राय में सेवा की आवश्यकताओं को देखते हुये ऐसा करना अपेक्षित हो, भरती के उन तरीकों से भिन्न जो उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट है, ऐसा अन्य तरीका अपना सकेगी जो इस संबंध में जारी किये गये आदेश द्वारा विहित किया जाए।
7. सेवा में नियुक्ति— इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में सभी नियुक्तियां स्वशासी संस्था के नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भरती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् की जायेगी, अन्यथा नहीं।
8. सीधी भरती की पात्रता की शर्तें — चयन किए जाने हेतु पात्रता के लिये अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, अर्थात्:—
- (1) आयु—
- (क) चयन के प्रारंभ होने की तिथि के पश्चात् की आगामी जनवरी के प्रथम दिवस को उसने अनुसूची-तीन के कालम (4) में दर्शाई गई आयु पूरी कर ली हो और उक्त अनुसूची के कालम (5) में दर्शाई गई आयु पूरी नहीं की हो।
- (ख) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी पद धारण कर रहा हो और अन्य पद के लिए आवेदन करता है, 45 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्य कर रहे कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।

(ग) ऐसे अभ्यर्थी को, जो छंटनी किया गया शासकीय कर्मचारी है, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष की सीमा तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो,

**स्पष्टीकरण:**— पद “छंटनी किया गया शासकीय कर्मचारी” से अभिहित है, ऐसा व्यक्ति, जो इस राज्य की अथवा किसी संघटक इकाई की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छह मास की निरंतर कालावधि तक रहा था और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा, आवेदन पत्र देने की तारीख से, तीन वर्ष से अधिक पूर्व स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवामुक्त किया गया था।

(घ) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते कि उसके परिणामस्वरूप, जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

**स्पष्टीकरण:**— पद “भूतपूर्व सैनिक” से अभिहित है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा भारत सरकार के अधीन कम से कम छह मास की निरंतर कालावधि तक नियोजित रहा हो और जिसका किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा, आवेदन करने की तारीख से तीन वर्ष से अनधिक पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिश के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी की जाने के कारण छंटनी कर दी गई थी या जिसे अतिशेष घोषित कर दिया गया था :—

- (1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जो सेवानिवृत्ति रियायतों के अधीन मुक्त किए गए हैं,
- (2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा भरती किया गया है और जिन्हें (क) अल्प अवधि के अनुबंध पूर्ण हो जाने पर (ख) भरती की शर्तें पूर्ण कर लेने पर सेवामुक्त कर दिया गया है,

- (3) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कर्मचारी,
- (4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक, जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशनड अधिकारी भी आते हैं) जिन्हें उनकी संविदा पूरी हो जाने पर सेवामुक्त किया गया है,
- (5) ऐसे अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर 6 मास से अधिक समय तक निरंतर कार्य कर लेने के पश्चात् सेवामुक्त किया गया है,
- (6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया है,
- (7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवान्मुक्त किया गया है कि वे दक्ष सिपाही बनने के लिए योग्य नहीं हैं,
- (8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिनको गोली लग जाने, घाव हो जाने आदि के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया है,
- (9) आदिम जाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण के अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दम्पतियों को उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी।
- (10) "विक्रम पुरस्कार" धारण करने वाले खिलाड़ी अभ्यर्थियों को भी उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी।
- (11) उच्चतर आयु सीमा में स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेवा के नान कमीशनड अधिकारियों के मामले में उनके द्वारा की गई सेवा की कालावधि तक जो कि 8 वर्ष की सीमा के अधीन होगी, छूट दी जाएगी, किंतु किसी भी मामले में उनकी आयु उच्चतर आयु सीमा में 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

टिप्पणी—

(1) उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें उपनियम (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु में रियायत के अधीन चयन के लिए (ग्राह्य) किया गया है, इस ग्राह्य स्थिति में नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी यदि वे आवेदन करने के बाद चयन के पूर्व या पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं तथापि, यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा या पद से छंटनी की जाये, तो वे नियुक्ति के लिए पात्र बने रहेंगे।

(2) विभागीय अभ्यर्थियों को चयन के लिए उपस्थित होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करनी होगी।

(2) शैक्षणिक अर्हताएं – अभ्यर्थी के पास उस पद के लिये ऐसी शैक्षणिक एवं व्यावसायिक अर्हताएं तथा अनुभव होना चाहिए जैसा कि अनुसूची तीन के कालम (6) में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(3) फीस – उम्मीदवार को नियुक्ति प्राधिकारी/लोक सेवा आयोग /प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा निर्धारित फीस का भुगतान करना होगा।

#### 9. निरर्हता—

(i)- अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने का कोई भी प्रयत्न नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन के लिए उसे अनर्ह बनाएगा।

(ii)- कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दिनांक 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद दो से अधिक संतान हों, सेवा के किसी पद पर नियुक्ति के लिये निरर्ह होगा, परंतु कोई भी अभ्यर्थी जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता हो सेवा के किसी पद पर नियुक्ति के लिए निरर्ह नहीं होगा।

(iii)- कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, सेवा के किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा, परंतु जहाँ किसी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हो तो उसकी नियुक्ति का मामला अपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जावेगा।

(iv)- कोई भी पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों, और कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो, सेवा के किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी।

10. अभ्यर्थी की पात्रता – चयन के लिए अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अपात्रता के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा और ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है, समिति द्वारा चयन के लिये पात्र नहीं माना जावेगा।

### 11. प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भरती -

- (1) सेवा में सीधी भरती के लिये प्रतियोगी परीक्षा ऐसे अंतराल से की जाएगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर अवधारित करे
- (2) सेवा में सम्मिलित पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर नाम निर्दिष्ट की गई चयन समिति द्वारा किया जाएगा।
- (3) सीधी भरती से भरे जाने के लिए उपलब्ध रिक्त स्थानों के 16 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत तथा 14 प्रतिशत स्थान उन अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे जायेंगे, जो क्रमशः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य हों।
- (4) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का समुचित ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिये नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त समझा गया हो, उप नियम (3) के अधीन यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्त स्थानों पर नियुक्त किया जा सकेगा।
- (5) यदि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों के अभ्यर्थी उनके लिये आरक्षित सभी रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों तो शेष रिक्तियां शासन की पूर्व अनुज्ञा के बिना अन्य अभ्यर्थियों से नहीं भरी जायेगी। उन्हें उस प्रवर्ग जिसके लिये पद या पदों को आरक्षित किया गया है से भिन्न व्यक्तियों द्वारा भरे जाने के लिये किसी भी रीति से अनारक्षित नहीं किया जायेगा।

### 12. नियुक्ति के लिए चयन किए गए अभ्यर्थियों की सूची -

- (1) नियुक्ति प्राधिकारी (चयन समिति) सम्यक् रूप से चयन किए गए ऐसे अभ्यर्थियों की, जिन्होंने नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित मानक के अनुसार अर्हता प्राप्त कर ली हो, गुणागुण के आधार पर एक सूची तैयार करेगा तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के ऐसे अभ्यर्थियों की जो यद्यपि उस मानक के अनुसार अर्ह नहीं है, किन्तु जिन्हें नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शासन में दक्षता बनाए रखने का समुचित ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया गया हो, एक सूची तैयार करेगा। सूची को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भी प्रकाशित किया जाएगा।
- (2) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के उपबंधों के अधीन रहते हुए उपलब्ध रिक्त स्थानों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के बारे में उसी क्रम से विचार किया जाएगा, जिस क्रम में सूची में उनके नाम दिए गए हों।



- (3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किए जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी जांच करने बाद, जिसे वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

13. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति :-

- (1) पात्र अभ्यर्थियों का पदोन्नति के लिये प्रारंभिक चयन करने के लिये एक समिति गठित की जायेगी, जिसमें अनुसूची चार में उल्लेखित सदस्य होंगे।
- (2) विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक ऐसे अंतरालों में होगी, जो साधारण तौर पर एक वर्ष से अधिक न हो
- (3) पदोन्नति कोटे के रिक्त पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया, सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार होगी।

14. पदोन्नति के लिये पात्रता संबंधी शर्तें :-

- (1) उप नियम (2) के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, विभागीय पदोन्नति समिति, उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की 1 जनवरी को, अनुसूची चार के कालम (2) में उल्लिखित पद पर या किसी अन्य पद या सरकार द्वारा घोषित समतुल्य पदों पर, निर्धारित वर्षों की सेवा (चाहे स्थानापन्न या मूल रूप में) जिसकी संख्या उक्त अनुसूची के कालम (4) में यथा विनिर्दिष्ट वर्षों की संख्या से कम न हो। परन्तु किसी कनिष्ठ व्यक्ति को, उससे वरिष्ठ पर अधिमानता देकर प्रवर श्रेणी/पदोन्नति के लिये केवल इस आधार पर विचार नहीं किया जायेगा कि उसने विहित सेवा पूर्ण कर ली है।
- (2) चयन सूची में सम्मिलित किए जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या यथा समय सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों के अनुरूप होगी। परन्तु यदि इस प्रकार अवधारित किए गए क्षेत्र में उपयुक्त अधिकारी अपेक्षित संख्या में उपलब्ध न हों तो समिति क्षेत्र को, उस सीमा तक जहाँ तक कि वह आवश्यक समझे, लिखित में कारणों का उल्लेख करते हुए, बढ़ा सकेगी।

15. उपयुक्त व्यक्तियों की सूची तैयार करना -

- (1) समिति ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार करेगी, जो उपरोक्त नियम 14 में विहित शर्तों को पूरा करते हों तथा समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति हेतु उपयुक्त ठहराए गए हों, यह सूची, चयन सूची तैयार करने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवा निवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली

प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त होगी। उक्त सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या के 25 प्रतिशत व्यक्तियों की एक प्रतिक्षा सूची उपर्युक्त कालावधि के दौरान होने वाली अनपेक्षित रिक्तियों को भरने के लिये तैयार की जायेगी।

- (2) ऐसी सूची में सम्मिलित किया जाने वाला चयन वरिष्ठता पर समूचित रूप से ध्यान देते हुये योग्यता तथा सभी दृष्टि से उपयुक्ता पर आधारित होगा।
- (3) सूची में सम्मिलित किये गये कर्मचारियों के नाम, प्रत्येक चयन सूची के तैयार करते समय, अनुसूची 4 के कालम (2) में यथा विनिर्दिष्ट पदों में ज्येष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे।

**स्पष्टीकरण** – ऐसे किसी व्यक्ति का, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो, किन्तु जो सूची की विधि मान्यता के दौरान पदोन्नत न किया गया हो, केवल उसके पूर्ववर्ती चयन के तथ्य से ही उन व्यक्ति के ऊपर, जिस पर पश्चातवर्ती चयन में विचार किया गया हो ज्येष्ठता का दावा नहीं रहेगा।

- (4) इस प्रकार तैयार की गई सूची की वैधता अवधि सामान्यतः एक वर्ष के लिये रहेगी।
- (5) यदि चयन पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान सेवा के किसी सदस्य का अधिक्रमण करना प्रस्तावित किया जाये तो समिति प्रस्तावित अधिक्रमण के कारण अभिलिखित करेगी।

#### 16. चयन सूची-

- (1) नियम 15 में तैयार की गई सूची सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदन के उपरांत अनुसूची चार के कॉलम (2) में दर्शाए गए पदों से अनुसूची चार के कालम (3) में दर्शाए गए पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिये चयन सूची होगी। अनपेक्षित रिक्तियों को भरने के लिये तैयार की जाएगी।
- (2) चयन सूची सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात् एक वर्ष की अवधि के लिये प्रवृत्त रहेगी किन्तु उसकी विधिमान्यता सरकार की अनुमति से 18 मास की कुल कालावधि से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकेगी। परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर चूक होने की दशा में सरकार द्वारा चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि वह उचित समझे, ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटाया जा सकेगा।

#### 17. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.-

- (1) चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों की सेवा संवर्ग के अंतर्गत आने वाले पदों पर नियुक्ति उसी क्रम में की जाएगी जिस क्रम में ऐसे नाम चयन सूची में हों।

- (2) ऐसे किसी व्यक्ति जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित है, सेवा में नियुक्ति के पूर्व सरकार से परामर्श करना सामान्यतः तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित किए जाने के दौरान उसके कार्य में ऐसी गिरावट न आ गई हो, जो सरकार की राय में ऐसी हो जिससे वह सेवा में नियुक्ति के लिये अनुपयुक्त हो गया हो।
18. **परिवीक्षा.**— सेवा में सीधी भरती किए गए प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।
19. **आरक्षण.**— शासन के प्रचलित नियमों में दिये गये प्रावधानानुसार आरक्षण लागू रहेंगे। इन नियमों की कोई भी बात अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार उपबंधित किए जाने के लिये अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेंगी।
20. **अनुकम्पा नियुक्ति.**— स्वशासी सेवा में नियुक्ति अधिकारी/कर्मचारी की सेवा में रहते मृत्यु होने पर उसके आश्रितों में से किसी एक को अनुकम्पा नियुक्ति तत्समय प्रचलित शासकीय नियमानुसार दी जावेगी।
21. **कमोन्नति/समयमान वेतनमान.**— स्वशासी सेवा में नियुक्त कर्मचारियों/अधिकारियों को कमोन्नति/समयमान वेतनमान तत्समय प्रचलित शासकीय नियमानुसार देय होगा।
22. **निर्वचन.**— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।
23. **निरसन और व्यावृत्ति.**—
- (1) इन नियमों के तत्स्थानी तथा इनके प्रारंभ होने के पूर्व प्रवृत्त सभी नियम इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद् द्वारा निरस्त किए जाते हैं। परन्तु इस प्रकार निरसित किए गए नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जावेगी।
- (2) इन नियमों में दी गई किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे व्यक्ति के संबंध में जिस पर ये नियम लागू होते हों, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को सीमित या कम करती है जो उसके उचित और न्यायसंगत प्रतीत होती हो।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एस. एस. कुमारे, उपसचिव.

अनुसूची-एक  
(नियम-5 देखिए)

1. आयुर्वेद कालेज					
1. ए- पं० खुशीलाल शर्मा शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान, भोपाल					
अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	चिकित्सा विशेषज्ञ (एलोपैथी)	1	द्वितीय	15600-39100+5400	
2.	शल्य विशेषज्ञ (एलोपैथी)	1	द्वितीय	15600-39100+5400	
3.	प्रसूति एवं स्त्रीरोग विशेषज्ञ (एलोपैथी)	1	द्वितीय	15600-39100+5400	
4.	दंत चिकित्सक	1	द्वितीय	15600-39100+5400	
5.	फार्माकोग्नोसिस्ट	1	द्वितीय	15600-39100+5400	
6.	एनेस्थेटिस्ट	1	द्वितीय	15600-39100+5400	
7.	फार्माकोलोजिस्ट	1	द्वितीय	15600-39100+5400	
8.	बायो-कैमिस्ट	1	द्वितीय	15600-39100+5400	
9.	ऐनालिटिकल कैमिस्ट	1	द्वितीय	15600-39100+5400	
10.	क्लीनिकल रजिस्ट्रार	5	द्वितीय	15600-39100+5400	
11.	डिप्टी सुपरिटेण्डेंट	1	द्वितीय	15600-39100+5400	
12.	पंचकर्म चिकित्सक (1-महिला/1-पुरुष)	2	द्वितीय	15600-39100+5400	
13.	केजुयेल्टी मेडिकल आफिसर	3	द्वितीय	15600-39100+5400	
14.	रेडियोलॉजिस्ट	1	द्वितीय	15600-39100+5400	
15.	फार्मास्युटिकल कैमिस्ट	1	द्वितीय	15600-39100+5400	
16.	माइक्रोबायोलॉजिस्ट	1	द्वितीय	15600-39100+5400	
17.	बायोटेक्नोलॉजिस्ट	1	द्वितीय	15600-39100+5400	
18.	पैथोलॉजिस्ट	1	द्वितीय	15600-39100+5400	
19.	क्रीडाधिकारी	1	द्वितीय	15600-39100+5400	
20.	लाईब्रेरियन	1	द्वितीय	15600-39100+5400	
21.	डिप्टी मैनेजर	1	द्वितीय	15600-39100+5400	
22.	स्टेटीस्टीशियन	1	द्वितीय	15600-39100+5400	
23.	प्रशासकीय अधिकारी	1	तृतीय	9300-34800+4200	
24.	मैट्रन	1	तृतीय	9300-34800+4200	

25.	कनिष्ठ यंत्री	1	तृतीय	9300-34800+3600	
26.	फिजियोथेरेपिस्ट	1	तृतीय	9300-34800+3600	
27.	उद्यान अधीक्षक	1	तृतीय	9300-34800+3600	
28.	कार्यालय अधीक्षक	1	तृतीय	9300-34800+3600	
29.	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	1	तृतीय	9300-34800+3600	
30.	शीघ्रलेखक	1	तृतीय	5200-20200+2800	
31.	असिस्टेंट मैट्रन	2	तृतीय	9300-34800+2800	
32.	सहायक ग्रेड-1	1	तृतीय	5200-20200+2800	
33.	सहायक लाईब्रेरियन	1	तृतीय	5200-20200+2800	
34.	नर्स/स्टॉफ नर्स	32	तृतीय	5200-20200+2800	(ब्रम्हस्वरूप)
35.	फार्मासिस्ट	17	तृतीय	5200-20200+2400	
36.	ओ.टी टेक्नीशियन	6	तृतीय	5200-20200+2400	
37.	पंचकर्म टेक्नीशियन	5	तृतीय	5200-20200+2400	
38.	लेब टेक्नीशियन	16	तृतीय	5200-20200+2400	
39.	रिफ्रेक्सनिस्ट	1	तृतीय	5200-20200+2400	
40.	आडियोमेट्रिस्ट	1	तृतीय	5200-20200+2400	
41अ.	म्यूजियम कीपर (उच्च वेतनमान)	5	तृतीय	5200-20200+2400	
41ब.	म्यूजियम कीपर (निम्न वेतनमान)	8	तृतीय	5200-20200+1900	
42.	क्षारसूत्र टेक्नीशियन	1	तृतीय	5200-20200+2400	
43.	एक्स-रे टेक्नीशियन	1	तृतीय	5200-20200+2400	
44.	लेखापाल	2	तृतीय	5200-20200+2400	
45.	सहायक ग्रेड-2	3	तृतीय	5200-20200+2400	
46.	स्टोर कीपर	3	तृतीय	5200-20200+2400	
47.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	2	तृतीय	5200-20200+2400	
48.	आर्टिस्ट	1	तृतीय	5200-20200+2400	
49.	फोटोग्राफर	1	तृतीय	5200-20200+2400	
50.	कम्प्यूटर आपरेटर सह सहायक {14 - प्रत्येक अकादमिक विभाग के लिए (1-1)}	14	तृतीय	5200-20200+1900	
51.	डाटा ऐन्ट्री आपरेटर(चिकित्सालय हेतु)	1	तृतीय	5200-20200+1900	
52.	फोन आपरेटर सह स्वागती (रिसेप्शनिस्ट)	1	तृतीय	5200-20200+1900	
53.	सहायक ग्रेड-3	4	तृतीय	5200-20200+1900	
54.	पंचकर्म सहायक (म./पु.)	19	तृतीय	5200-20200+1900	
55.	मशीन आपरेटर	1	तृतीय	5200-20200+1900	
56.	पम्प मैकेनिक	1	तृतीय	5200-20200+1900	

57.	एनीमल फीडर	2	तृतीय	5200-20200+1900	
58.	भैषज्य कल्पक	3	तृतीय	5200-20200+1900	
59.	डार्करूम अटेंडेंट	1	तृतीय	5200-20200+1900	
60.	लेबोरेटरी सहायक- क्रिया शरीर-1, शालाक्य-1, फार्माकोलॉजी-2, फार्मास्युटिकल केमेस्ट्री-1 रोग निदान-1, माइक्रोबायोलॉजी-1 तथा अन्य-8	15	तृतीय	5200-20200+1900	
61.	ड्रेसर	3	तृतीय	5200-20200+1900	
62.	कम्प्यारण्डर	3	तृतीय	5200-20200+1900	
63.	माली	2	चतुर्थ	4440-7440+1800	
64.	ओ.टी अटेंडेंट	2	चतुर्थ	4440-7440+1400	
65.	ओ.टी अटेंडेंट	2	चतुर्थ	4440-7440+1300	
66.	14 अटेंडेंट प्रत्येक अकादमिक विभाग के लिए (1-1)	14	चतुर्थ	4440-7440+1300	
67.	लेबर रूम अटेंडेंट	3	चतुर्थ	4440-7440+1300	
68.	मिडवाईफ/वार्डवाय/ आया	20	चतुर्थ	4440-7440+1300	
69.	लिफ्ट मेन	5	चतुर्थ	4440-7440+1300	
70.	स्वीपर/स्वच्छक	32	चतुर्थ	4440-7440+1300	
71.	लेबोरेटरी अटेंडेंट- फार्माकोलॉजी-2, माइक्रोबायोलॉजी-1 तथा अन्य-10	13	चतुर्थ	4440-7440+1300	
72.	लाईब्रेरी अटेंडेंट	2	चतुर्थ	4440-7440+1300	
73.	ओपीडी अटेंडेंट	11	चतुर्थ	4440-7440+1300	
74.	भृत्य सह चौकीदार सह फर्गस	3	चतुर्थ	4440-7440+1300	
75.	भृत्य	3	चतुर्थ	4440-7440+1300	
76.	चौकीदार	4	चतुर्थ	4440-7440+1300	
77.	बॉडी लिफ्टर	2	चतुर्थ	4440-7440+1300	
78.	स्वीपर (पार्ट टाइम निश्चित वेतन पर)	2	-	-	
79.	वाहन चालक (कलक्टर द्वारा विहित दर पर)	3	-	-	
80.	क्लीनर (कलक्टर द्वारा विहित दर पर)	1	-	-	
	योग	338			

1 बी- पं0 शिवनाथ शास्त्री शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय, बुरहानपुर					
अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	टिप्पण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	अधीक्षक	1	प्रथम	15900-39100+6600	
2.	रेडियोलॉजिस्ट	1	द्वितीय	15900-39100+5400	
3.	आर.एम.ओ.	1	द्वितीय	15900-39100+5400	
4.	औषधि निर्माण वैद्य	1	द्वितीय	15900-39100+5400	
5.	पैथोलॉजिस्ट	1	द्वितीय	15900-39100+5400	
6.	पंचकर्म चिकित्सक (1-म./1 पु.)	1	द्वितीय	15600-39100+5400	
7.	आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी	1	द्वितीय	15900-39100+5400	
8.	महिला आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी	1	द्वितीय	15900-39100+5400	
9.	मेट्रन	1	तृतीय	9300-34800+4200	
10.	फिजियोथेरेपिस्ट	1	तृतीय	9300-34800+3600	
11.	नर्सिंग सिस्टर	1	तृतीय	5200-20200+3600	(ब्रम्हस्वरूप)
12.	नर्स	10	तृतीय	5200-20200+2800	(ब्रम्हस्वरूप)
13.	पंचकर्म टेक्नीशियन	1	तृतीय	5200-20200+2400	
14.	क्षारसूत्र टेक्नीशियन	1	तृतीय	5200-20200+2400	
15.	मुख्य लिपिक/हेड क्लर्क	2	तृतीय	5200-20200+2400	
16.	एक्स-रे टेक्नीशियन	1	तृतीय	5200-20200+2400	
17.	अकाउंटेंट	1	तृतीय	5200-20200+2400	
18.	म्यूजियम कीपर कम आर्टिस्ट	2	तृतीय	5200-20200+2400	(ब्रम्हस्वरूप)
19.	सहायक ग्रेड-2	1	द्वितीय	5200-20200+2400	
20.	स्टोर कीपर	1	तृतीय	5200-20200+2400	
21.	लैब टेक्नीशियन	1	तृतीय	5200-20200+2400	
22.	सहायक ग्रेड-3/टायपिस्ट कम क्लर्क	8	तृतीय	5200-20200+1900	
23.	पंचकर्म सहायक (म./पु.)	1	तृतीय	5200-20200+1900	
24.	डार्करूम अटेंडेंट	1	तृतीय	5200-20200+1900	
25.	ड्रेसर	2	तृतीय	5200-20200+1900	
26.	कम्पाउण्डर	4	तृतीय	5200-20200+1900	
27.	ओ.टी अटेंडेंट	2	चतुर्थ	4440-7440+1400	
28.	दवासाज (मिनी फार्मसी)	2	चतुर्थ	4440-7440+1300	
29.	लेबोरेटरी अटेंडेंट	1	चतुर्थ	4440-7440+1300	

30.	ओपीडी अटेंडेंट (6 विभागों में प्रत्येक हेतु 1)	4	चतुर्थ	4440-7440+1300	
31.	लेबर रूम अटेंडेंट	1	चतुर्थ	4440-7440+1300	
32.	भृत्य	6	चतुर्थ	4440-7440+1300	
33.	वार्ड वाय	5	चतुर्थ	4440-7440+1300	
34.	स्वीपर	1	चतुर्थ	4440-7440+1300	
35.	स्वच्छक/स्वीपर (नैमित्तिक देय)	4	चतुर्थ	—	
36.	चौकीदार (नैमित्तिक देय)	2	चतुर्थ	—	
37.	रसोईया (नैमित्तिक देय)	2	चतुर्थ	—	
38.	वाटर मेन (नैमित्तिक देय)	1	चतुर्थ	—	
39.	किचन सर्वेन्ट (नैमित्तिक देय)	1	चतुर्थ	—	
40.	धोबी (नैमित्तिक देय)	1	चतुर्थ	—	
	योग	81			

1.सी- शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, ग्वालियर

क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	अधीक्षक चिकित्सालय	1	प्रथम	15600-39100+6600	
2.	रीडर साहित्य अनुसंधान	1	प्रथम	15600-39100+6600	
3.	चिकित्सा विशेषज्ञ (एलोपैथी)	1	द्वितीय	15600-39100+5400	
4.	शल्य विशेषज्ञ (एलोपैथी)	1	द्वितीय	15600-39100+5400	
5.	प्रसूति एवं स्त्रीरोग विशेषज्ञ (एलोपैथी)	1	द्वितीय	15600-39100+5400	
6.	दंत चिकित्सक	1	द्वितीय	15600-39100+5400	
7.	फार्माकोग्नोसिस्ट	1	द्वितीय	15600-39100+5400	
8.	एनेस्थेसिस्ट	1	द्वितीय	15600-39100+5400	
9.	फार्माकोलोजिस्ट	1	द्वितीय	15600-39100+5400	
10.	बायो-कैमिस्ट	1	द्वितीय	15600-39100+5400	
11.	ऐनालिटिकल कैमिस्ट	1	द्वितीय	15600-39100+5400	
12.	क्लीनिकल रजिस्ट्रार	6	द्वितीय	15600-39100+5400	
13.	डिप्टी सुपरिटेण्डेंट	1	द्वितीय	15600-39100+5400	
14.	पंचकर्म चिकित्सक (महिला/पुरुष)	2	द्वितीय	15600-39100+5400	



15.	पैथोलॉजिस्ट	1	द्वितीय	15600-39100+5400	
16.	बोटनिस्ट कम फार्माकोग्नोसिस्ट	1	द्वितीय	15600-39100+5400	
17.	रिसर्च ऑफीसर	1	द्वितीय	15600-39100+5400	
18.	सीनियर रिसर्च वैद्य	1	द्वितीय	15600-39100+5400	
19.	जूनियर रिसर्च वैद्य	1	द्वितीय	15600-39100+5400	
20.	रेडियोलॉजिस्ट	1	द्वितीय	15600-39100+5400	
21.	आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी (आर.एम.ओ.)	2	द्वितीय	15600-39100+5400	
22.	महिला आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी	1	द्वितीय	15600-39100+5400	
23.	मेट्रन	1	द्वितीय	9300-34800+4200	
24.	फिजियोथेरेपिस्ट	1	तृतीय	9300-34800+3600	
25.	नर्सिंग सिस्टर	1	तृतीय	9300-34800+3600	(ब्रम्हस्वरूप)
26.	असिस्टेंट मेट्रन	1	तृतीय	9300-34800+2800	
27.	पुस्तकालयाध्यक्ष (लाईब्रेरियन)	1	तृतीय	5200-20200+2800	
28.	रिसर्च लाईब्रेरियन	1	तृतीय	5200-20200+2800	
29.	प्रदर्शक विज्ञान	1	तृतीय	5200-20200+2800	
30.	नर्स/स्टॉफ नर्स	22	तृतीय	5200-20200+2800	(ब्रम्हस्वरूप)
31.	लेब टेक्नीशियन	10	तृतीय	5200-20200+2400	
32.	रिफेक्सनिस्ट	1	तृतीय	5200-20200+2400	
33.	आडियोमेट्रिस्ट	1	तृतीय	5200-20200+2400	
34.	म्यूजियम कीपर	4	तृतीय	5200-20200+2400	
35.	रेडियोग्राफर	1	तृतीय	5200-20200+2400	
36.	क्षारसूत्र टेक्नीशियन	1	तृतीय	5200-20200+2400	
37.	व्यायाम शिक्षक	1	तृतीय	5200-20200+2400	
38.	फार्मासिस्ट	8	तृतीय	5200-20200+2400	
39.	आर्टिस्ट	1	तृतीय	5200-20200+2400	
40.	मुख्य लिपिक/सहायक ग्रेड-2	4	तृतीय	5200-20200+2400	
41.	लेखापाल	1	तृतीय	5200-20200+2400	
42.	पंचकर्म टेक्नीशियन	1	तृतीय	5200-20200+2400	
43.	म्यूजियम कीपर कम आर्टिस्ट	3	तृतीय	5200-20200+2400	(ब्रम्हस्वरूप)
44.	जूनियर वैद्य	4	तृतीय	5200-20200+2100	
45.	सहायक ग्रेड-3	13	तृतीय	5200-20200+1900	
46.	म्यूजियम असिस्टेंट	1	तृतीय	5200-20200+1900	
47.	एक्स-रे असिस्टेंट	1	तृतीय	5200-20200+1900	
48.	कारपेंटर	1	तृतीय	5200-20200+1900	(ब्रम्हस्वरूप)
49.	ड्रायवर	1	तृतीय	5200-20200+1900	

50.	ड्रेसर	3	तृतीय	5200-20200+1900	
51.	कम्पाउण्डर	7	तृतीय	5200-20200+1900	
52.	कम्प्युटर आपरेटर सह असिस्टेंट {14 - प्रत्येक अकादमिक विभाग के लिए (1-1)}	14	तृतीय	5200-20200+1900	
53.	असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन	3	तृतीय	5200-20200+1900	
54.	लैब असिस्टेंट	12	तृतीय	5200-20200+1900	
55.	डाटा ऐन्ट्री आपरेटर (चिकित्सालय हेतु)	1	तृतीय	5200-20200+1900	
56.	फोन आपरेटर सह स्वागती (रिसेप्शनिस्ट)	1	तृतीय	5200-20200+1900	
57.	पंचकर्म सहायक (महिला/पुरुष)	8	तृतीय	5200-20200+1900	
58.	लैब/लेबोरेटरी अटेंडेंट	14	तृतीय	5200-20200+1800	
59.	ओ.टी अटेंडेंट	2	तृतीय	4440-7440+1400	
60.	लायब्रेरी अटेंडेंट	1	तृतीय	4440-7440+1400	
61.	हेड माली	1	तृतीय	4440-7440+1400	
62.	दफ्तरी	1	तृतीय	4440-7440+1300	
63.	ओपीडी अटेंडेंट	4	चतुर्थ	4440-7440+1300	
64.	लेबर रूम अटेंडेंट	2	चतुर्थ	4440-7440+1300	
65.	माली	2	चतुर्थ	4440-7440+1300	
66.	प्यून कम सायकिलिस्ट	4	चतुर्थ	4440-7440+1300	
67.	सर्वेन्ट	2	चतुर्थ	4440-7440+1300	
68.	भृत्य	5	तृतीय	4440-7440+1300	
69.	फर्शा	2	चतुर्थ	4440-7440+1300	
70.	चौकीदार	3	चतुर्थ	4440-7440+1300	
71.	स्वीपर/स्वच्छक	34	चतुर्थ	4440-7440+1300	
72.	धोबी	1	चतुर्थ	4440-7440+1300	
73.	इंफिरियर	4	चतुर्थ	4440-7440+1300	
74.	खल्लासी	1	चतुर्थ	4440-7440+1300	
75.	लैब अटेंडेंट	14	चतुर्थ	4440-7440+1300	
76.	ओ.टी अटेंडेंट	1	चतुर्थ	4440-7440+1300	
77.	अटेंडेंट 14 प्रत्येक अकादमिक विभाग के लिए (1-1)	14	चतुर्थ	4440-7440+1300	

78.	मिडवाईफ/ वार्डबॉय / आया	12	चतुर्थ	4440-7440+1300	
79.	आया	14	चतुर्थ	4440-7440+1300	
80.	वार्ड बॉय	2	चतुर्थ	4440-7440+1300	
81.	बॉडी लिफ्टर	1	चतुर्थ	4440-7440+1300	
	योग	301			

1. डी- शासकीय (स्वशासी) अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय, इंदौर

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	अधीक्षक चिकित्सालय	1	प्रथम	15900-39100+6600	
2.	रेडियोलॉजिस्ट	1	द्वितीय	15900-39100+5400	
3.	पैथोलॉजिस्ट	1	द्वितीय	15900-39100+5400	
4.	पंचकर्म चिकित्सक (म./पु.)	1	द्वितीय	15900-39100+5400	
5.	औषधि निर्माण वैद्य	1	द्वितीय	15900-39100+5400	
6.	मेट्रन	1	तृतीय	9300-34800+4200	
7.	फिजियोथेरेपिस्ट	1	तृतीय	9300-34800+3600	
8.	नर्सिंग सिस्टर	3	तृतीय	5200-20200+3600	
9.	नर्स /स्टाफ नर्स	13	तृतीय	9300-34800+3600	(ब्रम्हस्वरूप)
10.	पी.टी.आई.	1	तृतीय	5200-20200+2400	
11.	पंचकर्म टेक्नीशियन	1	तृतीय	5200-20200+2400	
12.	क्षारसूत्र टेक्नीशियन	1	तृतीय	5200-20200+2400	
13.	एक्स-रे टेक्नीशियन	1	तृतीय	5200-20200+2400	
14.	मुख्य लिपिक/सहायक ग्रेड-2	5	तृतीय	5200-20200+2400	
15.	लेखापाल	2	तृतीय	5200-20200+2400	
16.	स्टोर कीपर	2	तृतीय	5200-20200+2400	
17.	लैब टेक्नीशियन	2	तृतीय	5200-20200+2400	
18.	सहायक ग्रेड-3	8	तृतीय	5200-20200+1900	
19.	लाईब्रेरियन कम म्यूजियम कीपर	1	तृतीय	5200-20200+1900	
20.	पंचकर्म असिस्टेंट (म./पु.)	1	तृतीय	5200-20200+1900	
21.	लैब असिस्टेंट	1	तृतीय	5200-20200+1900	
22.	ड्रेसर	3	तृतीय	5200-20200+1900	
23.	कम्पाउण्डर	6	तृतीय	5200-20200+1900	
24.	कारपेंटर	1	तृतीय	5200-20200+1900	ब्रम्हस्वरूप
25.	ड्रायवर	1	तृतीय	5200-20200+1900	
26.	डार्करूम अटेन्डेंट	1	तृतीय	5200-20200+1900	

27.	लेबोरेटरी अटेंडेंट	5	तृतीय	5200-20200+1900	
28.	ओ.टी अटेंडेंट	2	तृतीय	4440-7440+1400	
29.	दाई	2	तृतीय	4440-7440+1400	
30.	ओपीडी अटेंडेंट (6 विभागों में प्रत्येक हेतु 01)	4	चतुर्थ	4440-7440+1300	
31.	लेबर रूम अटेंडेंट	1	चतुर्थ	4440-7440+1300	
32.	भृत्य	7	चतुर्थ	4440-7440+1300	
33.	चौकीदार	2	चतुर्थ	4440-7440+1300	
34.	वार्ड वाय	5	चतुर्थ	4440-7440+1300	
35.	दफतरी	1	चतुर्थ	4440-7440+1300	
36.	दवासाज	5	चतुर्थ	4440-7440+1300	
37.	रावत	1	चतुर्थ	4440-7440+1300	
38.	कुक	2	चतुर्थ	4440-7440+1300	
39.	रसोईया	1	चतुर्थ	4440-7440+1300	
40.	वाटर मेन	2	चतुर्थ	4440-7440+1300	
41.	स्वीपर	2	चतुर्थ	4440-7440+1300	
42.	वार्ड वाय (कलक्टर दर पर विहित)	1	-	-	
43.	चौकीदार (कलक्टर दर पर विहित)	1	-	-	
44.	रसोईया (कलक्टर दर पर विहित)	1	-	-	
45.	वाटर मेन (कलक्टर दर पर विहित)	2	-	-	
46.	वाशर मेन (कलक्टर दर पर विहित)	2	-	-	
47.	किचन सर्वेन्ट (कलक्टर दर पर विहित)	2	-	-	
48.	स्वच्छक (नैमित्तिक देय)	4	-	-	
	योग	116			

1. ई- शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय, जबलपुर

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	अधीक्षक चिकित्सालय	1	प्रथम	15600-39100+6600	
2.	रेडियोलॉजिस्ट	1	द्वितीय	15900-39100+5400	
3.	पैथोलॉजिस्ट	1	द्वितीय	15900-39100+5400	
4.	पंचकर्म चिकित्सक (म./पु.)	1	द्वितीय	15900-39100+5400	
5.	आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी	3	द्वितीय	15900-39100+5400	
6.	औषधि निर्माण वैद्य	1	द्वितीय	15900-39100+5400	

7.	मेट्रन	1	द्वितीय	9300-34800+4200	
8.	फिजियोथेरेपिस्ट	1	तृतीय	9300-34800+3600	
9.	नर्सिंग सिस्टर	1	तृतीय	9300-34800+3600	ब्रम्हस्वरूप
10.	प्रदर्शक विज्ञान	1	तृतीय	5200-20200+2800	
11.	स्टाफ नर्स	10	तृतीय	5200-20200+2800	ब्रम्हस्वरूप
12.	पी.टी.आई.	1	तृतीय	5200-20200+2400	
13.	पंचकर्म टेक्नीशियन	1	तृतीय	5200-20200+2400	
14.	क्षारसूत्र टेक्नीशियन	1	तृतीय	5200-20200+2400	
15.	एक्स-रे टेक्नीशियन	1	तृतीय	5200-20200+2400	
16.	मुख्य लिपिक/सहायक ग्रेड-2	3	तृतीय	5200-20200+2400	
17.	लेखापाल	1	तृतीय	5200-20200+2400	
18.	स्टोर कीपर	1	तृतीय	5200-20200+2400	
19.	लैब टेक्नीशियन	1	तृतीय	5200-20200+2400	
20.	म्यूजियम कीपर कम आर्टिस्ट	1	तृतीय	5200-20200+2400	ब्रम्हस्वरूप
21.	सहायक ग्रेड-3	7	तृतीय	5200-20200+1900	
22.	लैब असिस्टेंट	1	तृतीय	5200-20200+1900	
23.	डार्करूम अटेंडेंट	1	तृतीय	5200-20200+1900	
24.	म्यूजियम असिस्टेंट कम लायब्रेरियन	1	तृतीय	5200-20200+1900	
25.	कारपेंटर	1	तृतीय	5200-20200+1900	ब्रम्हस्वरूप
26.	पंचकर्म सहायक (म/पु)	1	तृतीय	5200-20200+1900	
27.	ड्रेसर	3	तृतीय	5200-20200+1900	
28.	कम्पाउण्डर	3	तृतीय	5200-20200+1900	
29.	ओ.टी अटेंडेंट	2	चतुर्थ	4440-7440+1400	
30.	दफतरी	1	चतुर्थ	4440-7440+1400	
31.	लेबोरेटरी अटेंडेंट	5	चतुर्थ	4440-7440+1300	
32.	ओपीडी अटेंडेंट	4	चतुर्थ	4440-7440+1300	
33.	लेबर रूम अटेंडेंट	1	चतुर्थ	4440-7440+1300	
34.	भृत्य	5	चतुर्थ	4440-7440+1300	
35.	चौकीदार	1	चतुर्थ	4440-7440+1300	
36.	वार्ड बॉय	4	चतुर्थ	4440-7440+1300	
37.	दवासाज	2	चतुर्थ	4440-7440+1300	
38.	कुक	2	चतुर्थ	4440-7440+1300	
39.	वाटर मेन	2	चतुर्थ	4440-7440+1300	
40.	किचन सर्वेन्ट	1	चतुर्थ	4440-7440+1300	
41.	धोबी	2	चतुर्थ	4440-7440+1300	

42.	स्वच्छक	3	चतुर्थ	4440-7440+1300	
	योग	86			

1. एफ- शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय, रीवा					
अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	अधीक्षक चिकित्सालय	1	प्रथम	15600-39100+6600	
2.	चिकित्सा विशेषज्ञ (एलोपैथी)	1	द्वितीय	15600-39100+5400	
3.	शल्य विशेषज्ञ (एलोपैथी)	1	द्वितीय	15600-39100+5400	
4.	प्रसूति एवं स्त्रीरोग विशेषज्ञ (एलोपैथी)	1	द्वितीय	15600-39100+5400	
5.	दंत चिकित्सक	1	द्वितीय	15600-39100+5400	
6.	फार्माकोग्नोसिस्ट	1	द्वितीय	15600-39100+5400	
7.	एनेस्थेटिस्ट	1	द्वितीय	15600-39100+5400	
8.	फार्माकोलोजिस्ट	1	द्वितीय	15600-39100+5400	
9.	बायो-कैमिस्ट	1	द्वितीय	15600-39100+5400	
10.	ऐनालिटिकल कैमिस्ट	1	द्वितीय	15600-39100+5400	
11.	क्लीनिकल रजिस्ट्रार	6	द्वितीय	15600-39100+5400	
12.	डिप्टी सुपरिटेण्डेंट	1	द्वितीय	15600-39100+5400	
13.	पंचकर्म चिकित्सक (1-म./1-पु.)	2	द्वितीय	15900-39100+5400	
14.	आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी	4	द्वितीय	15600-39100+5400	
15.	रेडियोलॉजिस्ट	1	द्वितीय	15900-39100+5400	
16.	पैथोलॉजिस्ट	1	द्वितीय	15900-39100+5400	
17.	औषधि निर्माण वैद्य	1	द्वितीय	15900-39100+5400	
18.	मेट्रन	1	तृतीय	9300-34800+4200	
19.	फिजियोथेरेपिस्ट	1	तृतीय	9300-34800+3600	
20.	नर्सिंग सिस्टर	1	तृतीय	9300-34800+3600	(ब्रम्हस्वरूप)
21.	असिस्टेंट मेट्रन	1	तृतीय	5200-20200+2800	
22.	स्टाफ नर्स	22	तृतीय	5200-20200+2800	

23.	फार्मासिस्ट	8	तृतीय	5200-20200+2400	
24.	पंचकर्म टेक्नीशियन	1	तृतीय	5200-20200+2400	
25.	एक्स-रे टेक्नीशियन	1	तृतीय	5200-20200+2400	
26.	लेब टेक्नीशियन	1	तृतीय	5200-20200+2400	
27.	रिफ्रेक्सनिस्ट	6	तृतीय	5200-20200+2400	
28.	आडियोमेट्रिस्ट	1	तृतीय	5200-20200+2400	
29.	म्यूजियम कीपर	1	तृतीय	5200-20200+2400	
30.	लेखापाल	3	तृतीय	5200-20200+2400	
31.	सहायक ग्रेड-2	1	तृतीय	5200-20200+2400	
32.	स्टोर कीपर	1	तृतीय	5200-20200+2400	
33.	क्षारसूत्र टेक्नीशियन	1	तृतीय	5200-20200+2400	
34.	म्यूजियम कीपर कम आर्टिस्ट	4	तृतीय	5200-20200+2400	ब्रम्हस्वरूप
35.	सहायक ग्रेड-3	6	तृतीय	5200-20200+1900	
36.	ड्रेसर	3	तृतीय	5200-20200+1900	
37.	पंचकर्म असिस्टेंट (4 महिला+4 पुरुष)	8	तृतीय	5200-20200+1900	
38.	कम्पाउण्डर	3	तृतीय	5200-20200+1900	
39.	डार्करूम अटेंडेंट	1	तृतीय	5200-20200+1900	
40.	कम्प्युटर आपरेटर सह सहायक {14 - प्रत्येक अकादमिक विभाग के लिए (1-1)}	14	तृतीय	5200-20200+1900	
41.	लैब असिस्टेंट	5	तृतीय	5200-20200+1900	
42.	डाटा ऐन्ट्री आपरेटर(चिकित्सालय हेतु)	1	तृतीय	5200-20200+1900	
43.	फोन आपरेटर सह स्वागती	1	तृतीय	5200-20200+1900	
44.	ओ.टी अटेंडेंट	2	चतुर्थ	4440-7440+1400	
45.	ओ.टी अटेंडेंट	1	चतुर्थ	4440-7440+1300	
46.	लेबोरेटरी अटेंडेंट/लैब अटेंडेंट	13	चतुर्थ	4440-7440+1300	
47.	ओपीडी अटेंडेंट (6 विभागों में प्रत्येक हेतु 01)	4	चतुर्थ	4440-7440+1300	
48.	लेबर रूम अटेंडेंट	2	चतुर्थ	4440-7440+1300	
49.	भृत्य	3	चतुर्थ	4440-7440+1300	
50.	वार्ड वाय	4	चतुर्थ	4440-7440+1300	
51.	दवासाज	2	चतुर्थ	4440-7440+1300	
52.	स्वीपर	3	चतुर्थ	4440-7440+1300	

53.	वाटर मेन	1	चतुर्थ	4440-7440+1300	
54.	किचन सर्वेन्ट	1	चतुर्थ	4440-7440+1300	
55.	अटेंडेंट 14 प्रत्येक अकादमिक विभाग के लिए (1-1)	14	चतुर्थ	4440-7440+1300	
56.	मिडवाईफ / वार्डवाय / आया	11	चतुर्थ	4440-7440+1300	
57.	बॉडी लिफ्टर	1	चतुर्थ	4440-7440+1300	
58.	स्वीपर/स्वच्छक	26	चतुर्थ	4440-7440+1300	
59.	चौकीदार (कन्टीजेन्सी)	2	-	-	
60.	धोबी(कन्टीजेन्सी)	2	-	-	
61.	कुक(कन्टीजेन्सी)	2	-	-	
62.	स्वीपर(कन्टीजेन्सी)	3	-	-	
	योग	220			

1. जी- शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, उज्जैन

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	अधीक्षक चिकित्सालय	1	प्रथम	15600-39100+6600	
2	चिकित्सा विशेषज्ञ (एलोपैथी)	1	द्वितीय	15600-39100+5400	
3.	शल्य विशेषज्ञ (एलोपैथी)	1	द्वितीय	15600-39100+5400	
4.	प्रसूति एवं स्त्रीरोग विशेषज्ञ (एलोपैथी)	1	द्वितीय	15600-39100+5400	
5.	दंत चिकित्सक	1	द्वितीय	15600-39100+5400	
6.	फार्माकोग्नोसिस्ट	1	द्वितीय	15600-39100+5400	
7.	एनेस्थेसिस्ट	1	द्वितीय	15600-39100+5400	
8.	फार्माकोलोजिस्ट	1	द्वितीय	15600-39100+5400	
9.	बायो-कैमिस्ट	1	द्वितीय	15600-39100+5400	
10.	ऐनालिटिकल कैमिस्ट	1	द्वितीय	15600-39100+5400	
11.	क्लीनिकल रजिस्ट्रार	6	द्वितीय	15600-39100+5400	
12.	डिप्टी सुपरिटेण्डेंट	1	द्वितीय	15600-39100+5400	
13.	पंचकर्म चिकित्सक (1-म./1-पु.)	2	द्वितीय	15900-39100+5400	
14.	आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी	4	द्वितीय	15900-39100+5400	



15.	औषधि निर्माण वैद्य	1	द्वितीय	15900-39100+5400	
16.	रेडियोलॉजिस्ट	1	द्वितीय	15900-39100+5400	
17.	पैथोलॉजिस्ट	1	द्वितीय	15900-39100+5400	
18.	केजुएल्टी मेडिकल आफिसर	1	द्वितीय	15900-39100+5400	
19.	मेट्रन	1	तृतीय	9300-34800+4200	
20.	फिजियोथेरेपिस्ट	1	तृतीय	9300-34800+3600	
21.	नर्सिंग सिस्टर	1	तृतीय	5200-20200+3600	ब्रम्हस्वरूप
22.	सहायक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी	1	द्वितीय	5200-20200+3200	ब्रम्हस्वरूप
23.	असिस्टेंट मेट्रन	1	तृतीय	9300-34800+2800	
24.	नर्स/स्टाफ नर्स	22	तृतीय	5200-20200+2800	ब्रम्हस्वरूप
25.	प्रदर्शक विज्ञान	1	तृतीय	5200-20200+2400	
26.	एक्स-रे टेक्नीशियन	1	तृतीय	5200-20200+2400	
27.	क्षारसूत्र टेक्नीशियन	1	तृतीय	5200-20200+2400	
28.	पंचकर्म टेक्नीशियन	1	तृतीय	5200-20200+2400	
29.	पी.टी.आई.	1	तृतीय	5200-20200+2400	
30.	मुख्य लिपिक/ सहायक ग्रेड-2	4	तृतीय	5200-20200+2400	
31.	लेखापाल	1	तृतीय	5200-20200+2400	
32.	फार्मासिस्ट	8	तृतीय	5200-20200+2400	
33.	माइक्रोबायलॉजी लेब टेक्नीशियन	1	तृतीय	5200-20200+2400	
34.	लेब टेक्नीशियन	7	तृतीय	5200-20200+2400	
35.	रिफ्रेक्सनिस्ट	1	तृतीय	5200-20200+2400	
36.	आडियोमेट्रिस्ट	1	तृतीय	5200-20200+2400	
37.	म्यूजियम कीपर	3	तृतीय	5200-20200+2400	
38.	म्यूजियम कीपर कम आर्टिस्ट	4	तृतीय	5200-20200+2400	ब्रम्हस्वरूप
39.	सहायक ग्रेड-3	11	तृतीय	5200-20200+1900	
40.	डार्करूम अटेंडेंट	1	तृतीय	5200-20200+1900	
41.	लायब्रेरियन कम म्यू. असि.	1	तृतीय	5200-20200+1900	
42.	पंचकर्म असिस्टेंट (4 म. +04 पु.)	8	तृतीय	5200-20200+1900	
43.	ड्रेसर	4	तृतीय	5200-20200+1900	
44.	कम्पाउण्डर	4	तृतीय	5200-20200+1900	
45.	कम्प्युटर आपरेटर सह असिस्टेंट {14 - प्रत्येक अकादमिक विभाग के लिए (1-1)}	14	तृतीय	5200-20200+1900	
46.	लेब असिस्टेंट	10	तृतीय	5200-20200+1900	
47.	डाटा ऐन्ट्री आपरेटर(चिकित्सालय हेतु)	1	तृतीय	5200-20200+1900	

48.	फोन आपरेटर सह स्वागती	1	तृतीय	5200-20200+1900	
49.	लेब अटेंडेंट / लेबोरेटरी अटेंडेंट	9	तृतीय	5200-20200+1900	
50.	कारपेंटर	1	तृतीय	5200-20200+1900	ब्रम्हस्वरूप
51.	भृत्य	5	चतुर्थ	4440-7440+1400	
52.	दफ्तरी	1	चतुर्थ	4440-7440+1400	
53.	रावत	1	चतुर्थ	4440-7440+1400	
54.	ओ.टी. अटेंडेंट	2	चतुर्थ	4440-7440+1400	
55.	लेबोरेटरी अटेंडेंट / लैब अटेंडेंट	2	चतुर्थ	4440-7440+1300	
56.	ओपीडी अटेंडेंट (6 विभागों में प्रत्येक हेतु 01)	4	चतुर्थ	4440-7440+1300	
57.	ओ.टी. अटेंडेंट	1	चतुर्थ	4440-7440+1300	
58.	अटेंडेंट 14 प्रत्येक अकादमिक विभाग के लिए (1-1)	14	चतुर्थ	4440-7440+1300	
59.	मिडवाईफ / वार्डवाय / आया	14	चतुर्थ	4440-7440+1300	
60.	बॉडी लिफ्टर	1	चतुर्थ	4440-7440+1300	
61.	स्वीपर / स्वच्छक	27	चतुर्थ	4440-7440+1300	
62.	लेबर रूम अटेंडेंट	2	चतुर्थ	4440-7440+1300	
63.	वार्ड बॉय	4	चतुर्थ	4440-7440+1300	
64.	दवासाज	3	चतुर्थ	4440-7440+1300	
65.	दाई	1	चतुर्थ	4440-7440+1300	
66.	चौकीदार	5	चतुर्थ	4440-7440+1300	
67.	भृत्य (दैनिक वेतन संविदा आधार पर)	3	चतुर्थ	-	
	योग	244			

2- शासकीय स्वशासी होम्योपैथी महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, भोपाल

क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	अधीक्षक	1	प्रथम	15600-39100+6600	प्रधानाचार्य / प्राध्यापक मेडिसिन मानदेय प्रभारी होंगे।
2.	वरिष्ठ चिकित्सक (विशेषज्ञ)	1	द्वितीय	15600-39100+5400	

3.	रेसिडेन्ट मेडिकल आफिसर (आर.एम.ओ.) होम्योपैथी	1	द्वितीय	15600-39100+5400	
4.	रेसिडेन्ट सर्जिकल आफिसर (आर.एस.ओ.) होम्योपैथी	1	द्वितीय	15600-39100+5400	
5.	चिकित्सा अधिकारी पुरुष	3	द्वितीय	15600-39100+5400	
6.	चिकित्सा अधिकारी महिला	1	द्वितीय	15600-39100+5400	
7.	क्लीनिकल / मेडिकल रजिस्ट्रार	1	द्वितीय	15600-39100+5400	
8.	केजुयेल्टी रजिस्ट्रार	2	द्वितीय	15600-39100+5400	
9.	रेडियोलॉजिस्ट	1	द्वितीय	15600-39100+5400	
10.	ऐनस्थेसिस्ट	1	द्वितीय	15600-39100+5400	
11.	प्रशासनिक अधिकारी	2	द्वितीय	15600-39100+5400	
12.	अधीक्षक / सहायक अधीक्षक	1	द्वितीय	15600-39100+5400	
13.	चिकित्सा अधिकारी (कैज्युअलटी)	2	द्वितीय	15600-39100+5400	माडर्न मेडिसिन (एलोपैथी)
14.	चिकित्सा अधिकारी (पैथोलॉजी)	1	द्वितीय	15600-39100+5400	माडर्न मेडिसिन (एलोपैथी)
15.	चिकित्सा अधिकारी (स्त्रीरोग)	1	द्वितीय	15600-39100+5400	माडर्न मेडिसिन (एलोपैथी)
16.	नर्सिंग सिस्टर	1	तृतीय	9300-34800+3600	ब्रम्हस्वरूप
17.	योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक	1	तृतीय	9300-34800+3600	
18.	मेट्रन	1	तृतीय	9300-34800+3600	ब्रम्हस्वरूप
19.	स्टेनो	1	तृतीय	5200-20200+2800	
20.	बायोकेमिस्ट	1	तृतीय	5200-20200+2800	
21.	फिजियोथेरेपिस्ट	1	तृतीय	5200-20200+2800	
22.	डाईटिशियन	1	तृतीय	5200-20200+2800	
23.	सहायक ग्रेड-1	1	तृतीय	5200-20200+2800	
24.	स्टाफ नर्स / नर्स महिला (जनरल नर्सिंग)	9	तृतीय	5200-20200+2800	ब्रम्हस्वरूप
25.	लेखापाल	2	तृतीय	5200-20200+2400	
26.	लेब टेक्नीशियन	2	तृतीय	5200-20200+2400	
27.	फार्मासिस्ट	1	तृतीय	5200-20200+2400	
28.	कैशियर	1	तृतीय	5200-20200+2400	
29.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	2	तृतीय	5200-20200+2400	
30.	पैथोलॉजी टेक्नीशियन माडर्न मेडिसिन (एलोपैथी)	3	तृतीय	5200-20200+2400	

31.	सहायक ग्रेड-2	3	तृतीय	5200-20200+2400	
32.	इलेक्ट्रीशियन	1	तृतीय	5200-20200+2400	ब्रम्हस्वरूप
33.	म्युजियम क्लर्क	1	तृतीय	5200-20200+1900	
34.	स्टोर कीपर/स्टोर कीपर सामान्य/स्टोर कीपर मेडिकल	3	तृतीय	5200-20200+1900	
35.	स्टीवार्ड	1	तृतीय	5200-20200+1900	
36.	रेडियाग्राफर	1	तृतीय	5200-20200+1900	
37.	ई.सी.जी. टेक्नीशियन	1	तृतीय	5200-20200+1900	
38.	सहायक ग्रेड-3	4	तृतीय	5200-20200+1900	
39.	म्युजियम सहायक	2	तृतीय	5200-20200+1900	
40.	लाईब्रेरियन	1	तृतीय	5200-20200+1900	
41.	प्रयोगशाला सहायक	2	तृतीय	5200-20200+1900	
42.	वाहन चालक	2	तृतीय	5200-20200+1900	
43.	औषधी संयोजक	1	तृतीय	5200-20200+1900	
44.	कम्पाउण्डर (अंतर विभाग)	2	तृतीय	5200-20200+1900	
45.	कम्पाउण्डर (बाह्य विभाग)	3	तृतीय	5200-20200+1900	
46.	ए.एन.एम.	2	तृतीय	5200-20200+1900	
47.	एक्स-रे टेक्नी./डार्करूम सहायक	1	तृतीय	5200-20200+1900	
48.	ड्रेसर	1	तृतीय	5200-20200+1900	
49.	रिसेप्सनिस्ट	1	तृतीय	5200-20200+1900	
50.	बढ़ई (कारपेंटर)	1	चतुर्थ	5200-20200+1900	ब्रम्हस्वरूप
51.	प्लम्बर	1	चतुर्थ	5200-20200+1900	ब्रम्हस्वरूप
52.	प्रयोगशाला अटेंडेंट	1	चतुर्थ	5200-20200+1800	
53.	एक्स-रे अटेंडेंट	1	चतुर्थ	4440-7440+1400	
54.	रेसाईया (कुक)	2	चतुर्थ	4440-7440+1400	
55.	दफतरी/ जमादार	2	चतुर्थ	4440-7440+1400	
56.	भृत्य/चपरासी	10	चतुर्थ	4440-7440+1300	
57.	क्लीनर	2	चतुर्थ	4440-7440+1300	
58.	चौकीदार	3	चतुर्थ	4440-7440+1300	
59.	स्वीपर/स्वच्छक(पुरुष+महिला)	5	चतुर्थ	4440-7440+1300	
60.	पुरुष परिचारक/वार्ड वाय/वार्ड अटेंडेंट	9	चतुर्थ	4440-7440+1300	
61.	महिला परिचारका/वार्ड वाय/वार्ड अटेंडेंट	3	चतुर्थ	4440-7440+1300	
62.	पानीवाला	2	चतुर्थ	4440-7440+1300	
63.	किचन अटेंडेंट/ सर्वेन्ट	3	चतुर्थ	4440-7440+1300	

64.	माली	1	चतुर्थ	4440- 7440+1300	
65.	स्ट्रेचर उठाने वाला	2	चतुर्थ	4440- 7440+1300	
66.	सहायक इलेक्ट्रीशियन	2	चतुर्थ	4440- 7440+1300	
67.	धोबी	1	चतुर्थ	4440- 7440+1300	
68.	आई.पी.डी अटेन्डेन्ट	5	चतुर्थ	4440- 7440+1300	
69.	लेवर रूम अटेन्डेन्ट(महिला)	2	चतुर्थ	4440- 7440+1300	
70.	ओ.टी. अटेन्डेन्ट	2	चतुर्थ	4440- 7440+1300	
71.	कुक (संविदा)	2	चतुर्थ	4440- 7440+1300	
72.	किचिन अटेन्डेन्ट (संविदा)	1	चतुर्थ	4440- 7440+1300	
73.	सुरक्षा कर्मी सह चौकीदार (जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित दर पर)	8	-	-	
	योग	152			

**3- हकीम सै.ज़ियाउल हसन शासकीय स्वशासी यूनानी महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, भोपाल**

क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	चिकित्सालय अधीक्षक	1	प्रथम	15600-39100+6600	
2.	क्लीनिक रजिस्ट्रार	4	द्वितीय	15600-39100+5400	
3.	रेजीडेन्ट मेडिकल आफिसर	3	द्वितीय	15600-39100+5400	
4.	मेडिकल आफिसर	1	द्वितीय	15600-39100+5400	
5.	उपअधीक्षक	1	द्वितीय	15600-39100+5400	
6.	गायनेकालाजिस्ट	1	द्वितीय	15600-39100+5400	
7.	रेडियोलॉजिस्ट	1	द्वितीय	15600-39100+5400	
8.	पैथोलॉजिस्ट	1	द्वितीय	15600-39100+5400	
9.	सर्जन	1	द्वितीय	15600-39100+5400	
10.	नर्सिंग सुप्रीटेन्डेन्ट	3	द्वितीय	15600-39100+5400	
11.	प्रशासकीय अधिकारी	1	द्वितीय	9300-34800+4200	
12.	मेट्रन	1	तृतीय	9300-34800+3600	
13.	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	1	तृतीय	9300-34800+3600	
14.	कार्यालय अधीक्षक	1	तृतीय	9300-34800+3600	
15.	सहायक ग्रेड-1	1	तृतीय	5200-20200+2800	
16.	लाईब्रेरियन	1	तृतीय	5200-20200+2800	
17.	स्टाफ नर्स	15	तृतीय	5200-20200+2800	ब्रम्हस्वरूप
18.	सहायक ग्रेड-2	3	तृतीय	5200-20200+2400	
19.	स्टोर कीपर	3	तृतीय	5200-20200+2400	

20.	लेखापाल	2	तृतीय	5200-20200+2400	
21.	लेब टेक्नीशियन	5	तृतीय	5200-20200+2400	
22.	ई.सी.जी. टेक्नीशियन	1	तृतीय	5200-20200+2400	
23.	एक्स-रे टेक्नीशियन	3	तृतीय	5200-20200+2400	
24.	फार्मासिस्ट	2	तृतीय	5200-20200+1900	
25.	कम्पाउण्डर	4	तृतीय	5200-20200+1900	
26.	मशीन आपरेटर	1	तृतीय	5200-20200+1900	
27.	कारपेंटर	1	तृतीय	5200-20200+1900	ब्रम्हस्वरूप
28.	सहायक ग्रेड-3	6	तृतीय	5200-20200+1900	
29.	रिसेप्सनिष्ट	1	तृतीय	5200-20200+1900	
30.	हेड कुक	1	तृतीय	5200-20200+1900	
31.	ड्राईवर/वाहन चालक	4	तृतीय	5200-20200+1900	
32.	प्लम्बर	1	चतुर्थ	5200-20200+1900	ब्रम्हस्वरूप
33.	लेब. अटेंडेंट	2	चतुर्थ	4440-7400+1300	
34.	लेब. अटेंडेंट (पैथोलोजी)	2	चतुर्थ	4440-7400+1300	
35.	लायब्रेरी अटेंडेंट	1	चतुर्थ	4440-7400+1300	
36.	भृत्य	9	चतुर्थ	4440-7400+1300	
37.	चौकीदार	8	चतुर्थ	4440-7400+1300	
38.	हेल्पर/स्वच्छक	6	चतुर्थ	4440-7400+1300	
39.	एम्बुलेंस अटेंडेंट	3	चतुर्थ	4440-7400+1300	
40.	स्टोर अटेंडेंट	2	चतुर्थ	4440-7400+1300	
41.	डार्करूम अटेंडेंट	1	चतुर्थ	4440-7440+1300	
42.	कुक	5	चतुर्थ	4440-7440+1300	
43.	किचन अटेंडेंट	3	चतुर्थ	4440-7440+1300	
44.	ओ.टी. अटेंडेंट	3	चतुर्थ	4440-7440+1300	
45.	ड्रेसर	2	चतुर्थ	4440-7440+1300	
46.	आया	6	चतुर्थ	4440-7440+1300	
47.	वार्ड बॉय	15	चतुर्थ	4440-7440+1300	
48.	ओ.पी.डी./आई.पी.डी. अटेंडेन्ट	9	चतुर्थ	4440-7440+1300	
49.	मसाजर (महिला -02, पुरुष - 02)	4	चतुर्थ	4440-7440+1300	
50.	माली	1	चतुर्थ	4440-7440+1300	
	योग	158			

नोट:- म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग (वेतन आयोग प्रकोष्ठ) मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ 2-6/1/वेअप्र/96 दिनांक 05/17-10-2006 की कण्डिका 5.4.4 के अनुसार इलेक्ट्रीशियन का वेतनमान 5200-20200+2400 ग्रेड-पे तथा प्लम्बर एवं कारपेन्टर का वेतनमान 5200-20200+1900 ग्रेड-पे निर्धारित योग्यताधारी व्यक्तियों पर लागू होगा।

अनुसूची-दो (नियम-6(1) देखिए)					
अनुक्रमांक	पद का नाम	सेवा का वर्गीकरण	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों का प्रतिशत		
			सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति द्वारा	अन्य सेवाओं से स्थानांतरण के द्वारा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	रीडर साहित्य अनुसंधान	प्रथम	100%	—	—
2.	अधीक्षक चिकित्सालय	प्रथम	—	100%	—
3.	डिप्टी सुपरिटेण्डेंट/उप अधीक्षक/डिप्टी मैनेजर	द्वितीय	100%	—	—
4.	केज्युल्टी मेडिकल आफिसर	द्वितीय	—	—	प्रतिनियुक्ति से
5.	चिकित्सा अधिकारी (केज्युल्टी)	द्वितीय	100%	—	—
6.	चिकित्सा अधिकारी (पैथोलॉजी)	द्वितीय	100%	—	—
7.	चिकित्सा अधिकारी (स्त्री रोग)	द्वितीय	100%	—	—
8.	पंचकर्म चिकित्सक(आयुर्वेद)	द्वितीय	100%	—	—
9.	आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी/महिला आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी (आर.एम.ओ.)/रेजीडेंट मेडिकल आफिसर/मेडिकल आफिसर आयुर्वेद/क्लीनिकल रजिस्ट्रार आयुर्वेद	द्वितीय	100%	—	—
10.	औषधि निर्माण वैद्य/महिला वैद्य/सीनियर वैद्य	द्वितीय	100%	—	—
11.	वरिष्ठ चिकित्सक (विशेषज्ञ) - होम्योपैथी	द्वितीय	100%	—	—
12.	रेसिडेंट सर्जिकल आफिसर (आर.एम.ओ.)/केज्युल्टी रजिस्ट्रार/क्लीनिकल रजिस्ट्रार/मेडिकल रजिस्ट्रार/आर.एम.ओ./मेडिकल आफिसर (होम्योपैथी) महिला/पुरुष	द्वितीय	100%	—	—
13.	मेडिकल आफिसर/रेसिडेंट मेडिकल आफिसर/क्लीनिकल रजिस्ट्रार	द्वितीय	100%	—	—

14.	सहायक अधीक्षक (होम्योपैथी)	द्वितीय	100%	—	—
15.	उप अधीक्षक (यूनानी) / रेजीडेंट मेडिकल आफिसर / क्लीनिकल रजिस्ट्रार	द्वितीय	100%	—	—
16.	चिकित्सा विशेषज्ञ (एलोपैथी)	द्वितीय	100%	—	—
17.	शल्य विशेषज्ञ (एलोपैथी)/सर्जन	द्वितीय	100%	—	—
18.	प्रसूति एवं स्त्रीरोग विशेषज्ञ (एलोपैथी)	द्वितीय	100%	—	—
19.	रेडियोलॉजिस्ट	द्वितीय	100%	—	—
20.	पैथोलॉजिस्ट	द्वितीय	100%	—	—
21.	एनेस्थेसिस्ट	द्वितीय	100%	—	—
22.	दंत चिकित्सक	द्वितीय	100%	—	—
23.	बायोटेक्नोलॉजिस्ट	द्वितीय	100%	—	—
24.	फार्मास्युटिकल केमिस्ट	द्वितीय	100%	—	—
25.	माइक्रोबायोलॉजिस्ट	द्वितीय	100%	—	—
26.	फार्माकोग्नोसिस्ट	द्वितीय	100%	—	—
27.	फार्माकोलॉजिस्ट	द्वितीय	100%	—	—
28.	ऐनालिटिकल केमिस्ट	द्वितीय	100%	—	—
29.	बायो – केमिस्ट आयुर्वेद	द्वितीय	100%	—	—
30.	स्टेटिस्टीशियन	द्वितीय	100%	—	—
31.	क्रीडाधिकारी	द्वितीय	100%	—	—
32.	लाईब्रेरियन	द्वितीय	100%	—	—
33.	रिसर्च ऑफिसर (आयुर्वेद)	द्वितीय	100%	—	—
34.	बोटनिस्ट कम फार्माकोग्नोसिस्ट	द्वितीय	100%	—	—
35.	नर्सिंग सुप्रीटेंडेन्ट	द्वितीय	100%	—	—
36.	प्रशासकीय अधिकारी	द्वितीय	—	100%	—
37.	कनिष्ठ लेखाधिकारी	तृतीय	—	—	प्रतिनियुक्ति से
38.	कार्यालय अधीक्षक	तृतीय	—	100%	—
39.	सहायक ग्रेड-1	तृतीय	—	100%	—
40.	सहायक ग्रेड-2	तृतीय	—	100%	—
41.	मुख्य लिपिक / हेड क्लर्क	तृतीय	—	100%	—
42.	लेखापाल	तृतीय	—	100%	—



43.	स्टोर कीपर	तृतीय	-	100%	-
44.	कैशियर	तृतीय	100%	-	-
45.	सहायक ग्रेड-3/टायपिस्ट कम क्लर्क	तृतीय	75%	25%	-
46.	मैट्रन	द्वितीय	-	100%	-
47.	असिस्टेंट मैट्रन	तृतीय	-	100%	-
48.	नर्सिंग सिस्टर	तृतीय	-	100%	-
49.	नर्स /स्टाफ नर्स	तृतीय	75%	25%	-
50.	कनिष्ठ यंत्री	तृतीय	100%	-	-
51.	फिजियोथेरेपिस्ट	तृतीय	100%	-	-
52.	उद्यान अधीक्षक	तृतीय	100%	-	-
53.	शीघ्रलेखक /स्टेनो	तृतीय	100%	-	-
54.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	तृतीय	100%	-	-
55.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	तृतीय	100%	-	-
56.	कम्प्यूटर ऑपरेटर सह अटेंडेन्ट (प्रत्येक अकादमिक विभाग के लिए)	तृतीय	100%	-	-
57.	डाटा एन्ट्री आपरेटर (चिकित्सालय हेतु)	तृतीय	100%	-	-
58.	पुस्तकालयाध्यक्ष	तृतीय	100%	-	-
59.	असिस्टेंट लाईब्रेरियन (पुस्तकालय सहायक)	तृतीय	100%	-	-
60.	रिसर्च लाईब्रेरियन	तृतीय	100%	-	-
61.	आर्टिस्ट	तृतीय	100%	-	-
62.	फोटोग्राफर	तृतीय	100%	-	-
63.	रिफ्लेक्शनिसट	तृतीय	100%	-	-
64.	ऑडियोमेटरिस्ट	तृतीय	100%	-	-
65.	व्यायाम शिक्षक	तृतीय	100%	-	-
66.	मशीन आपरेटर	तृतीय	100%	-	-
67.	पम्प मैकेनिक	तृतीय	100%	-	-
68.	एनीमल फीडर	तृतीय	100%	-	-
69.	प्रदर्शक विज्ञान	तृतीय	100%	-	-
70.	पंचकर्म टेक्नीशियन (आयुर्वेद)	तृतीय	75%	25%	-
71.	ओ. टी. टेक्नीशियन	तृतीय	100%	-	-
72.	क्षारसूत्र टेक्नीशियन (आयुर्वेद)	तृतीय	100%	-	-
73.	एक्स-रे टेक्नीशियन (आयुर्वेद)	तृतीय	75%	25%	-
74.	ई.सी.जी. टेक्नीशियन	तृतीय	100%	-	-

75.	लेब/लेबोरेटरी टेक्नीशियन	तृतीय	75%	25%	-
76.	पेथोलोजी टेक्नीशियन	तृतीय	100%	-	-
77.	एक्स-रे असिस्टेंट	तृतीय	100%	-	-
78.	रेडियोग्राफर/डार्करूम सहायक/ डार्करूम अटेंडेंट	तृतीय	100%	-	-
79(अ).	फार्मासिस्ट (आयुर्वेद)	तृतीय	75%	25%	-
79(ब).	फार्मासिस्ट (होम्योपैथी)	तृतीय	100%	-	-
79(स).	फार्मासिस्ट (यूनानी)	तृतीय	100%	-	-
80.	भैषज्य कल्पक	तृतीय	100%	-	-
81.	फोन आपरेटर सह स्वागती (रिसेप्सनिष्ट)	तृतीय	100%	-	-
82.	म्यूजियम कीपर	तृतीय	75%	25%	-
83.	म्यूजियम कीपर कम आर्टिस्ट	तृतीय	100%	-	-
84.	म्यूजियम असिस्टेंट कम लायब्रेरियन	तृतीय	100%	-	-
85.	म्यूजियम असिस्टेंट	तृतीय	100%	-	-
86.	लायब्रेरियन कम म्यूजियम कीपर	तृतीय	100%	-	-
87.	म्यूजियम क्लर्क होम्योपैथी	तृतीय	75%	25%	-
88.	पंचकर्म सहायक (आयुर्वेद)	तृतीय	100%	-	-
89.	असिस्टेंट लेब टेक्नीशियन (आयुर्वेद)	तृतीय	100%	-	-
90.	प्रयोगशाला सहायक	तृतीय	100%	-	-
91.	ड्रेसर	तृतीय	100%	-	-
92 (अ).	कम्पाउण्डर (आयुर्वेद)	तृतीय	75%	25%	-
92(ब).	कम्पाउण्डर (होम्योपैथी)	तृतीय	100%	-	-
92(स).	कम्पाउण्डर (यूनानी)	तृतीय	100%	-	-
93.	पी.टी.आई.	तृतीय	100%	-	-
94.	बायोकेमिस्ट - होम्योपैथी	तृतीय	100%	-	-
95.	डाईटिशियन	तृतीय	100%	-	-
96.	स्टीवार्ड	तृतीय	100%	-	-
97.	इलेक्ट्रीशियन	तृतीय	50%	50%	-
98.	ए.एन.एम.	तृतीय	100%	-	-
99.	हेड कुक	तृतीय	-	100%	-
100.	वाहन चालक	तृतीय	100%	-	-
101.	वरिष्ठ/कनिष्ठ रिसर्च वैद्य (आयुर्वेद)	तृतीय	100%	-	-

102 अ.	लैब / लेबोरेटरी अटेंडेंट	तृतीय	100%	-	-
102 ब.	लैब / लेबोरेटरी अटेंडेंट	चतुर्थ	100%	-	-
103 अ.	कारपेंटर	तृतीय	100%	-	-
103 ब.	कारपेंटर	चतुर्थ	100%	-	-
104.	प्लम्बर	चतुर्थ	100%	-	-
105.	रसोईया/ कुक	चतुर्थ	100%	-	-
106.	किचन अटेंडेन्ट/सर्वेन्ट	चतुर्थ	100%	-	-
107.	हेड माली	चतुर्थ	-	100%	-
108.	माली	चतुर्थ	100%	-	-
109.	लाईब्रेरी अटेंडेंट	चतुर्थ	100%	-	-
110.	ओपीडी/आईपीडी/ओ.टी. अटेंडेंट	चतुर्थ	100%	-	-
111.	दवासाज	चतुर्थ	100%	-	-
112.	लेबर रूम अटेंडेंट	चतुर्थ	100%	-	-
113.	अटेंडेन्ट [14 अकादमिक विभागों के लिए]	चतुर्थ	100%	-	-
114.	मसाज्जर (महिला/पुरुष)	चतुर्थ	100%	-	-
115.	एम्बुलेंस अटेंडेंट	चतुर्थ	100%	-	-
116.	स्टोर अटेंडेंट	चतुर्थ	100%	-	-
117.	भृत्य/चौकीदार/फर्शा/प्यून कम साइकिलिस्ट	चतुर्थ	100%	-	-
118.	भृत्य कम चौकीदार कम फर्शा	चतुर्थ	100%	-	-
119.	इनफीरियर	चतुर्थ	100%	-	-
120.	लिफ्टमेन	चतुर्थ	100%	-	-
121.	मिडवाईफ/वार्डवाय / आया	चतुर्थ	100%	-	-
122.	वार्डवाय/पुरुष परिचारक/वार्ड अटेंडेंट	चतुर्थ	100%	-	-
123.	महिला परिचारक/वार्डवाय /वार्ड अटेंडेंट	चतुर्थ	100%	-	-
124.	दाई	चतुर्थ	100%	-	-
125.	आया	चतुर्थ	100%	-	-
126.	वार्डवाय	चतुर्थ	100%	-	-
127.	दफ्तरी /जमादार	चतुर्थ	-	100%	-
128.	धोबी /वाशर मेन	चतुर्थ	100%	-	-
129.	पानी वाला/ वाटरमेन	चतुर्थ	100%	-	-
130.	क्लीनर /खल्लासी	चतुर्थ	100%	-	-
131.	सर्वेन्ट/रावत	चतुर्थ	100%	-	-
132.	बॉडी लिफ्टर	चतुर्थ	100%	-	-
133.	स्वीपर/स्वच्छक	चतुर्थ	100%	-	-
134.	स्ट्रेचर उठाने वाला	चतुर्थ	100%	-	-
135.	सहायक इलेक्ट्रीशियन	चतुर्थ	100%	-	-

अनुसूची तीन देखिये नियम - 8(2)					
अनुसूची तीन	पद का नाम	सेवा का वर्गीकरण	न्यूनतम आयु सीमा (वर्ष में)	उच्चतम आयु सीमा (वर्ष में)	विहित शैक्षणिक एवं व्यावसायिक अर्हताएं एवं अनुभव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	रीडर साहित्य अनुसंधान (आयुर्वेद)	प्रथम	21	28	विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बी.ए.एम.एस. उपाधि उत्तीर्ण एवं संस्कृत में स्नातकोत्तर या संहिता में एम.डी. (आयुर्वेद) संबंधित बोर्ड में रजिस्ट्रीकरण। संबंधित क्षेत्र में पांच वर्ष का शोध अनुभव। पी.एच.डी. धारी को अधिमानता।
2.	चिकित्सालय अधीक्षक (आयुर्वेद)	प्रथम	21	28	विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बी.ए.एम.एस. उपाधि उत्तीर्ण एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर एम.डी./ एम.एस. आयुर्वेद मान्यताप्राप्त उपाधि। संबंधित बोर्ड में रजिस्ट्रीकरण। चिकित्सालय अधीक्षक का पद प्रोफेसर पद की समतुल्य अर्हता से कम का होगा।
3.	चिकित्सालय अधीक्षक (होम्योपैथी)	प्रथम	21	28	विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एच.एम.एस. उपाधि उत्तीर्ण एवं किसी विषय में एम.डी. (होम्योपैथी) की मान्यताप्राप्त उपाधि। संबंधित बोर्ड में रजिस्ट्रीकरण। प्रधानाचार्य/प्रध्यापक इस पद का प्रभारी होगा।
4.	चिकित्सालय अधीक्षक- (यूनानी)	प्रथम	21	28	विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बी.यू.एम.एस. उपाधि उत्तीर्ण एवं किसी विषय में एम.डी. (यूनानी) की मान्यताप्राप्त उपाधि तथा संबंधित बोर्ड में रजिस्ट्रीकरण। चिकित्सालय अधीक्षक का पद प्रोफेसर पद की समतुल्य अर्हता का होगा।
5.	डिप्टी सुपरिटेण्डेंट/उप अधीक्षक (आयुर्वेद)	द्वितीय	21	28	विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बी.ए.एम.एस. उपाधि उत्तीर्ण एवं क्लिनिकल विषय में एम. डी/एम. एस (आयुर्वेद) की मान्यताप्राप्त उपाधि अथवा बी.ए.एम.एस. के साथ 10 वर्ष का अनुभव। संबंधित बोर्ड में रजिस्ट्रीकरण। अस्पताल प्रबंधन/प्रशासन में पोस्ट ग्रेजुएट पत्रोपाधि/उपाधि को अधिमानता।

6.	केज्युलिटी मेडिकल आफिसर	द्वितीय	21	28	विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एम.बी.बी.एस. उपाधि उत्तीर्ण एवं पंचकर्म में एम.डी. मेडिसिन/एम. एस. सर्जरी की मान्यताप्राप्त उपाधि। संबंधित बोर्ड में रजिस्ट्रीकरण।
7.	पंचकर्म चिकित्सक	द्वितीय	21	28	विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बी.ए.एम.एस. उपाधि उत्तीर्ण एवं पंचकर्म/संबद्ध विषय में एम.डी. (आयुर्वेद) की मान्यताप्राप्त उपाधि। संबंधित बोर्ड में रजिस्ट्रीकरण।
8.	आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी/महिला आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी/आर. एम.ओ./रेजीडेन्ट मेडिकल आफिसर/ मेडिकल आफिसर /क्लीनिकल रजिस्ट्रार(आयुर्वेद)	द्वितीय	21	28	विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बी.ए.एम.एस. उपाधि उत्तीर्ण तथा संबंधित बोर्ड में रजिस्ट्रीकरण।
9.	औषधि निर्माण वैद्य/महिला वैद्य/सीनियर वैद्य (आयुर्वेद)	द्वितीय	21	28	विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बी.ए.एम.एस. उपाधि उत्तीर्ण तथा संबंधित बोर्ड में रजिस्ट्रीकरण।
10.	मेडिकल आफिसर (केज्युल्टी)	द्वितीय	21	28	विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एम.बी.बी.एस. उपाधि उत्तीर्ण एवं एम.डी. मेडिसिन/एम. एस. सर्जरी की मान्यताप्राप्त उपाधि तथा संबंधित बोर्ड में रजिस्ट्रीकरण।
11.	मेडिकल आफिसर (पैथालॉजी)	द्वितीय	21	28	विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एम.बी.बी.एस. उपाधि उत्तीर्ण एवं एम.डी. (पैथालॉजी) की मान्यताप्राप्त उपाधि तथा संबंधित बोर्ड में रजिस्ट्रीकरण।
12.	मेडिकल आफिसर (गायनोकोलाजी)	द्वितीय	21	28	विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एम.बी.बी.एस. उपाधि उत्तीर्ण एवं एम. एस. गायनोकोलाजी की मान्यताप्राप्त उपाधि तथा संबंधित बोर्ड में रजिस्ट्रीकरण।
13.	वरिष्ठ चिकित्सक (विशेषज्ञ) - होम्योपैथी	द्वितीय	21	28	विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एच.एम.एस. एवं एम. डी. (होम्यो) उपाधि उत्तीर्ण तथा संबंधित बोर्ड में रजिस्ट्रीकरण।

14.	रेसिडेन्ट मेडिकल आफिसर(आर.एम.ओ.)/ रेसिडेन्ट सर्जिकल आफिसर (आर.एस.ओ.) / होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी (पु0 / म0)/ क्लीनिकल रजिस्ट्रार	द्वितीय	21	28	विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एच.एम.एस. उपाधि उत्तीर्ण तथा संबंधित बोर्ड में रजिस्ट्रीकरण।
15.	उपअधीक्षक - यूनानी	द्वितीय	21	28	विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बी.यू.एम.एस. उपाधि उत्तीर्ण एवं क्लीनिकल विषय में एम.डी (यूनानी) की मान्यता प्राप्त उपाधि अथवा बी.यू.एम.एस. के साथ 10 वर्ष का अनुभव संबंधित बोर्ड में रजिस्ट्रीकरण। अस्पताल प्रबंधन/ प्रशासन में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री/ डिप्लोमाधारी को वरीयता।
16.	सहायक अधीक्षक होम्योपैथी	द्वितीय	21	28	विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एच.एम.एस. एवं एम.डी. (होम्यो) की उपाधि उत्तीर्ण तथा संबंधित बोर्ड में रजिस्ट्रीकरण।
17.	रेजिडेन्ट मेडिकल आफिसर/ क्लीनिकल रजिस्ट्रार/ मेडिकल आफिसर - यूनानी	द्वितीय	21	28	विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बी.यू.एम.एस. उपाधि उत्तीर्ण तथा संबंधित बोर्ड में रजिस्ट्रीकरण।
18.	चिकित्सा विशेषज्ञ (एलोपैथी)	द्वितीय	21	28	विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एम.बी.बी.एस. उपाधि उत्तीर्ण एवं एम.डी. मेडिसिन की मान्यताप्राप्त उपाधि। संबंधित बोर्ड में रजिस्ट्रीकरण।
19.	शल्य विशेषज्ञ (एलोपैथी)/ सर्जन	द्वितीय	21	28	विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एम.बी.बी.एस. उपाधि उत्तीर्ण एवं एम.एस. सर्जरी की मान्यताप्राप्त उपाधि। संबंधित बोर्ड में रजिस्ट्रीकरण।
20.	प्रसूति एवं स्त्रीरोग विशेषज्ञ (एलोपैथी)	द्वितीय	21	28	विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एम.बी.बी.एस. उपाधि उत्तीर्ण एवं गायनाकोलाजी एण्ड अब्स्टेटिक्स एम.डी. में की मान्यताप्राप्त उपाधि। संबंधित बोर्ड में रजिस्ट्रीकरण।

21.	रेडियोलॉजिस्ट	द्वितीय	21	28	विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एम.बी.बी.एस. उपाधि उत्तीर्ण एवं रेडियोलॉजी एम.डी. में मान्यताप्राप्त उपाधि। संबंधित बोर्ड में रजिस्ट्रीकरण।
22.	पैथोलॉजिस्ट	द्वितीय	21	28	विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एम.बी.बी.एस. उपाधि उत्तीर्ण एवं पैथोलॉजी एम.डी. में मान्यताप्राप्त उपाधि तथा संबंधित बोर्ड में रजिस्ट्रीकरण।
23.	एनेस्थेटिस्ट	द्वितीय	21	28	विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एम.बी.बी.एस. उपाधि उत्तीर्ण एवं एनेस्थीशिया एम.डी. में मान्यताप्राप्त उपाधि संबंधित बोर्ड में रजिस्ट्रीकरण।
24.	दंत चिकित्सक	द्वितीय	21	28	विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बी.डी.एस. एवं एम.डी. एस. उपाधि उत्तीर्ण तथा संबंधित बोर्ड में रजिस्ट्रीकरण।
25.	बायोटेक्नोलॉजिस्ट	द्वितीय	21	28	विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एम.एस.सी. बायोटेक्नोलॉजी/एम.टेक/एम. फार्मा स्नातकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण। पी.एच.डी. धारी को अधिमानता।
26.	फार्मास्युटिकल केमिस्ट	द्वितीय	21	28	विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से केमिस्ट्री अथवा फार्मासियटिकल केमिस्ट्री में स्नातकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण। पी.एच.डी. धारी को अधिमानता।
27.	माइक्रोबायोलॉजिस्ट	द्वितीय	21	28	विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से माइक्रोबायोलॉजी में स्नातकोत्तर उपाधि। पी.एच.डी. धारी को अधिमानता।
28.	फार्माकोग्नोसिस्ट	द्वितीय	21	28	विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से फार्माकोग्नोसी/बॉटनी (वनस्पति विज्ञान) में स्नातकोत्तर उपाधि। पी.एच.डी. धारी को अधिमानता।

29.	फार्माकोलोजिस्ट	द्वितीय	21	28	विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से फार्माकोलॉजी में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा एम. फार्मा/ एम.डी. फार्माकोलॉजी। पी.एच.डी. धारी को अधिमानता।
30.	ऐनालिटिकल कैमिस्ट	द्वितीय	21	28	विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से केमिस्ट्री अथवा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में उपाधि। पी.एच.डी. धारी को अधिमानता।
31.	बायो - कैमिस्ट	द्वितीय	21	28	विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बायोकेमिस्ट्री में स्नातकोत्तर उपाधि। पी.एच.डी. धारी को अधिमानता।
32.	स्टेटीस्टीशियन	द्वितीय	21	28	विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से गणित अथवा सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि।
33.	क्रीडाधिकारी	द्वितीय	21	28	विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा (एम. पी.एड. अथवा समकक्ष) में स्नातकोत्तर उपाधि। पी.एच.डी. धारी को अधिमानता।
34.	लाइब्रेरियन	द्वितीय	21	28	विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से लाइब्रेरी साइंस (एम. लिब) में स्नातकोत्तर उपाधि। पी.एच.डी. धारी को अधिमानता।
35.	डिप्टी मैनेजर	द्वितीय	21	28	विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बी.ए.एम.एस. एवं रसशास्त्र एवं भेषज्य कल्पना विषय में मान्यताप्राप्त एम.डी.(आयुर्वेद) की उपाधि। संबंधित बोर्ड में रजिस्ट्रीकरण।
36.	रिसर्च आफिसर (आयुर्वेद)	द्वितीय	21	28	विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बी.ए.एम.एस. उपाधि उत्तीर्ण एवं संहिता में एम.डी. (आयुर्वेद) की मान्यताप्राप्त उपाधि। संबंधित बोर्ड में रजिस्ट्रीकरण। पी.एच.डी. धारी को अधिमानता।
37.	बोटनिस्ट कम फार्माकोग्नोसिस्ट	द्वितीय	21	28	विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से फार्माकोगनोसी/ बाटनी (वनस्पति विज्ञान) में स्नातकोत्तर उपाधि। पी.एच.डी. धारी को अधिमानता।



38.	नर्सिंग सुप्रिटेन्डेन्ट	द्वितीय	21	28	विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से नर्सिंग में स्नातकोत्तर उपाधि। संबंधित बोर्ड में रजिस्ट्रीकरण। नर्सिंग में दस वर्ष के कार्य का अनुभव जिसमें से मैट्रन के रूप में तीन वर्ष का कार्य अनुभव।
39.	नर्स/स्टाफ नर्स	तृतीय	18	25	विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एस.सी. नर्सिंग/जी. एन. एम. परीक्षा उत्तीर्ण। संबंधित बोर्ड में रजिस्ट्रीकरण।
40.	कनिष्ठ यंत्री	तृतीय	18	25	विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में पत्रोपाधि उत्तीर्ण। उपाधिधारी को अधिमानता।
41.	फिजियोथेरेपिस्ट	तृतीय	18	25	विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से फिजियोथेरापी में स्नातक उत्तीर्ण। मध्यप्रदेश पैरा मेडिकल परिषद् में रजिस्ट्रीकरण। स्नातकोत्तर धारी को अधिमानता।
42.	उद्यान अधीक्षक	तृतीय	18	25	विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि/औद्योगिकी में स्नातकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण। पौधों के रोपण तथा सर्वे में 2 वर्ष का कार्य अनुभव। हार्टिकल्चर में एम.एस.सी. उपाधि धारी को अधिमानता।
43.	शीघ्रलेखक	तृतीय	18	25	माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल से उच्चतर माध्यमिक (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड से अथवा विधि द्वारा स्थापित किसी बोर्ड से शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण व कम्प्यूटर में एक वर्षीय पत्रोपाधि।
44.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	तृतीय	18	25	किसी मान्यताप्राप्त कम्प्यूटर विज्ञान में उपाधि परीक्षा उत्तीर्ण/पी.जी.डी.सी.ए.। स्नातकोत्तर उपाधि धारी को अधिमानता।
45.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	तृतीय	18	25	विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि उत्तीर्ण मुद्रलेखन बोर्ड अथवा विधि द्वारा स्थापित किसी बोर्ड से हिन्दी मुद्रलेखन पाठ्यक्रम उत्तीर्ण। एवं पी.जी.डी.सी.ए. उत्तीर्ण

46.	सहायक ग्रेड-3	तृतीय	18	25	माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल या किसी बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड से अथवा विधि द्वारा स्थापित किसी बोर्ड से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में 1 वर्षीय पत्रोपाधि।
47.	कम्प्यूटर ऑपरेटर सह असिस्टेंट (अकादमिक विभाग के लिए)	तृतीय	18	25	माध्यमिक शिक्षा मण्डल अथवा किसी बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। कम्प्यूटर एप्लीकेशन में 1 वर्षीय पत्रोपाधि। उपाधिधारी को अधिमानता।
48.	डाटा एंट्री आपरेटर (चिकित्सालय हेतु )	तृतीय	18	25	माध्यमिक शिक्षा मण्डल अथवा किसी बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। कम्प्यूटर में 1 वर्षीय पत्रोपाधि। उपाधिधारी को अधिमानता।
49.	पुस्तकालय अधीक्षक	तृतीय	18	25	विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से लाइब्रेरी साइंस में स्नातक उत्तीर्ण। कम्प्यूटर का ज्ञान। स्नातकोत्तर उपाधिधारी को अधिमानता।
50.	असिस्टेंट लाइब्रेरियन	तृतीय	18	25	विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से लाइब्रेरी साइंस में स्नातक उत्तीर्ण। कम्प्यूटर का ज्ञान। स्नातकोत्तर उपाधिधारी को अधिमानता।
51.	रिसर्च लाइब्रेरियन	तृतीय	18	25	विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से लाइब्रेरी साइंस में स्नातक उत्तीर्ण। कम्प्यूटर का ज्ञान। स्नातकोत्तर उपाधिधारी को अधिमानता।
52.	लाइब्रेरियन-यूनानी	तृतीय	18	25	विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से लाइब्रेरी साइंस में स्नातक उत्तीर्ण। कम्प्यूटर का ज्ञान। स्नातकोत्तर उपाधिधारी को अधिमानता।
53.	आर्टिस्ट/कलाकार	तृतीय	18	25	विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से ललित कला में पत्रोपाधि उत्तीर्ण। दो वर्ष का ललित कला में कार्य अनुभव। उपाधिधारी को अधिमानता।
54.	फोटोग्राफर	तृतीय	18	25	विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से फोटोग्राफी में पत्रोपाधि उत्तीर्ण। चिकित्सा क्षेत्र में स्लाइड निर्माण फोटोग्राफी में 2 वर्ष का कार्य अनुभव। उपाधिधारी को अधिमानता।

55.	रिफ्रेक्शनरिस्ट	तृतीय	18	25	माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल या किसी बोर्ड से भौतिकी, रसायन एवं जीवविज्ञान विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। रिफ्रेक्शन प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम उत्तीर्ण। मध्यप्रदेश पैरामेडिकल परिषद् में रजिस्ट्रीकरण।
56.	ऑडिओमेटरिस्त्र	तृतीय	18	25	माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल या किसी बोर्ड से भौतिकी, रसायन एवं जीवविज्ञान विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। आडियोमेट्री प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम उत्तीर्ण। मध्यप्रदेश पैरामेडिकल परिषद् में रजिस्ट्रीकरण।
57.	प्रदर्शक विज्ञान	तृतीय	18	25	विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान (एम.एस.सी.) में स्नातकोत्तर उपाधि।
58.	व्यायाम शिक्षक	तृतीय	18	25	विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा (बी.पी.एड.) अथवा समकक्ष में उपाधि उत्तीर्ण। स्नातकोत्तर उपाधिधारी को अधिमानता।
59.	मशीन आपरेटर	तृतीय	18	25	माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल या किसी बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। मैकेनिकलों में आई.टी.आई. ट्रेड उत्तीर्ण। संबंधित क्षेत्र में अनुभवधारी को अधिमानता।
60.	पम्प मैकेनिक	तृतीय	18	25	माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल अथवा किसी बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। मैकेनिकल में आई.टी.आई. ट्रेड उत्तीर्ण। संबंधित क्षेत्र में अनुभवधारी को अधिमानता।
61.	एनीमल फीडर	तृतीय	18	25	माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल अथवा किसी बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। संबंधित क्षेत्र में अनुभवधारी को अधिमानता।

62.	पंचकर्म टेक्नीशियन	तृतीय	18	25	माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल अथवा किसी बोर्ड से भौतिकी, रसायन एवं जीवविज्ञान विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। पंचकर्म टेक्नीशियन पाठ्यक्रम उत्तीर्ण। मध्यप्रदेश पैरामेडिकल परिषद् में रजिस्ट्रीकरण।
63.	ओ. टी. टेक्नीशियन	तृतीय	18	25	माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल अथवा किसी बोर्ड से भौतिकी, रसायन एवं जीवविज्ञान विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। ओ. टी. टेक्नीशियन पाठ्यक्रम उत्तीर्ण। मध्यप्रदेश पैरामेडिकल परिषद् में रजिस्ट्रीकरण।
64.	क्षारसूत्र टेक्नीशियन	तृतीय	18	25	माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल अथवा किसी बोर्ड से भौतिकी, रसायन एवं जीवविज्ञान विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। क्षारसूत्र अथवा ओ. टी. टेक्नीशियन पाठ्यक्रम उत्तीर्ण। मध्यप्रदेश पैरामेडिकल परिषद् में रजिस्ट्रीकरण।
65.	एक्स-रे टेक्नीशियन	तृतीय	18	25	माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल अथवा किसी बोर्ड से भौतिकी, रसायन एवं जीवविज्ञान विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। एक्स-रे टेक्नीशियन पाठ्यक्रम उत्तीर्ण। मध्यप्रदेश पैरामेडिकल परिषद् में रजिस्ट्रीकरण।
66.	ई.सी.जी. टेक्नीशियन	तृतीय	18	25	माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल अथवा किसी बोर्ड से भौतिकी, रसायन एवं जीवविज्ञान विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। ई.सी.जी. टेक्नीशियन पाठ्यक्रम उत्तीर्ण प्रमाण पत्र। मध्यप्रदेश पैरामेडिकल परिषद् में रजिस्ट्रीकरण।
67.	लेब टेक्नीशियन	तृतीय	18	25	माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल अथवा किसी बोर्ड से भौतिकी, रसायन एवं जीवविज्ञान विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। लेबोरेटरी टेक्नीशियन पाठ्यक्रम उत्तीर्ण। मध्यप्रदेश पैरामेडिकल परिषद् में रजिस्ट्रीकरण।

68.	पैथोलॉजी टेक्नीशियन (होम्योपैथी)	तृतीय	18	25	माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल अथवा किसी बोर्ड से भौतिकी, रसायन एवं जीवविज्ञान विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। लेबोरेटरी टेक्नीशियन पाठ्यक्रम उत्तीर्ण मध्यप्रदेश पैरामेडिकल परिषद् में रजिस्ट्रीकरण।
69.	रेडियोग्राफर / डार्करूम सहायक / डार्करूम अटेंडेंट	तृतीय	18	25	माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल अथवा किसी बोर्ड से भौतिकी, रसायन एवं जीवविज्ञान विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। रेडियोग्राफर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण। मध्यप्रदेश पैरामेडिकल परिषद् में रजिस्ट्रीकरण।
70.	फार्मासिस्ट आयुर्वेद	तृतीय	18	25	माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल अथवा किसी बोर्ड से भौतिकी, रसायन एवं जीवविज्ञान विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। आयुर्वेद फार्मसी में डिप्लोमा। मध्यप्रदेश पैरामेडिकल परिषद् में रजिस्ट्रीकरण।
71.	फार्मासिस्ट होम्योपैथी	तृतीय	18	25	माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल अथवा किसी बोर्ड से भौतिकी, रसायन एवं जीवविज्ञान विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। फार्मसी पाठ्यक्रम में उपाधि/पत्रोपाधि। संबंधित परिषद् में रजिस्ट्रीकरण।
72.	भैषज्य कल्पक - आयुर्वेद	तृतीय	18	25	माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल अथवा किसी बोर्ड से भौतिकी, रसायन एवं जीवविज्ञान विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। आयुर्वेद फार्मसी पाठ्यक्रम में पत्रोपाधि उत्तीर्ण। मध्यप्रदेश पैरामेडिकल परिषद् में रजिस्ट्रीकरण।
73.	फोन आपरेटर सह स्वागती	तृतीय	18	25	माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल अथवा किसी बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कम्प्यूटर विज्ञान में पत्रोपाधि उपाधिकारी को अधिमानता।
74.	म्यूजियम कीपर	तृतीय	18	25	माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल अथवा किसी बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण एवं म्यूजियम कीपिंग में अथवा मान्यताप्राप्त म्यूजियम कीपिंग पाठ्यक्रम का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र।

75.	म्यूजियम कीपर कम आर्टिस्ट	तृतीय	18	25	माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल अथवा किसी बोर्ड से विज्ञान में उच्चतर माध्यमिक (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। एवं म्यूजियम कीपिंग में पत्रोपाधि/पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र उत्तीर्ण। विधि द्वारा स्थापित किसी संस्था से ललित कला में कोई पत्रोपाधि।
76.	लाईब्रेरियन कम म्यूजियम कीपर	तृतीय	18	25	माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल अथवा किसी बोर्ड से विज्ञान में उच्चतर माध्यमिक (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण एवं म्यूजियम कीपिंग में पाठ्यक्रम पत्रोपाधि/प्रमाण पत्र उत्तीर्ण। विधि द्वारा स्थापित किसी संस्था से पुस्तकालय विज्ञान में पत्रोपाधि।
77.	म्यूजियम असिस्टेंट कम लायब्रेरियन	तृतीय	18	25	माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल अथवा किसी बोर्ड से विज्ञान में उच्चतर माध्यमिक (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। म्यूजियम कीपिंग में डिप्लोमा अथवा म्यूजियम कीपिंग में पत्रोपाधि/प्रमाण पत्र। विधि द्वारा स्थापित किसी संस्था से पुस्तकालय विज्ञान में पत्रोपाधि।
78.	जूनियर रिसर्च वैद्य आयुर्वेद	तृतीय	18	25	विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बी.ए.एम.एस. उपाधि उत्तीर्ण। संबंधित बोर्ड में रजिस्ट्रीकरण।
79.	पंचकर्म असिस्टेंट	तृतीय	18	25	माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल अथवा किसी बोर्ड से भौतिकी, रसायन एवं जीवविज्ञान विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। पंचकर्म प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम उत्तीर्ण। मध्यप्रदेश पैरामेडिकल परिषद् में रजिस्ट्रीकरण।
80.	असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन	तृतीय	18	25	माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल अथवा किसी बोर्ड से भौतिकी, रसायन एवं जीवविज्ञान विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। लैब टेक्नीशियन पाठ्यक्रम का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र। मध्यप्रदेश पैरामेडिकल परिषद् में रजिस्ट्रीकरण।

81.	लेबोरेटरी असिस्टेंट	तृतीय	18	25	माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल अथवा किसी बोर्ड से भौतिकी, रसायन एवं जीवविज्ञान विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। लेब टेक्नीशियन पाठ्यक्रम का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र। मध्यप्रदेश पैरामेडिकल परिषद् में रजिस्ट्रीकरण।
82.	एक्स-रे असिस्टेंट	तृतीय	18	25	माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल अथवा किसी बोर्ड से भौतिकी, रसायन एवं जीवविज्ञान विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। एक्स-रे/ रेडियोग्राफर पाठ्यक्रम का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र। म0प्र0 पैरामेडिकल परिषद् में रजिस्ट्रीकरण।
83.	ड्रेसर	तृतीय	18	25	माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल अथवा किसी बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण प्रमाण पत्र। किसी मान्यता प्राप्त संस्था में 2 वर्ष का ड्रेसर के पद पर कार्य अनुभव।
84.	कम्पाउण्डर आयुर्वेद	तृतीय	18	25	माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल अथवा किसी बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। आयुर्वेद कम्पाउण्डर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। मध्यप्रदेश सह चिकित्सकीय परिषद् में रजिस्ट्रीकरण।
85.	पी.टी.आई.	तृतीय	18	25	विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा (बी.पी.एड. अथवा समकक्ष) विषय में मान्यता प्राप्त स्नातक उपाधि। स्नातकोत्तर अर्हताधारी को अधिमानता।
86.	बायोकेमिस्ट - होम्योपैथी	तृतीय	18	25	विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से एम.एस.सी. (बायोकेमिस्ट्री) या मेडिकल विज्ञान में एम.एस.सी. (बायोकेमिस्ट्री)
87.	डाईटिशियन	तृतीय	18	25	विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से ह्यूमन न्यूट्रिशन में पत्रोपाधि मध्यप्रदेश सह चिकित्सकीय परिषद् में रजिस्ट्रीकरण। न्यूट्रिशन में डिग्रीधारी को वरीयता।

88.	म्यूजियम क्लर्क	तृतीय	18	25	माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल अथवा किसी बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हिन्दी अथवा अंग्रेजी टायपिंग परीक्षा उत्तीर्ण। कम्प्यूटर टाइपिंग का ज्ञान। म्यूजियम में स्पेसिमेन रखरखाव का ज्ञान।
89.	म्यूजियम सहायक	तृतीय	18	25	विज्ञान विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण एवं म्यूजियम कीपिंग में पत्रोपाधि अथवा म्यूजियम कीपिंग में प्रमाण पत्र।
90.	स्टीवर्ड हौम्योपैथी	तृतीय	18	25	माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल अथवा किसी बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। मान्यता प्राप्त बोर्ड से हिन्दी अथवा अंग्रेजी टायपिंग परीक्षा उत्तीर्ण। कम्प्यूटर टाइपिंग का ज्ञान।
91.	इलेक्ट्रीशियन	तृतीय	18	25	माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल अथवा किसी बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। आई.टी.आई. (इलेक्ट्रीशियन) का प्रमाण पत्र। कार्य अनुभवधारी को अधिमानता।
92.	कम्पाउण्डर / औषधी संयोजक होम्योपैथी	तृतीय	18	25	माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल अथवा किसी बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। होम्योपैथी कम्पाउंडर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण। मध्यप्रदेश सह चिकित्सकीय परिषद् में रजिस्ट्रीकरण।
93.	ए.एन.एम.	तृतीय	18	25	विधि द्वारा स्थापित संस्था से जी. एन. एम. परीक्षा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण। संबंधित परिषद् में रजिस्ट्रीकरण।
94.	प्रयोगशाला सहायक	तृतीय	18	25	भौतिकी, रसायन एवं जीवविज्ञान विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। लेब टेक्नीशियन प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम उत्तीर्ण। मध्यप्रदेश पैरामेडिकल परिषद् में रजिस्ट्रीकरण।
95.	फार्मासिस्ट यूनानी	तृतीय	18	25	भौतिकी, रसायन एवं जीवविज्ञान विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। फार्मसी (यूनानी) में पत्रोपाधि। मध्यप्रदेश पैरामेडिकल परिषद् में रजिस्ट्रीकरण।



96.	कम्पाउण्डर यूनानी	तृतीय	18	25	माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल अथवा किसी बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। जिसमें उर्दू विषय हो। यूनानी कम्पाउण्डर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम उत्तीर्ण। मध्यप्रदेश पैरामेडिकल परिषद् में रजिस्ट्रीकरण।
97.	वाहन चालक/ड्रायवर	तृतीय	18	25	हाईस्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण एवं हल्का (लाइट) एवं भारी (हेवी) वाहन चालन का आर.टी.ओ. से अनुज्ञा पत्र (लाईसेंस) धारक हों। हल्का/ भारी वाहन चालन के कार्य अनुभव धारी को अधिमानता।
98.	हेड कुक	तृतीय	18	25	माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल अथवा किसी बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। कुकिंग ज्ञान के अनुभवधारी को अधिमानता।
99 अ.	प्रयोगशाला अटेंडेंट	तृतीय	18	25	भौतिकी, रसायन एवं जीवविज्ञान विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। लेब टेक्नीशियन पाठ्यक्रम का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र। मध्यप्रदेश पैरामेडिकल परिषद् में रजिस्ट्रीकरण।
99 ब.	प्रयोगशाला अटेंडेंट	चतुर्थ	18	25	मान्यताप्राप्त संस्था से आठवीं अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।
100 अ.	कारपेंटर	तृतीय	18	25	माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल अथवा किसी बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। आई.टी.आई. (बढ़ईगीरी) में प्रमाण पत्र संबंधित क्षेत्र में कार्य अनुभवधारी को अधिमानता।
100 ब.	कारपेंटर	चतुर्थ	18	25	मान्यताप्राप्त संस्था से आठवीं अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। संबंधित क्षेत्र में कार्य अनुभवधारी को अधिमानता।
101.	प्लम्बर	चतुर्थ	18	25	हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। प्लम्बर ट्रेड में आई.टी.आई. प्रमाण पत्र। संबंधित क्षेत्र में कार्य अनुभव को अधिमानता।
102.	रसोईया/कुक/किचिन सर्वेन्ट/अटेंडेंट	चतुर्थ	18	25	मान्यता प्राप्त संस्था से आठवीं अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। कुकिंग ज्ञान को अधिमानता।
103.	माली /हेड माली	चतुर्थ	18	25	मान्यता प्राप्त संस्था से आठवीं अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। माली के पद पर कार्य अनुभव धारी को अधिमानता।
104.	लाईब्रेरी/लेबोरेटरी/ओ.पी. डी./ओ.टी. अटेंडेंट	चतुर्थ	18	25	मान्यता प्राप्त संस्था से आठवीं अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

105.	दवासाज	चतुर्थ	18	25	मान्यता प्राप्त संस्था से आठवीं अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।
106.	लेबर रूम अटेंडेंट	चतुर्थ	18	25	मान्यता प्राप्त संस्था से आठवीं अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। महिला आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण कोर्स उत्तीर्ण को अधिमानता।
107.	अटेंडेंट {अकादमिक विभाग के लिए}	चतुर्थ	18	25	मान्यता प्राप्त संस्था से आठवीं अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।
108.	मसाजर (महिला/पुरुष)	चतुर्थ	18	25	मान्यता प्राप्त संस्था से आठवीं अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।
109.	एम्बुलेंस अटेंडेंट	चतुर्थ	18	25	मान्यता प्राप्त संस्था से आठवीं अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।
110.	स्टोर अटेंडेंट	चतुर्थ	18	25	मान्यता प्राप्त संस्था से आठवीं अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।
111.	भृत्य / चौकीदार / फर्राश	चतुर्थ	18	25	मान्यता प्राप्त संस्था से आठवीं अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।
112.	लिफ्टमेन	चतुर्थ	18	25	मान्यता प्राप्त संस्था से आठवीं अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।
113.	मिडवाईफ / वार्डवाय / आया / दाई	चतुर्थ	18	25	माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल अथवा किसी बोर्ड से हाईस्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। महिला आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण कोर्स उत्तीर्ण।
114.	दफतरी/जमादार	चतुर्थ	18	25	मान्यता प्राप्त संस्था से आठवीं अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।
115.	धोबी/वाशर मेन/पानीवाला	चतुर्थ	18	25	मान्यता प्राप्त संस्था से आठवीं अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।
116.	क्लीनर/खल्लासी	चतुर्थ	18	25	मान्यता प्राप्त संस्था से आठवीं अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।
117.	सर्वेन्ट/इंफिरियर/रावत/स्ट्रेचर उठाने वाला	चतुर्थ	18	25	मान्यता प्राप्त संस्था से आठवीं अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।
118.	प्यून एण्ड सायक्लिस्ट/स्टोर अटेंडेंट	चतुर्थ	18	25	मान्यता प्राप्त संस्था से आठवीं अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।
119.	बॉडी लिफ्टर	चतुर्थ	18	25	मान्यता प्राप्त संस्था से आठवीं अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।
120.	स्वीपर/स्वच्छक/स्वीपर (पार्ट टाइम निश्चित वेतन पर)	चतुर्थ	18	25	मान्यता प्राप्त संस्था से आठवीं अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।
121.	सहायक इलेक्ट्रीशियन	चतुर्थ	18	25	मान्यता प्राप्त संस्था से आठवीं अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

नोट:- मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में छूट तथा आयु का निर्धारण मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-8/2016/3-एक दिनांक 12 मई 2017 अथवा शासन द्वारा समय-समय पर किये गये संशोधनों के अनुसार निम्नानुसार रहेगा:-

1.	क0	भर्ती का तरीका	म0प्र0 लोक सेवा आयोग से भरे जाने वाले पदों (राजपत्रित/अराजपत्रित/ कार्यपालिक) पदों के लिए	लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए
			न्यूनतम/अधिकतम आयु सीमा (वर्ष में)	
	1	खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदों के लिए	21 से 28	18 से 25

मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिए आयु-सीमा में अधिकतम छूट

2.	1.	पुरुष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	28+12=40	25+15=40
	2.	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	28+17=45	25+20=45
	3.	पुरुष/महिला आवेदक (शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	28+17=45	25+20=45
	4.	पुरुष/महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)	28+17=45	25+20=45
	5.	पुरुष/महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग-शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	28+17=45	25+20=45
	6.	निःशक्तजन आवेदकों के लिए	28+17=45	25+20=45
प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों को किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु-सीमा में छूट प्राप्त नहीं होगी।				

3. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सभी पदों के अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा।

**अनुसूची-चार**  
(नियम-13 एवं 14 देखिए)

अनुक्रमांक	उस सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाना है	उस सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाना है	कालम (3) में दिए गए पद पर पदोन्नति के लिए कॉलम (2) के पद पर की गई न्यूनतम सेवा अवधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	डिप्टी सुपरिटेण्डेंट/उप अधीक्षक (आयुर्वेद)/ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी (आरएमओ)/ महिला आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी / सीनियर रिसर्च वैद्य	अधीक्षक चिकित्सालय (आयुर्वेद)	5 वर्ष	1. प्रमुख सचिव/ सचिव-अध्यक्ष 2. आयुक्त/संचालक-सदस्य 3. आरक्षित संवर्ग का प्रतिनिधि-सदस्य 4. संबंधित महाविद्यालय का प्राचार्य/मुख्यकार्यपालन अधिकारी-सदस्य सचिव
2.	वरिष्ठ चिकित्सक (विशेषज्ञ)/ रेजिडेंट मेडिकल आफिसर (आर एम ओ) होम्योपैथी/ रेजिडेंट सर्जिकल आफिसर (आर एस ओ) होम्योपैथी / मेडिकल आफिसर होम्योपैथी पुरुष/ मेडिकल आफिसर होम्योपैथी महिला/ क्लीनिकल रजिस्ट्रार	अधीक्षक / सहायक अधीक्षक होम्योपैथी चिकित्सालय	5 वर्ष	-तदैव-
3.	उप अधीक्षक (यूनानी)/ क्लीनिक रजिस्ट्रार (यूनानी)/ रेसीडेंट मेडिकल आफिसर/ मेडिकल आफिसर (यूनानी)	चिकित्सालय अधीक्षक - यूनानी	5 वर्ष	-तदैव-
4.	असिस्टेंट मैट्रन/नर्सिंग सिस्टर	मैट्रन	5 वर्ष	-तदैव-

5.	नर्स / स्टाफ नर्स-आयुर्वेद	असिस्टेंट मैट्रन	5 वर्ष	1.संबंधित महाविद्यालय का प्राचार्य / मुख्यकार्यपालन अधिकारी-अध्यक्ष 2.संभागीय आयुष अधिकारी-सदस्य 3.जिला आयुष अधिकारी-सदस्य 4. आरक्षित संवर्ग का प्रतिनिधि-सदस्य
6.	स्टाफ नर्स/नर्स	नर्सिंग सिस्टर	5 वर्ष	-तदैव-
7.	कार्यालय अधीक्षक आयुर्वेद/यूनानी	प्रशासकीय अधिकारी	5 वर्ष	-तदैव-
8.	सहायक ग्रेड-1	कार्यालय अधीक्षक	5 वर्ष	-तदैव-
9.	सहायक ग्रेड-2/लेखापाल/ मुख्य लिपिक/कम्प्यूटर ऑपरेटर	सहायक/सहायक ग्रेड-1	5 वर्ष	-तदैव-
10.	कैशियर (होम्योपैथी)	लेखापाल	5 वर्ष	-तदैव-
11.	सहायक ग्रेड-3	सहायक ग्रेड-2/लेखापाल	5 वर्ष	-तदैव-
12.	ए.एन.एम. होम्योपैथी	स्टाफ नर्स/ नर्स	5 वर्ष	-तदैव-
13.	पंचकर्म सहायक - आयुर्वेद	पंचकर्म टेक्नीशियन - आयुर्वेद	5 वर्ष	-तदैव-
14.	डार्करूम सहायक - होम्योपैथी	रेडियोग्राफर / एक्स-रे टेक्नीशियन	5 वर्ष	-तदैव-
15.	डार्करूम अटेन्डेन्ट/ एक्स-रे असिस्टेन्ट	एक्स-रे टेक्नीशियन	5 वर्ष	-तदैव-
16.	लेबोरेटरी / लेब असिस्टेंट	लेब टेक्नीशियन	5 वर्ष	-तदैव-
17.	भैषज्य कल्पक- आयुर्वेद	फार्मासिस्ट - आयुर्वेद	5 वर्ष	-तदैव-
18.	म्यूजियम सहायक	म्यूजियम कीपर/म्यूजियम क्लर्क	5 वर्ष	-तदैव-
19.	दवासाज/ पुरुष परिचारक/ महिला	कम्पाउण्डर/ औषधि संयोजक	5 वर्ष	-तदैव-
	परिचारक/ वार्ड वाय/ वार्ड अटेन्डेन्ट			
20.	रसोईया/कुक	हेड कुक	5 वर्ष	-तदैव-
21.	भृत्य/ फर्श/ चौकीदार/ पानीवाला/ चपरासी/ प्युन कम सायकिलिस्ट/ खल्लासी/ इन्फिरियर/ रावत	सहायक ग्रेड-3	5 वर्ष	-तदैव-
22.	सहायक इलेस्ट्रीशियन	इलेस्ट्रीशियन	5 वर्ष	-तदैव-

Bhopal, the 14<sup>th</sup> May 2018

F 1-3/2014/1-59: In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following rules relating to recruitment of Government (Autonomous) AYUSH Mahavidyalaya and Chikitsalaya non-teaching services, namely:-

### **RULES**

#### **1. Short title and Commencement:-**

- (a) These rules may be called the Government (Autonomous) AYUSH Mahavidyalaya and Chikitsalaya (Non-teaching) Services Recruitment Rules, **2018**.
- (b) These rules shall come in to force with effect from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

#### **2. Definitions:-** In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (a) "Appointing Authority" in respect of the services, means Principal and Chief Execution Officer (CEO) of related autonomous Government, AYUSH Mahavidhyalaya and Chikitsalaya;

- (b) "Autonomous Institution" means any Government AYUSH Mahavidyalaya and affiliated chikitsalaya, registered as an autonomous Institutions under "Madhya Pradesh firms and societies Act, 1973";
- (c) "Commissioner/Director" means Commissioner/Director AYUSH Madhya Pradesh;
- (d) "Departmental Promotion Committee" means the departmental promotion committee mentioned in schedule - IV for recruitment through promotion in AYUSH Mahavidyalaya under these rules;
- (e) "Examination" means a competitive examination for recruitment to the service held under Rule -11 of these rules;
- (f) "Government" means Government of Madhya Pradesh;
- (g) "Other Backward Classes" means the Citizens of other backward classes specified from time to time by the state Government as amended by notification;
- (h) "Schedule" means a schedules appended to these rules;
- (i) "Schedule Castes" means any caste, race or tribe or part of, or group within a caste, race or tribe specified as schedule caste with respect to the state of Madhya Pradesh under Article 341 of the constitution of India;
- (j) "Schedule Tribe" means any caste, race, or tribe or part of, or group within a caste, race or tribe specified

v

as schedule tribe, with respect to the state of Madhya Pradesh under Article 342 of the constitution of India;

(k) "Selection Committee" means one or more selection committees formed in AYUSH Mahavidyalaya as per the provision mentioned in schedule - III for direct recruitment under these rules;

(l) "Services" means all these posts whose recruitment has been made/or to be made under the provision of these rules;

(m) "State" means state of Madhya Pradesh;

**3. Scope and Application:-** Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

**4. Constitution of the service:-** The service shall consist of the following persons, namely:-

(1) Those persons who at the commencement of these rules are holding substantively or permanently the posts specified in schedule - I being appointed by the appointing authority of any Government autonomous AYUSH Mahavidyalaya.

(2) Persons recruited to the service by the time being rules of AYUSH department, Government of Madhya Pradesh and merged in the autonomous services after the autonomy of the colleges before commencement of these rules, and



(3) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

**5. Classification, Scale of pay etc:-** The classification of service, scale of pay and the number of posts included in the service shall be in accordance with the provisions contained in schedule-I attached thereto:

Provided that the Government may from time to time add to or reduce the number of posts included in the service either on a permanent or temporary basis.

**6. Methods of recruitment:-**

(1) The Recruitment to the service, shall be made by following methods, namely:-

(a) By direct recruitment through competitive examination/ selection: The posts included in schedule-I of the rules, shall be filled through Madhya Pradesh Public Service Commission and Class-III and Class-IV Posts shall be filled the Professional Examination Board.

(b) By promotion of the members of the service (as shown in schedule-IV).

(c) By transfer of persons who hold in a substantive capacity, such posts in such services as may be specified in this behalf.

(2) The number of persons recruited under clause (b) or clause (c) of sub rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in schedule - II or the number of duty posts, as Specified in Schedule- I.

(3) Subject to the Provision of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purposes of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the Government.

(4) Subject to the Provision of these rules, depending on requirements, services may be given on deputation in other institutions:

Provided that lien of these individuals shall remain with the original employer institution.

(5) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Government, the exigencies of the service so requires, the Government may adopt such methods of recruitment of the service other than those specified in said sub-rule, as it may prescribe by order issued in this behalf.

**7. Appointment to the service:-** All appointments to the service after the commencement of these rules shall be made by the appointing authority of autonomous Institutions and such appointment shall be made only after selection by any one of the methods of recruitment specified in the rule 6, otherwise not.

**8. Conditions of eligibility for direct recruitment:-** In order to be eligible to be selected/ to appear in the examination, a candidate must satisfy the following conditions, namely:-

**(1) Age:-**

- (a) He must have attained the age specified in column (4) of schedule-III and not attained the age specified in column (5) of the said schedule on the first day of January next following the date of commencement of the selection.
- (b) The upper age limit shall not be relaxable exceeding a maximum of 45 years in respect of a candidate who is holding a post temporarily and applying for another post. This concession shall also be admissible to work charged employees, contingency paid employees and persons employed in the project implementing committees.
- (c) A candidate, who is a retrenched Government servant shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of seven years even if it represents the total of more than one spell of service provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 years.

**Explanation:-** The term "retrenched Government Servant" denote a person who was in temporary Government service of this state or in any of the

constituent units for continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment, not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service.

- (d) A candidate, who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of complete defense service previously rendered by him provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 years.

**Explanation:-** The term "Ex-serviceman" denotes a person who belonged to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to general reduction in the establishment or declared surplus, not more than maximum period of three years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service:-

- (i) Ex- Serviceman released under mustering out concessions.

- (ii) Ex- Serviceman enrolled for the second time and discharged on:-
  - (a) Completion of short term engagement.
  - (b) Fulfilling the conditions of enrollment.
- (iii) Ex- Personnel of Madras Civil Unit.
- (iv) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short service regular commissioned officers.)
- (v) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies.
- (vi) Ex- service man invalidated out of service.
- (vii) Ex- Serviceman discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers.
- (viii) Ex- Serviceman who are medically boarded out on account of gun-shot wounds etc.
- (ix) Couples felicitated under schedule caste, Schedule Tribe and other Backward Classes intercaste marriage scheme shall be allowed five year relaxation in upper age limit.
- (x) Five years relaxation in upper age limit shall be admissible to the sports man received "Vikram Award."
- (xi) The upper age limit shall be relaxed in case of Voluntary Home Guards and non- commissioned officers of the home guards for the period of services

rendered so by them subject to the limit of eight years but in no case their age should exceed 45 years.

**Note.-** (i) Candidates who are admitted to the examination under the age concessions mentioned in sub-rule (1) (b) above shall not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign from the service either before or after selection, they will however continue to be eligible if they are retrenched from the service or posts after submitting the applications.

(ii) The candidates belonging to other government Departmental shall be required to obtain prior permission from the appointing authority to appear for selection.

**(2) Educational Qualifications:-** Candidate must possess the educational, professional qualifications and experience as prescribed for the service as shown in the column (6) of schedule -III.

**(3) Fees-** The candidate must have to pay the fees prescribed by the appointing authorities / MP Public Service commission/ **Professional examination board.**

**9. Disqualification:-**

(1) Any attempt on the part of the candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Appointing Authority to disqualify him for selection.

- (2) No candidate who has more than two children after 26<sup>th</sup> January 2001, shall be eligible for appointment on any post of service:

Provided that any candidate who has one child and has got the next birth of two or more children together through a delivery on or after 26<sup>th</sup> January 2001, shall not be held ineligible on this ground.

- (3) No Candidate who has has been held victim of any crime against women shall be eligible for appointment on any post of the service:

Provided that if there is any such case running against any of the candidates in the court, then in such case his/her appointment shall be kept on pending till the final decision of court in context to his/her criminal case.

- (4) No male candidate who has more than one wives alive, and no female candidate who has married to such person who has already a wife alive shall be eligible for appointment on any post of service.

**10. Eligibility of the Candidate-** The decision of the **Competent Authority** regarding the eligibility or otherwise of a candidate for selection shall be final and a candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the **Competent Authority** shall not be eligible for the appointment.

**11. Direct Recruitment by competitive examination:-**

- (1) A competitive examination for recruitment to the service shall be held by the appointing authority at such intervals as the appointing authority may from time to time determine.
- (2) The selection of the candidates shall be done by the appointing authority as decided by Competent Authority from time to time for the posts included in the services.
- (3) 16 percent, 20 percent and 14 percent vacancies shall be kept reserved out of the vacancies available for direct recruitment for the candidates belonging to schedule caste, schedule tribe and other backward classes respectively.
- (4) Keeping in view maintaining the competence of the administration, the candidates of Schedule Castes, Schedule Tribes and Other Backward Classes selected by the appointing authority may be appointed on the vacancies reserved under sub-rule (3) for Schedule Castes, Schedule Tribes or Other Backward Classes as the case may be.
- (5) In case of non-availability of eligible candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes the vacancies shall not be filled by other categories of candidate without permission of the State Government and shall not be unreserved for the candidate through any means other



than for whom the reservation has been made for the post or posts.

**12. List of candidates selected for appointment:-**

- (1) The appointing authority/selection committee shall prepare a list arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standards as the appointing authority may determine and of the candidates belonging to the Schedule Castes, Schedule Tribes and Other Backward Classes who though not qualified by the standard, are selected by the appointing authority to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration. The list shall also be published for general information.
- (2) Subject to the provision of these rules and of the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.
- (3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Government is satisfied after such enquiry as considered necessary that the candidate is eligible in all respects for appointment to the service.

**13. Appointment by promotion:-**

- (1) There shall be constituted a Departmental Promotion committee consisting of the members mentioned in the

Schedule-IV for making selection for promotion of eligible candidates.

- (2) The committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year.
- (3) Procedure for making promotion in the vacancies of promotion quota shall be in accordance with the instructions issued by general administration department from time to time.

**14. Conditions of eligibility for promotion:-**

- (1) Subject to the provision of sub-rule (2) the departmental promotion committee shall consider the cases of all persons who on the 1<sup>st</sup> day of January of that year had completed prescribed number of years of service as mentioned in column (4) of the schedule-IV for the post mentioned in column (2) of the said schedule or in any other post/posts declared equivalent thereto by the Government and fulfill other conditions mentioned therein and are within the zone of consideration as per sub rule (2):

Provided that no junior person shall be considered for selection grade/promotion in preference to the person senior to him only on the basis of his completing the prescribed years of service.

- (2) The number of officers/employees to be included in the selection list shall be in accordance with orders/instructions issued by General Administration Department in due course:

Provided that if the required numbers of suitable officers are not available in the field so determined the field may be enlarged to the extent considered necessary by mentioning the reasons in writing.

**15. Preparation of list of suitable Officers:-**

- (1) The Committee shall prepare a list of such persons who satisfy the conditions prescribed in rule 14 above and held by the committee to be suitable for promotion to the service. This list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotions during the course of one year from the date of preparation of the select list. A reserve list consisting of 25% of the number of persons included in the said list shall also be prepared to meet the unforeseen vacancies occurring during the course of the aforesaid period.
- (2) The selection for inclusion in such list shall be based on merit and suitability in all respect with due regard to seniority.
- (3) The names of the candidates included in the list shall be arranged in order of seniority in the posts as specified in column (2) of schedule - IV at the time of preparation of each select list.

**Explanation:-** A person whose name is included in a select list but who is not promoted during the validity of the list shall have no claim to seniority over those

considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

- (4) The list so prepared shall remain ordinarily valid for one year.
- (5) If in the process of selection, review or revision, it is proposed to supersede any member of the service, the committee shall record its reason for the proposed supersession.

#### 16. Selection list:-

- (1) The list thus prepared under Rule 15 , as finally approved by the **Competent Authority** shall be the selection list for promotion of the members of service in the posts shown in column (2) of Schedule-IV to the posts shown in column (3) of the said Schedule to fill up the unexpected vacancies created thereby.
- (2) The selection list shall remain in force after the approval of the **Competent Authority** for a period of one year. Its validity may extended beyond a total period of 18 months from the date of its preparation:

Provided that in the event of grave lapse in the conduct or performance of duties in the part of any persons included in the selection list a special review of the selection list may be made at the instance of the Government if it thinks fit, may remove the name of such person from the selection list.

**17. Appointment to the service from the selection list:-**

- (1) Appointment of the candidates included in the selection list to posts borne on the cadre of the service shall follow the order in which the names of such candidates appear in the selection list.
- (2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Government before appointment of a person whose name is included in the selection list to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the selection list and the date of the proposed appointment, there occurs any deterioration in his work which, in the opinion of the Government is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

**18. Probation:-** Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

**19. Reservation :-** The reservation shall be applicable as per the provisions made in the prevailing rules of Government both for direct recruitment and promotion. Nothing in these rules shall affect reservation and other conditions required to be provided for the Schedule Castes, Schedule Tribes and Other Backward Classes in accordance with orders issued by the State Government from time to time in this regard.

**20. Compassionate appointment:-** If any employee dies during service, the compassionate appointment shall be given to any one of the dependents of the employee, as per the prevailing Government rules.

- 21. Kramonnati/time pay scale:** The kramonnati/ time pay scale shall be given to the officers /employees as per the prevailing Government rules.
- 22. Interpretation:-** If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to Government whose decision thereon shall be final.
- 23. Relaxation and Repeal:-**(1) All rules corresponding to these rules and in force immediately before their commencement are, hereby, repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under these rules so repealed shall be deemed to have made or taken under the corresponding provision of these rules.

(2) Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to it to be just and equitable.

## Schedule – I

(See rule 5)

1.A Pt.Khushilal Sharma Government (Autonomous) Ayurved College & Institute, Bhopal					
S.No.	Name of the post included in the service	No. of posts	Classification	Pay scale	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Medical specialist (Allopathy)	1	I	15600 – 39100 + 5400	
2.	Surgical specialist (Allopathy)	1	II	15600 – 39100 + 5400	
3.	Obstetrician & Gynaecologist	1	II	15600 – 39100 + 5400	
4.	Dentist	1	II	15600 – 39100 + 5400	
5.	Pharmacognosist	1	II	15600 – 39100 + 5400	
6.	Anaesthetist	1	II	15600 – 39100 + 5400	
7.	Pharmacologist	1	II	15600 – 39100 + 5400	
8.	Bio – Chemist	1	II	15600 – 39100 + 5400	
9.	Analytical chemist	1	II	15600 – 39100 + 5400	
10.	Clinical registrar	5	II	15600 – 39100 + 5400	
11.	Deputy superintendent	1	II	15600 – 39100 + 5400	
12.	Panchakarma chikitsak (1-Female/1-Male)	2	II	15600 – 39100 + 5400	
13.	casualty medical officer	3	II	15600 – 39100 + 5400	
14.	Radiologist	1	II	15600 – 39100 + 5400	
15.	Pharmaceutical chemist	1	II	15600 – 39100 + 5400	
16.	Microbiologist	1	II	15600 – 39100 + 5400	
17.	Biotechnologist	1	II	15600 – 39100 + 5400	
18.	Pathologist	1	II	15600 – 39100 + 5400	
19.	Sport officer	1	II	15600 – 39100 + 5400	
20.	Librarian	1	II	15600 – 39100 + 5400	

21.	Deputy manager	1	II	15600 – 39100 + 5400	
22.	Statistician	1	II	15600 – 39100 + 5400	
23.	Administrative officer	1	III	9300 – 34800 + 4200	
24.	Matron	1	III	9300 – 34800 + 4200	
25.	Junior engineer	1	III	9300 – 34800 + 3600	
26.	Physiotherapist	1	III	9300 – 34800 + 3600	
27.	Garden superintendent	1	III	9300 – 34800 + 3600	
28.	Office superintendent	1	III	9300 – 34800 + 3600	
29.	Junior account officer	1	III	9300 – 34800 + 3600	
30.	Steno	1	III	5200 – 20200 + 2800	
31.	Assistant matron	2	III	5200 – 20200 + 2800	
32.	Assistant grade – 1	1	III	5200 – 20200 + 2800	
33.	Assistant librarian	1	III	5200 – 20200 + 2800	
34.	Nurse/Staff nurse	32	III	5200 – 20200 + 2800	(Brahmswaroop)
35.	Pharmacist	17	III	5200 – 20200 + 2400	
36.	O.T. technician	6	III	5200 – 20200 + 2400	
37.	Panchakarma technician	5	III	5200 – 20200 + 2400	
38.	Lab. technician	16	III	5200 – 20200 + 2400	
39.	Refractionist	1	III	5200 – 20200 + 2400	
40.	Audiometrist	1	III	5200 – 20200 + 2400	
41.a	Museum keeper (Higher grade)	5	III	5200 – 20200 + 2400	
41.b	Museum keeper (Lower grade)	8	III	5200-20200+ 1900	
42.	Ksharsutra technician	1	III	5200 – 20200 + 2400	
43.	X – ray technician	1	III	5200 – 20200 + 2400	
44.	Accountant	2	III	5200 – 20200 + 2400	
45.	Assistant grade – 2	3	III	5200 – 20200 + 2400	



46.	Storekeeper	3	III	5200 – 20200 + 2400	
47.	Computer programmer	2	III	5200 – 20200 + 2400	
48.	Artist	1	III	5200 – 20200 + 2400	
49.	Photographer	1	III	5200 – 20200 + 2400	
50.	Computer operator cum assistant {14 – for each academic department (1 – 1) }	14	III	5200 – 20200 + 1900	
51	Data Entry operator ( for Hospital)	1	III	5200 – 20200 + 1900	
52	Phone operator cum Receptionist	1	III	5200 – 20200 + 1900	
53	Assistant grade - 4	3	III	5200 – 20200 + 1900	
54	Panchakarma assistant (M/ F)	19	III	5200 – 20200 + 1900	
55	Machine operator	1	III	5200 – 20200 + 1900	
56	Pump mechanic	1	III	5200 – 20200 + 1900	
57	Animal feeder	2	III	5200 – 20200 + 1900	
58	Bhaishajya Kalpak	3	III	5200 – 20200 + 1900	
59	Darkroom attendant	1	III	5200 – 20200 + 1900	
60	Laboratory assistant – Kriya sharir :1, Shalakya : 1, Pharmacology : 2, Pharmaceutical Chemistry : 1, Rog nidan : 1, Microbiology : 1 and 8 others	15	III	5200 – 20200 + 1900	
61	Dresser	3	III	5200 – 20200 + 1900	
62	Compounder	3	III	5200 – 20200 + 1900	
63	Gardener	2	IV	5200 – 20200 + 1800	
64	O.T. attendant	2	IV	4400 – 7440 + 1400	

65	O.T. attendant	2	IV	4400 – 7440 + 1300	
66	Attendant for 14 each academic department  (1 – 1)	14	IV	4400 – 7440 + 1300	
67	Labor room attendant	3	IV	4400 – 7440 + 1300	
68	Midwife/Wardboy/Aya	20	IV	4400 – 7440 + 1300	
69	Liftman	5	IV	4400 – 7440 + 1300	
70	Sweeper	32	IV	4400 – 7440 + 1300	
71	Laboratory attendant – Pharmacology : 02, Microbiology : 01 and 10 others	13	IV	4400 – 7440 + 1300	
72	Library attendant	2	IV	4400 – 7440 + 1300	
73	OPD attendant	11	IV	4400 – 7440 + 1300 .	
74	Bhritya cum Chowkidar cum Pharash	3	IV	4400 – 7440 + 1300	
75	Bhritya	3	IV	4400 – 7440 + 1300	
76	Chowkidar	4	IV	4400 – 7440 + 1300	
77	Body lifter	2	IV	4440 – 7440 + 1300	
78	Sweeper ( part time at fixed pay)	2	-	-	
79	Driver ( prescribed Collector ate rate)	3	-	-	
80	Cleaner( prescribed Collector ate rate)	1	-	-	
	TOTAL	338			

1. B Shivnath Shashtri Government (Autonomous) Ayurved College, Burhanpur					
S.No.	Name of the post included in the service	No. of posts	Classification	Pay scale	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Superintendent	1	I	15600 – 39100 + 6600	
2.	Radiologist	1	II	15600 – 39100 + 5400	
3.	R.M.O	1	II	15600 – 39100 + 5400	
4.	Ayusadhi nirman vaidya	1	II	15600 – 39100 + 5400	
5.	Pathologist	1	II	15600 – 39100 + 5400	
6.	Panchakarma chikitsak (1-F/1- M)	1	II	15600 – 39100 + 5400	
7.	Ayurved medical officer	1	II	15600 – 39100 + 5400	
8.	Female Ayurved medical officer	1	II	15600 – 39100 + 5400	
9.	Matron	1	III	9300 – 34800 + 4200	
10.	Physiotherapist	1	III	9300 – 34800 + 3600	
11.	Nursing sister	1	III	9300 – 34800 + 3600	(Brahmswaroop)
12.	Nurse	10	III	5200 – 20200 + 2800	(Brahmswaroop)
13.	Panchakarma technician	1	III	5200 – 20200 + 2400	
14.	Ksharsutra technician	1	III	5200 – 20200 + 2400	
15.	Mukhya lipik/ Head clerk	2	III	5200 – 20200 + 2400	
16.	X – ray technician	1	III	5200 – 20200 + 2400	
17.	Accountant	1	III	5200 – 20200 + 2400	
18.	Museum keeper cum artist	2	III	5200 – 20200 + 2400	(Brahmswaroop)
19.	Assistant grade- 3	1	II	5200 – 20200 + 2400	
20.	Store keeper	1	III	5200 – 20200 + 2400	
21.	Lab technician	1	III	5200 – 20200 + 2400	
22.	Assistant grade-3/ Typist cum	8	III	5200 – 20200 + 1900	

	clerk				
23.	Panchkarma assistant ( M./F.)	1	III	5200 – 20200 + 1900	
24.	Darkroom attendant	1	III	5200 – 20200 + 1900	
25.	Dresser	2	III	5200 – 20200 + 1900	
26.	Compounder	4	III	5200 – 20200 + 1900	
27.	O.T attendant	2	IV	4400 – 7440 + 1400	
28.	Dawasaj (Mini pharmacy)	2	IV	4400 – 7440 + 1300	
29.	Laboratory attendant	1	IV	4400 – 7440 + 1300	
30.	OPD attendant (1 each for 6 departments)	4	IV	4400 – 7440 + 1300	
31.	Labor room attendant	1	IV	4400 – 7440 + 1300	
32.	Bhritiya	6	IV	4400 – 7440 + 1300	
33.	Wardboy	5	IV	4400 – 7440 + 1300	
34.	Sweeper	1	IV	4400 – 7440 + 1300	
35.	Swachak/sweeper (Contingency)	4	-	-	
36.	Chowkider (Contingency)	2	-	-	
37.	Rasoiya (Contingency)	2	-	-	
38.	Waterman (Contingency)	1	-	-	
39.	Kitchen servant (Contingency)	1	-	-	
40.	Dhobi (Contingency)	1	-	-	
	<b>TOTAL</b>	<b>81</b>			
1. C	<b>Government (Autonomous) Ayurved College and Hospital, Gwalior</b>				
S.No.	Name of the post included in the service	No. of posts	Classificat ion	Pay scale	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Superintendent Hospital	1	I	15600 – 39100+ 6600	

2	Reader sahitya anusadhan	1	I	15600 – 39100+ 6600	
3	Medical specialist (Allopathy)	1	II	15600 – 39100+ 5400	
4	Surgical specialist (Allopathy)	1	II	15600 – 39100+ 5400	
5	Obstetrician & Gynaecologist	1	II	15600 – 39100+ 5400	
6	Dentist	1	II	15600 – 39100+ 5400	
7	Pharmacognosist	1	II	15600 – 39100+ 5400	
8	Anaesthetist	1	II	15600 – 39100+ 5400	
9	Pharmacologist	1	II	15600 – 39100+ 5400	
10	Bio – Chemist	1	II	15600 – 39100+ 5400	
11	Analytical chemist	1	II	15600 – 39100+ 5400	
12	Clinical registrar	6	II	15600 – 39100+ 5400	
13	Deputy superintendent	1	II	15600 – 39100+ 5400	
14	Panchakarma chikitsak (Female/Male)	2	II	15600 – 39100+ 5400	
15	Pathologist	1	II	15600 – 39100+ 5400	
16	Botanist cum Pharmacognosist	1	II	15600 – 39100+ 5400	
17	Research officer	1	II	15600 – 39100+ 5400	
18	Senior research vaidya	1	II	15600 – 39100+ 5400	
19	Junior research vaidya	1	II	15600 – 39100+ 5400	
20	Radiologist	1	II	15600 – 39100+ 5400	
21	Ayurved medical officer ( R.M.O)	2	II	15600 – 39100+ 5400	
22	Female Ayurved medical officer	1	II	15600 – 39100+ 5400	
23	Matron	1	II	9300 – 34800+ 4200	
24	Physiotherapist	1	III	9300 – 34800+ 3600	
25	Nursing sister	1	III	9300 – 34800 + 3600	(Brahmswaroop)
26	Assistant matron	1	III	9300 – 34800+ 2800	

27	Pustakalayadhaksh (Librarian)	1	III	5200 – 20200 + 2800	
28	Research librarian	1	III	5200 – 20200 + 2800	
29	Demonstrator science	1	III	5200 – 20200 + 2800	
30	Nurse/staff nurse	22	III	5200 – 20200 + 2800	(Brahmswaroop)
31	Lab technician	10	III	5200 – 20200 + 2400	
32	Refractionist	1	III	5200 – 20200 + 2400	
33	Audiometrist	1	III	5200 – 20200 + 2400	
34	Museum keeper	4	III	5200 – 20200 + 2400	
35	Radiographer	1	III	5200 – 20200 + 2400	
36	Ksharsutra technician	1	III	5200 – 20200 + 2400	
37	Vyam shikshak	1	III	5200 – 20200 + 2400	
38	Pharmacist	8	III	5200 – 20200 + 2400	
39	Artist	1	III	5200 – 20200 + 2400	
40	Mukhya lipik/ Assistant grade - 2	4	III	5200 – 20200 + 2400	
41	Accountant	1	III	5200 – 20200 + 2400	
42	Pachakarma technician	1	III	5200 – 20200 + 2400	
43	Museum keeper cum artist	3	III	5200 – 20200 + 2400	(Brahmswaroop)
44	Junior vaidya	4	III	5200 – 20200 + 2100	
45	Assistant grade – 3	13	III	5200 – 20200 + 1900	
46	Museum assistant	1	III	5200 – 20200 + 1900	
47	X – ray assistant	1	III	5200 – 20200 + 1900	
48	Carpenter	1	III	5200 – 20200 + 1900	(Brahmswaroop)
49	Driver	1	III	5200 – 20200 + 1900	
50	Dresser	3	III	5200 – 20200 + 1900	

51	Compounder	7	III	5200 – 20200 + 1900	
52	Computer operator cum assistant (14 – for each academic department (1 – 1))	14	III	5200 – 20200 + 1900	
53	Assistant lab technician	3	III	5200 – 20200 + 1900	
54	Lab assistant	12	III	5200 – 20200 + 1900	
55	Data Entry operator ( for Hospital)	1	III	5200 – 20200 + 1900	
56	Phone operator cum Receptionist	1	III	5200 – 20200 + 1900	
57	Panchakarma assistant (F/M)	8	III	5200 – 20200 + 1900	
58	Lab./ Laboratory attendant	14	III	5200 – 20200 + 1800	
59	O.T. attendant	2	III	4440 – 7440 + 1400	
60	Library attendant	1	III	4440 – 7440 + 1400	
61	Head mali	1	III	4440 – 7440 + 1400	
62	Daftari	1	III	4440 – 7440 + 1300	
63	OPD attendant	4	IV	4440 – 7440 + 1300	
64	Labor room attendant	2	IV	4440 – 7440 + 1300	
65	Mali	2	IV	4440 – 7440 + 1300	
66	Peon and cyclist	4	IV	4440 – 7440 + 1300	
67	Servant	2	IV	4440 – 7440 + 1300	
68	Bharitya	5	IV	4440 – 7440 + 1300	
69	Pharrash	2	IV	4440 – 7440 + 1300	
70	Chowkidar	3	IV	4440 – 7440 + 1300	
71	Sweeper/Swacchak	34	IV	4440 – 7440 + 1300	
72	Dhobi	1	IV	4440 – 7440 + 1300	
73	Inferior	4	IV	4440 – 7440 + 1300	

74	Khallasi	1	IV	4440 – 7440 + 1300	
75	Lab attendant	1	IV	4440 – 7440 + 1300	
76	OT. attendant	1	IV	4440 – 7440 + 1300	
77	Attendant each for 14 academic department (1 – 1)	14	IV	4440 – 7440 + 1300	
78	Midwife/Wardboy/Aya	12	IV	4440 – 7440 + 1300	
79	Aya	14	IV	4440 – 7440 + 1300	
80	Ward boy	2	IV	4440 – 7440 + 1300	
81	Body lifter	1	IV	4440 – 7440 + 1300	
	<b>TOTAL</b>	<b>301</b>			

## 1. D Government (Autonomous) Astang Ayurved College, Indore

S.No.	Name of the post included in the service	No. of posts	Classificat ion	Pay scale	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Superintendent hospital	1	I	15600 – 39100 + 6600	
2.	Radiologist	1	II	15600 – 39100 + 5400	
3.	Pathologist	1	II	15600 – 39100 + 5400	
4.	Panchakarma chikitsak (F./M.)	1	II	15600 – 39100 + 5400	
5.	Ausadhi nirman vaidya	1	II	15600 – 39100 + 5400	
6.	Matron	1	III	9300 – 34800 + 4200	
7.	Physiotherapist	1	III	9300 – 34800 + 3600	
8.	Nursing sister	3	III	9300 – 34800 + 3600	
9.	Nurse/ staff nurse	13	III	5200 – 20200 + 2800	(Brahmswaroop)
10.	P.T.I	1	III	5200 – 20200 + 2400	
11.	Panchkarma technician	1	III	5200 – 20200 + 2400	



12.	Ksharsutra technician	1	III	5200 – 20200 + 2400	
13.	X – ray technician	1	III	5200 – 20200 + 2400	
14.	Mukhya lipik/ Assistant grade – 2	5	III	5200 – 20200 + 2400	
15.	Accountant	2	III	5200 – 20200 + 2400	
16.	Store keeper	2	III	5200 – 20200 + 2400	
17.	Lab technician	2	III	5200 – 20200 + 2400	
18.	Assistant grade – 3	8	III	5200 – 20200 + 1900	
19.	Librarian cum museum keeper	1	III	5200 – 20200 + 1900	
20.	Panchkarma assistant (M./F)	1	III	5200 – 20200 + 1900	
21.	Lab assistant	1	III	5200 – 20200 + 1900	
22.	Dresser	3	III	5200 – 20200 + 1900	
23.	Compounder	6	III	5200 – 20200 + 1900	
24.	Carpenter	1	III	5200 – 20200 + 1900	(Brahmswaroop)
25.	Driver	1	III	5200 – 20200 + 1900	
26.	Darkroom attendant	1	III	5200 – 20200 + 1900	
27.	Laboratory attendant	5	III	5200 – 20200 + 1900	
28.	O.T. attendant	2	III	4440 – 7440 + 1400	
29.	Dai	2	III	4440 – 7440 + 1400	
30.	OPD attendant (1 each for 6 departments)	4	IV	4440 – 7440 + 1300	
31.	Labor room attendant	1	IV	4440 – 7440 + 1300	
32.	Bhritya	7	IV	4440 – 7440 + 1300	
33.	Chowkidar	2	IV	4440 – 7440 + 1300	
34.	Ward boy	5	IV	4440 – 7440 + 1300	
35.	Daftari	1	IV	4440 – 7440 + 1300	
36.	Dawasaj	5	IV	4440 – 7440 + 1300	

37.	Rawat	1	IV	4440 – 7440 + 1300	
38.	Cook	2	IV	4440 – 7440 + 1300	
39.	Rasoiya	1	IV	4440 – 7440 + 1300	
40.	Waterman	2	IV	4440 – 7440 + 1300	
41.	Sweeper	2	IV	4440 – 7440 + 1300	
42.	Ward boy ( prescribed Collectorate rate)	1	-	-	
43.	Chowkidar( prescribed Collectorate rate)	1	-	-	
44.	Rasoiya( prescribed Collectorate rate)	1	-	-	
45.	Water man (prescribed Collectorate rate)	2	-	-	
46.	Washer man (prescribed Collectorate rate)	2	-	-	
47.	Kitchen servant (prescribed Collectorate rate)	2	-	-	
48.	Swacchak (Contingency)	4	-	-	
	TOTAL	116			

## 1. E Government (Autonomous) Ayurved College, Jabalpur

S.No.	Name of the post included in the service	No. of posts	Classificat ion	Pay scale	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Superintendent Hospital	1	I	15600 – 39100 + 6600	
2.	Radiologist	1	II	15600 – 39100 + 5400	
3.	Pathologist	1	II	15600 – 39100 + 5400	
4.	Panchakarma chikitsak (F./M.)	1	II	15600 – 39100 + 5400	
5.	Ayurved medical officer	3	II	15600 – 39100 + 5400	

6.	Ausadhi Nirman vaidya	1	II	15600 – 39100 + 5400	
7.	Matron	1	II	9300 – 34800 + 4200	
8.	Physiotherapist	1	III	9300 – 34800 + 3600	
9.	Nursing sister	1	III	9300 – 34800 + 3600	(Brahmswaroop)
10.	Demonstrator science	1	III	5200 – 20200 + 2800	
11.	Staff nurse	10	III	5200 – 20200 + 2800	(Brahmswaroop)
12.	P.T.I	1	III	5200 – 20200 + 2400	
13.	Panchkarma technician	1	III	5200 – 20200 + 2400	
14.	Ksharsutra technician	1	III	5200 – 20200 + 2400	
15.	X – ray technician	1	III	5200 – 20200 + 2400	
16.	Mukhya lipik/ Assistant grade - 2	3	III	5200 – 20200 + 2400	
17.	Accountant	1	III	5200 – 20200 + 2400	
18.	Store keeper	1	III	5200 – 20200 + 2400	
19.	Lab technician	1	III	5200 – 20200 + 2400	
20.	Museum keeper cum artist	1	III	5200 – 20200 + 2400	(Brahmswaroop)
21.	Assistant grade - 3	7	III	5200 – 20200 + 1900	
22.	Lab assistant	1	III	5200 – 20200 + 1900	
23.	Darkroom attendant	1	III	5200 – 20200 + 1900	
24.	Museum assistant cum librarian	1	III	5200 – 20200 + 1900	
25.	Carpenter	1	III	5200 – 20200 + 1900	(Brahmswaroop)
26.	Panchkarma assistant (M./F)	1	III	5200 – 20200 + 1900	
27.	Dresser	3	III	5200 – 20200 + 1900	
28.	Compounder	3	III	5200 – 20200 + 1900	
29.	O.T.attendant	2	IV	4440 – 7440 + 1400	
30.	Daftari	1	IV	4440 – 7440 + 1400	

31.	Laboratory attendant	5	IV	4440 – 7440 + 1300	
32.	OPD attendant	4	IV	4440 – 7440 + 1300	
33.	Labor room attendant	1	IV	4440 – 7440 + 1300	
34.	Bhritya	5	IV	4440 – 7440 + 1300	
35.	Chowkidar	1	IV	4440 – 7440 + 1300	
36.	Ward boy	4	IV	4440 – 7440 + 1300	
37.	Dawasaj	2	IV	4440 – 7440 + 1300	
38.	Cook	2	IV	4440 – 7440 + 1300	
39.	Water man	2	IV	4440 – 7440 + 1300	
40.	Kitchen servant	1	IV	4440 – 7440 + 1300	
41.	Dhobi	2	IV	4440 – 7440 + 1300	
42.	Swacchak	3	IV	4440 – 7440 + 1300	
	TOTAL	86			
1. F	<b>Government (Autonomous) Ayurved College, Rewa</b>				
<b>S.No.</b>	<b>Name of the post included in the service</b>	<b>No. of posts</b>	<b>Classification</b>	<b>Pay scale</b>	<b>Remark</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
1.	Superintendent Hospital	1	I	15600 – 39100 + 6600	
2.	Medical specialist (Allopathy)	1	II	15600 – 39100+ 5400	
3.	Surgical specialist (Allopathy)	1	II	15600 – 39100+ 5400	
4.	Obstetrician & Gynaecologist	1	II	15600 – 39100+ 5400	
5.	Dentist	1	II	15600 – 39100+ 5400	
6.	Pharmacognosist	1	II	15600 – 39100+ 5400	
7.	Anaesthetist	1	II	15600 – 39100+ 5400	
8.	Pharmacologist	1	II	15600 – 39100+ 5400	
9.	Bio – Chemist	1	II	15600 – 39100+ 5400	
10.	Analytical chemist	1	II	15600 – 39100+ 5400	

11.	Clinical registrar	6	II	15600 – 39100+ 5400	
12.	Deputy superintendent	1	II	15600 – 39100+ 5400	
13.	Panchakarma chikitsak (1-F/ 1-M)	2	II	15600 – 39100 + 5400	
14.	Ayurved medical officer	4	II	15600 – 39100+ 5400	
15.	Radiologist	1	II	15600 – 39100+ 5400	
16.	Pathologist	1	II	15600 – 39100+ 5400	
17.	Ausadhi nirman vaidya	1	II	15600 – 39100+ 5400	
18.	Matron	1	III	9300 – 34800+ 4200	
19.	Physiotherapist	1	III	9300 – 34800+ 3600	
20.	Nursing sister	1	III	9300 – 34800 + 3600	(Brahmswaroop)
21.	Assistant matron	1	III	5200 – 20200+ 2800	
22.	Staff nurse	22	III	5200 – 20200 + 2800	
23.	Pharmacist	8	III	5200 – 20200 + 2400	
24.	Panchakarma technician	1	III	5200 – 20200 + 2400	
25.	X-ray technician	1	III	5200 – 20200 + 2400	
26.	Lab technician	1	III	5200 – 20200 + 2400	
27.	Refractionist	6	III	5200 – 20200 + 2400	
28.	Audiometrist	1	III	5200 – 20200 + 2400	
29.	Museum keeper	1	III	5200 – 20200 + 2400	
30.	Accountant	3	III	5200 – 20200 + 2400	
31.	Assistant grade – 2	1	III	5200 – 20200 + 2400	
32.	Storekeeper	1	III	5200 – 20200 + 2400	
33.	Ksharsutra technician	1	III	5200 – 20200 + 2400	
34.	Museum keeper cum artist	4	III	5200 – 20200 + 2400	(Brahmswaroop)
35.	Assistant grade – 3	6	III	5200 – 20200 + 1900	

36.	Dresser	3	III	5200 – 20200 + 1900	
37.	Panchakarma assistant (4-F+4-M)	8	III	5200 – 20200 + 1900	
38.	Compounder	3	III	5200 – 20200 + 1900	
39	Dark room attendant	1	III	5200 – 20200 + 1900	
40	Computer operator cum assistant {14 – for each academic department (1 – 1)}	14	III	5200 – 20200 + 1900	
41	Lab assistant	5	III	5200 – 20200 + 1900	
42	Data Entry operator ( for Hospital)	1	III	5200 – 20200 + 1900	
43	Phone operator cum Receptionist	1	III	5200 – 20200 + 1900	
44	O.T attendant	2	III	5200 – 20200 + 1900	
45	O.T attendant	1	IV	4440 – 7440 + 1400	
46	Laboratory attendant/Lab attendant	13	IV	4440 – 7440 + 1300	
47	OPD attendant (each for 6 departments)	4	IV	4440 – 7440 + 1300	
48	Labor room attendant	2	IV	4440 – 7440 + 1300	
49	Bhritya	3	IV	4440 – 7440 + 1300	
50	Ward boy	4	IV	4440 – 7440 + 1300	
51	Dawasaj	2	IV	4440 – 7440 + 1300	
52	Sweeper	3	IV	4440 – 7440 + 1300	
53	Waterman	1	IV	4440 – 7440 + 1300	
54	Kitchen servant	1	IV	4440 – 7440 + 1300	
55	Attendant each for 14 academic department (1 – 1)	14	IV	4440 – 7440 + 1300	

56	Midwife/ Wardboy/ Aya	11	IV	4440 – 7440 + 1300	
57	Body lifter	1	IV	4440 – 7440 + 1300	
58	Sweeper/Swacchak	26	IV	4440 – 7440 + 1300	
59	Chowkidar (Contingency)	2	-	-	
60	Dhobi ( Contingency)	2	-	-	
61	Cook (Contingency)	2	-	-	
62	Sweeper(Contingency)	3	-		
	<b>TOTAL</b>	<b>220</b>			

**1. G Government (Autonomous) Dhanwantari Ayurved College, Ujjain**

S.No.	Name of the post included in the service	No. of posts	Classification	Pay scale	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Superintendent Hospital	1	I	15600 – 39100+ 6600	
2.	Medical specialist (Allopathy)	1	II	15600 – 39100+ 5400	
3.	Surgical specialist (Allopathy)	1	II	15600 – 39100+ 5400	
4.	Obstetrician & Gynaecologist	1	II	15600 – 39100+ 5400	
5.	Dentist	1	II	15600 – 39100+ 5400	
6.	Pharmacognosist	1	II	15600 – 39100+ 5400	
7.	Anaesthetist	1	II	15600 – 39100+ 5400	
8.	Pharmacologist	1	II	15600 – 39100+ 5400	
9.	Bio – Chemist	1	II	15600 – 39100+ 5400	
10.	Analytical chemist	1	II	15600 – 39100+ 5400	
11.	Clinical registrar	6	II	15600 – 39100+ 5400	
12.	Deputy superintendent	1	II	15600 – 39100+ 5400	
13.	Panchakarma chikitsak (1-F/1-M)	2	II	15600 – 39100 + 5400	
14.	Ayurved medical officer	4	II	15600 – 39100+ 5400	

15.	Ausadhi nirman vaidya	1	II	15600 – 39100+ 5400	
16.	Radiologist	1	II	15600 – 39100+ 5400	
17.	Pathologist	1	II	15600 – 39100+ 5400	
18.	Casualty medical officer	1	II	15600 – 39100+ 5400	
19.	Matron	1	III	9300 – 34800+ 4200	
20.	Physiotherapist	1	III	9300 – 34800+ 3600	
21.	Nursing sister	1	III	9300 – 34800 + 3600	(Brahmswaroop)
22.	Assistant Ayurved medical officer	1	II	9300 – 34800 + 3200	(Brahmswaroop)
23.	Assistant matron	1	III	5200 – 20200+ 2800	
24.	Nurse/ Staff nurse	22	III	5200 – 20200 + 2800	(Brahmswaroop)
25.	Demonstrator science	1	III	5200 – 20200+ 2400	
26.	X – ray technician	1	III	5200 – 20200+ 2400	
27.	Ksharsutra technician	1	III	5200 – 20200 + 2400	
28.	Panchakarma technician	3	III	5200 – 20200 + 2400	
29.	P.T.I	1	III	5200 – 20200 + 2400	
30.	Mukhya lipik/ Assistant grade - 2	4	III	5200 – 20200 + 2400	
31.	Accountant	1	III	5200 – 20200 + 2400	
32.	Pharmacist	8	III	5200 – 20200+ 2400	
33.	Microbiology Lab technician	1	III	5200 – 20200 + 2400	
34.	Lab technician	7	III	5200 – 20200 + 2400	
35.	Refractionist	1	III	5200 – 20200 + 2400	
36.	Audiometrist	1	III	5200 – 20200 + 2400	
37.	Museum keeper	3	III	5200 – 20200 + 2400	
38.	Museum keeper cum artist	4	III	5200 – 20200 + 2400	Brahmswaroop
39.	Assistant grade - 3	11	III	5200 – 20200 + 1900	



40	Darkroom attendant	1	III	5200 – 20200 + 1900	
41	Librarian cum museum assistant	1	III	5200 – 20200 + 1900	
42	Panchakarma assistant (4-M + 4-F)	8	III	5200 – 20200 + 1900	
43	Dresser	4	III	5200 – 20200 + 1900	
44	Compounder	4	III	5200 – 20200 + 1900	
45	Computer operator cum assistant {14 – for each academic department (1 – 1)}	14	III	5200 – 20200 + 1900	
46	Lab assistant	10	III	5200 – 20200 + 1900	
47	Data Entry operator ( for Hospital)	1	III	5200 – 20200 + 1900	
48	Phone operator cum Receptionist	1	III	5200 – 20200 + 1900	
49	Laboratory attendant/Lab attendant	9	III	5200 – 20200 + 1900	
50	Carpenter	1	III	5200 – 20200 + 1900	(Brahmswaroop)
51	Bhritya	5	IV	4440 – 7440 + 1400	
52	Daftari	1	IV	4440 – 7440 + 1400	
53	Rawat	1	IV	4440 – 7440 + 1400	
54	O.T attendant	2	IV	4440 – 7440 + 1400	
55	Laboratory attendant/Lab attendant	2	IV	4440 – 7440 + 1300	
56	OPD attendant (each for 6 departments)	4	IV	4440 – 7440 + 1300	
57	O.T attendant	1	IV	4440 – 7440 + 1300	
58	Attendant for 14 each academic department (1 – 1)	14	IV	4440 – 7440 + 1300	

59	Midwife/Wardboy/Aya	14	IV	4440 - 7440 + 1300	
60	Body lifter	1	IV	4440 - 7440 + 1300	
61	Sweeper/Swacchak	27	IV	4440 - 7440 + 1300	
62	Labor room attendant	2	IV	4440 - 7440 + 1300	
63	Ward boy	4	IV	4440 - 7440 + 1300	
64	Dawasaj	3	IV	4440 - 7440 + 1300	
65	Dai	1	IV	4440 - 7440 + 1300	
66	Chowkidar	5	IV	4440 - 7440 + 1300	
67	Bhritya (Daily wage on contract)	3	IV	-	
	TOTAL	244			

2. Government (Autonomous) Homoeopathic Medical College & Hospital, Bhopal					
S.No.	Name of the post included in the service	No. of posts	Classification	Pay scale	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Superintendent	1	I	15600 - 39100+ 6600	Principal/ Professor Medicine will be in - charge honorarium
2.	Senior Chikitsak ( Specialist)	1	II	15600 - 39100+ 5400	
3.	Resident medical officer ( R.M.O) Homoeopathy	1	II	15600 - 39100+ 5400	
4.	Resident surgical officer ( R.S.O) Homoeopathy	1	II	15600 - 39100+ 5400	
5.	Medical officer Homoeo male	3	II	15600 - 39100+ 5400	
6.	Medical officer Homoeo, female	1	II	15600 - 39100+ 5400	

7.	Clinical/ Medical registrar	1	II	15600 – 39100+ 5400	
8.	Casualty registrar	2	II	15600 – 39100+ 5400	
9.	Radiologist	1	II	15600 – 39100+ 5400	
10.	Anaesthetist	1	II	15600 – 39100+ 5400	
11.	Administrative officer	2	II	15600 – 39100+ 5400	
12.	Superintendent/ Assistant superintendent	1	II	15600 – 39100+ 5400	
13.	Medical officer ( Casualty)	2	II	15600 – 39100+ 5400	
14.	Medical officer ( Pathology)	1	II	15600 – 39100+ 5400	
15.	Medical officer (Gynaecologist )	1	II	15600 – 39100+ 5400	
16.	Nursing sister	1	III	9300 – 34800 + 3600	Brahmswaroop
17.	Yog avum prakratik chikitsak	1	III	9300 – 34800 + 3600	
18.	Matron	1	III	9300 – 34800 + 3600	Brahmswaroop
19.	Steno	1	III	5200 – 20200 + 2800	
20.	Biochemist	1	III	5200 – 20200 + 2800	
21.	Physiotherapist	1	III	5200 – 20200 + 2800	
22.	Dietician	1	III	5200 – 20200 + 2800	
23.	Assistant Grade- 1	1	III	5200 – 20200 + 2800	
24.	Staff nurse/ Nurse female ( General nursing)	9	III	5200 – 20200 + 2800	Brahmswaroop
25.	Accountant	2	III	5200 – 20200 + 2400	
26.	Lab technician	2	III	5200 – 20200 + 2400	
27.	Pharmacist	1	III	5200 – 20200 + 2400	
28.	Cashier	1	III	5200 – 20200 + 2400	

29.	Computer operator	2	III	5200 – 20200 + 2400	
30	Pathology technician - Modern medicine (Allopathy)	3	III	5200 – 20200 + 2400	
31.	Assistant grade -2	3	III	5200 – 20200 + 2400	
32.	Electrician	1	III	5200 – 20200 + 2400	(Brahmswaroop)
33.	Museum clerk	1	III	5200 – 20200 + 1900	
34.	Store keeper/ Store keeper general/ Store keeper medical	3	III	5200 – 20200 + 1900	
35.	Steward	1	III	5200 – 20200 + 1900	
36.	Radiographer	1	III	5200 – 20200 + 1900	
37.	E.C.G technician	1	III	5200 – 20200 + 1900	
38.	Assistant grade- 3	4	III	5200 – 20200 + 1900	
39	Museum assistant	2	III	5200 – 20200 + 1900	
40	Librarian	1	III	5200 – 20200 + 1900	
41	Laboratory assistant	2	III	5200 – 20200 + 1900	
42	Driver	2	III	5200 – 20200 + 1900	
43	Auosodhi sanyojak	1	III	5200 – 20200 + 1900	
44	Compounder ( Inner patient department)	2	III	5200 – 20200 + 1900	
45	Compounder ( Outer patient department)	3	III	5200 – 20200 + 1900	
46	A.N.M	2	III	5200 – 20200 + 1900	
47	X – ray technician/ Darkroom assistant	1	III	5200 – 20200 + 1900	
48	Dresser	1	III	5200 – 20200 + 1900	
49	Receptionist	1	III	5200 – 20200 + 1900	
50	Barai ( Carpenter)	1	IV	5200 – 20200 + 1900	(Brahmswaroop)

51	Plumber	1	IV	5200 – 20200 + 1900	Brahmswaroop
52	Laboratory attendant	1	IV	5200 – 20200 + 1800	
53	X – ray attendant	1	IV	4440 – 7440 + 1400	
54	Rasoiya ( Cook)	2	IV	4440 – 7440 + 1400	
55	Daftari/ Jamadar	2	IV	4440 – 7440 + 1400	
56	Bhritiya / Chaprasi	10	IV	4440 – 7440 + 1300	
57	Cleaner	2	IV	4440 – 7440 + 1300	
58	Chowkidar	3	IV	4440 – 7440 + 1300	
59.	Sweeper/ Swacchak ( Male + Female)	5	IV	4440 – 7440 + 1300	
60	Male paricharak/ Ward boy/ Ward attendant	9	IV	4440 – 7440 + 1300	
61	Female paricharak/ Ward boy/ Ward attendant	3	IV	4440 – 7440 + 1300	
62	Paniwala	2	IV	4440 – 7440 + 1300	
63	Kitchen attendant / Servent	3	IV	4440 – 7440 + 1300	
64	Mali	1	IV	4440 – 7440 + 1300	
65	Stretcher lifter	2	IV	4440 – 7440 + 1300	
66	Assistant electrician	2	IV	4440 – 7440 + 1300	
67	Dhobi	1	IV	4440 – 7440 + 1300	
68	I.P.D attendant	5	IV	4440 – 7440 + 1300	
69	Labor room attendant (Female)	2	IV	4440 – 7440 + 1300	
70	O.T attendant	2	IV	4440 – 7440 + 1300	
71	Cook ( Contract)	2	IV	4440 – 7440 + 1300	
72	Kitchen attendant (Contract)	1	IV	4440 – 7440 + 1300	

73	Security guard cum chowkidar ( Collectorate prescribed rate)	8	-	-	
	TOTAL	152			

3 Hakim Syed Ziaul Hasan Government (Autonomous) Unani Medical College & Hospital, Bhopal					
S.No.	Name of the post included in the service	No. of posts	Classification	Pay scale	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Hospital superintendent	1	I	15600 – 39100+ 6600	
2.	Clinical registrar	4	II	15600 – 39100+ 5400	
3.	Resident medical officer	3	II	15600 – 39100+ 5400	
4.	Medical officer	1	II	15600 – 39100+ 5400	
5.	Deputy superintendent	1	II	15600 – 39100+ 5400	
6.	Gynaecologist	1	II	15600 – 39100+ 5400	
7.	Radiologist	1	II	15600 – 39100+ 5400	
8.	Pathologist	1	II	15600 – 39100+ 5400	
9.	Surgeon	1	II	15600 – 39100+ 5400	
10.	Nursing superintendent	3	II	15600 – 39100+ 5400	
11.	Administrative officer	1	II	9300 – 34800 + 4200	
12.	Matron	1	III	9300 – 34800 + 3600	
13.	Junior account officer	1	III	9300 – 34800 + 3600	
14.	Office superintendent	1	III	9300 – 34800 + 3600	
15.	Assistant grade – 1	1	III	5200 – 20200 + 2800	
16.	Librarian	1	III	5200 – 20200 + 2800	
17.	Staff nurse	15	III	5200 – 20200 + 2800	
18.	Assistant grade – 2	3	III	5200 – 20200 + 2400	Brahmswaroop
19.	Store keeper	3	III	5200 – 20200 + 2400	
20.	Accountant	2	III	5200 – 20200 + 2400	
21.	Lab technician	5	III	5200 – 20200 + 2400	
22.	E.C.G technician	1	III	5200 – 20200 + 2400	
23.	X – ray technician	3	III	5200 – 20200 + 2400	
24.	Pharmacist	2	III	5200 – 20200 + 1900	

25.	Compounder	4	III	5200 – 20200 + 1900	
26.	Machine operator	1	III	5200 – 20200 + 1900	
27.	Carpenter	1	III	5200 – 20200 + 1900	(Brahmswaroop)
28.	Assistant grade – 3	6	III	5200 – 20200 + 1900	
29.	Receptionist	1	III	5200 – 20200 + 1900	
30.	Head cook	1	III	5200 – 20200 + 1900	
31.	Driver	4	III	5200 – 20200 + 1900	
32.	Plumber	1	IV	5200 – 20200 + 1900	Brahmswaroop
33.	Lab attendant	2	IV	4440 – 7440 + 1300	
34.	Lab attendant( Pathology)	2	IV	4440 – 7440 + 1300	
35.	Library attendant	1	IV	4440 – 7440 + 1300	
36.	Bhritya	9	IV	4440 – 7440 + 1300	
37.	Chowkidar	8	IV	4440 – 7440 + 1300	
38.	Helper/ Swacchak	6	IV	4440 – 7440 + 1300	
39.	Ambulance attendant	3	IV	4440 – 7440 + 1300	
40.	Store attendant	2	IV	4440 – 7440 + 1300	
41.	Darkroom attendant	1	IV	4440 – 7440 + 1300	
42.	Cook	5	IV	4440 – 7440 + 1300	
43.	Kitchen attendant	3	IV	4440 – 7440 + 1300	
44.	O.T. attendant	3	IV	4440 – 7440 + 1300	
45.	Dresser	2	IV	4440 – 7440 + 1300	
46.	Aya	6	IV	4440 – 7440 + 1300	
47.	Ward boy	15	IV	4440 – 7440 + 1300	
48.	O.P.D/ I.P.D. attendant	9	IV	4440 – 7440 + 1300	
49.	Massagar (2-Female + 2- Male )	4	IV	4440 – 7440 + 1300	
50.	Mali	1	IV	4440 – 7440 + 1300	
	TOTAL	158			

Note:- The rule 5.4.4 of Order No.F 2-6/1/PCC/96 dated 05/17-10-2006 of M.P. Government General Administration Department (Pay Commission Cell) Ministry Bhopal by which electrician will be given pay scale 5200-20200+2400 G.P and plumber & carpenter will be given pay scale 5200-20200+2400 G.P. will be applicable to qualified persons.

**Schedule-II**  
**See Rule-6(1)**

S. No.	Name of the Post	Classification of Service	Percentage of posts to be filled up		
			By Direct recruitment	By promotion	By Deputation/transfer from other services
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Reader literary Research	I	100%	-	-
2	Superintendent Hospital	I	-	100%	-
3	Deputy superintendent/Upa Adhikshak / Deputy Manager	II	100%	-	-
4	Casualty Medical officer	II	-	-	On deputation
5	Medical officer ( Casualty)	II	100%	-	-
6	Medical officer ( Pathology)	II	100%	-	-
7	Medical officer (Gynaecologist )	II	100%	-	-
8	Panchakarma Chikitsak(Ayurveda)	II	100%	-	-
9	Ayurved medical officer/Female Ayurved medical officer(R.M.O.) /Resident medical officer/Medical officer Ayurveda/ Clinical registrar Ayurveda	II	100%	-	-
10	<b>Aushadhi nirman Vaidya/Mahila Vaidya/Senior Vaidya</b>	II	100%	-	-
11	Senior Physician (specialist) Homoeopathy	II	100%	-	-
12	Resident Surgical officer (R.S.O)/Casualty registrar/Clinical Registrar /Medical Registrar/ R.M.O/Medical Officer (Homoeopathy) male/female	II	100%	-	-
13	Medical Officer/ Resident Medical Officer/ Clinical Registrar	II	100%	-	-
14	<b>Assistant Superintendent (Homoeopathy)</b>	II	100%	-	-
15	Deputy Superintendent(Unani)/ Resident medical officer/Medical officer/Clinical registrar	II	100%	-	-
16	Medical Specialist(Allopathy)	II	100%	-	-
17	Surgical Specialist(Allopathy)/surgeon	II	100%	-	-
18	Obstretician & Gynaecologist	II	100%	-	-
19	Radiologist	II	100%	-	-
20	Pathologist	II	100%	-	-



21	Anaesthetist	II	100%	-	-
22	Dentist	II	100%	-	-
23	Biotechnologist	II	100%	-	-
24	Pharmaceutical Chemist	II	100%	-	-
25	Microbiologist	II	100%	-	-
26	Pharmacognosist	II	100%	-	-
27	Pharmacologist	II	100%	-	-
28	Analytical Chemist	II	100%	-	-
29	Biochemist - Ayurveda	II	100%	-	-
30	Statistician	II	100%	-	---
31	Sports Officer	II	100%	-	-
32	Librarian	II	100%	-	-
33	Research officer (Ayurveda)	II	100%	-	-
34	Botanist cum Pharmacognosist	II	100%	-	-
35	Nursing Superintendent	II	100%	-	-
36	Administrative officer	II	-	100%	-
37	Junior Accounts Officer	III	-	-	On deputation
38	Office superintendent	III	-	100%	-
39	Assistant grade - 1	III	-	100%	-
40	Assistant grade - 2	III	-	100%	-
41	Mukhya lipik / Head clerk	III	-	100%	-
42	Accountant	III	-	100%	-
43	Store keeper	III	-	100%	-
44	Cashier	III	100%	-	-
45	Assistant grade - 3/ Typist cum clerk	III	75%	25%	-
46	Matron	II	-	100%	-
47	Assistant Matron	III	-	100%	-
48	Nursing sister	III	-	100%	-
49	Nurse/ Staff Nurse	III	75%	25%	-
50	Junior Engineer	III	100%	-	-
51	Physiotherapist	III	100%	-	-

52	Garden Superintendent	III	100%	-	-
53	Steno	III	100%	-	-
54	Computer programmer	III	100%	-	-
55	Computer operator	III	100%	-	-
56	Computer operator cum Attendant(for each academic departments)	III	100%	-	-
57	Data entry operator ( for Hospital)	III	100%	-	-
58	Pustakalayadyakh	III	100%	-	-
59	Assistant Librarian	III	100%	-	-
60	Research Librarian	III	100%	-	-
61	Artist	III	100%	-	-
62	Photographer	III	100%	-	-
63	Refractionist	III	100%	-	-
64	Audiometrist	III	100%	-	-
65	Vyayam shikshak	III	100%	-	-
66	Machine Operator	III	100%	-	-
67	Pump Mechanic	III	100%	-	-
68	Animal feeder	III	100%	-	-
69	Demonstrator Science	III	100%	-	-
70	Panchakarma Technician(Ayurveda)	III	75%	25%	-
71	O.T.Technician	III	100%	-	-
72	Ksharasutra Technician (Ayurveda)	III	100%	-	-
73	X-Ray Technician (Ayurveda)	III	75%	25%	-
74	ECG technician	III	100%	-	-
75	Lab. / Laboratory Technician	III	75%	25%	-
76	Pathology technician	III	100%	-	-
77	X - ray assistant	III	100%	-	-
78	Radiographer/ Dark- room assistant/ Dark- room attendant	III	100%	-	-
79a	Pharmacist (Ayurveda)	III	75%	25%	-
79b	Pharmacist (Homoeopathy)	III	100%	-	-
79c	Pharmacist (unani)	III	100%	-	-
80	Bhaisajya Kalpak	III	100%	-	-
81	Phone operator cum Receptionist	III	100%	-	-
82	Museum Keeper	III	75%	25%	-
83	Museum Keeper cum Artist	III	100%	-	-
84	Museum Assistant cum Librarian	III	100%	-	-
85	Museum Assistant	III	100%	-	-
86	Librarian cum Museum Keeper	III	100%	-	-
87	Museum clerk – Homoeopathy	III	75%	25%	-
88	Panchakarma Assistant (Ayurveda)	III	100%	-	-
89	Assistant Lab. Technician (Ayurveda)	III	100%	-	-
90	Laboratory Assistant	III	100%	-	-
91	Dresser	III	100%	-	-
92a	Compounder (Ayurveda)	III	75%	25%	-
92b	Compounder (Homoeopathy)	III	100%	-	-
92c	Compounder (unani)	III	100%	-	-

93	P.T.I.	III	100%	-	-
94	Biochemist-Homoeopathy	III	100%	-	-
95	Dietician	III	100%	-	-
96	Steward	III	100%	-	-
97	Electrician	III	50%	50%	-
98	A.N.M	III	100%	-	-
99	Head Cook	III	-	100%	-
100	Driver	III	100%	-	-
101	Senior / Junior research vaidhya (Ayurveda)	III	100%	-	-
102 a	Lab/Laboratory attendant	III	100%	-	-
102 b	Lab/Laboratory attendant	IV	100%	-	-
103 a	Carpenter	III	100%	-	-
103 b	Carpenter	IV	100%	-	-
104	Plumber	IV	100%	-	-
105	Rasoia/ Cook	IV	100%	-	-
106	Kitchen attendant/ Servant	IV	100%	-	-
107	Head Mali	IV	-	100%	-
108	Mali	IV	100%	-	-
109	Library attendant	IV	100%	-	-
110	OPD/ IPD/ OT Attendant	IV	100%	-	-
111	Dawasaj	IV	100%	-	-
112	Labor Room Attendant	IV	100%	-	-
113	Attendant (For 14 academic Departments)	IV	100%	-	-
114	Masseur(Male/Female)	IV	100%	-	-
115	Ambulance Attendant	IV	100%	-	-
116	Store Attendant	IV	100%	-	-
117	Bhritya/ Choukidar/ Pharras/ Peon cum cyclist	IV	100%	-	-
118	Bhrity cum Choukidar cum Pharras	IV	100%	-	-
119	Inferior	IV	100%	-	-
120	Liftman	IV	100%	-	-
121	Midwife/Wardboy/Aya	IV	100%	-	-
122	Ward boy/Male paricharak/ Ward attendant	IV	100%	-	-
123	Female paricharak/Ward boy/ Ward attendant	IV	100%	-	-
124	Dai	IV	100%	-	-
125	Aya	IV	100%	-	-
126	Wardboy	IV	100%	-	-
127	Daftari / Jamadar	IV	-	100%	-
128	Dhobi/ Washer man	IV	100%	-	-
129	Paniwala/Waterman	IV	100%	-	-
130	Cleaner/ Khallasi	IV	100%	-	-
131	Servant/ Rawat	IV	100%	-	-
132	Body Lifter	IV	100%	-	-
133	Sweeper/Swachhak	IV	100%	-	-
134	Stretcher Lifter	IV	100%	-	-
135	Assistant Electrician	IV	100%	-	-

**Schedule – III**  
**(See Rule 8.2)**

Sl. No.	Name of the post	Classification of service	Minimum age Limit in years	Maximum age limit in years	Educational & professional qualification and experience
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Reader literary research (Ayurveda)	I	21	28	Passed BAMS degree from a recognised University established by law & MA in Sanskrit or M.D (Ayurveda) in Samhita . Registration in concerned Board .Five years research experience in concerned field. Preference to PhD holder.
2.	Hospital superintendent(Ayurveda)	I	21	28	Passed BAMS Degree from a recognised University established by law & a recognised M.D /MS (Ayurveda) Degree in any subject .Registration in concerned Board. Minimum Eligibility of Hospital superintendent post is equal to post of Professor.
3.	Hospital superintendent (Homeopathy)	I	21	28	Passed BHMS Degree from a recognised University established by law & a recognised M.D (Homeopathy) Degree in any subject .Registration in concerned Board. Principal /professor would be incharge of this post.
4.	Hospital superintendent (Unani)	I	21	28	Passed BUMS Degree from a recognised University established by law & a recognised M.D(Unani) Degree in any subject .Registration in concerned Board.. Minimum Eligibility of Hospital superintendent post is equal to post of Professor.
5.	Deputy superintendent/ Upa Adhikshak (Ayurveda)	II	21	28	Passed BAMS Degree from a recognised University established by law & a recognised M.D/MS (Ayurveda) Degree in Clinical subject or Minium 10 year experience with B.A.M.S. .Registration in concerned Board. Preference to PG Diploma/ Degree in Hospital management/ administration.
6.	Casualty medical officer	II	21	28	Passed MBBS Degree from a recognised University established by law & a recognised MD Medicine/ MS Surgery degree. Registration in concerned Board.
7.	Pancha karma Physician	II	21	28	Passed BAMS Degree from a recognised University established by law & a recognised M.D (Ayurveda) Degree in Panchakarma /Allied subject. Registration in concerned Board
8.	Ayurveda Medical officer/ Female Ayurveda medical officer /RMO/ Resident Medical officer/Medical Officer/ Clinical	II	21	28	Passed BAMS Degree from a recognised University established by law & Registration in concerned Board.

	Registrar (Ayurveda)				
9.	Ausadhi Nirmana vaidya /Female Vaidya/ Senior Vaidya(Ayurveda)	II	21	28	Passed BAMS Degree from a recognised University established by law & Registration in concerned Board.
10.	Medical officer(casualty)	II	21	28	Passed MBBS Degree from a recognised University established by law, a recognised MD Medicine/ MS Surgery degree & Registration in concerned Board.
11.	Medical officer(Pathology)	II	21	28	Passed MBBS Degree from a recognised University established by law& a recognised MD ( pathology) degree & Registration in concerned Board.
12.	Medical officer(Gynaecolog)	II	21	28	Passed MBBS Degree from a recognised University established by law& a recognised MS Gynaecology degree & Registration in concerned Board.
13	Senior chikitsak (specialist) Homoeopathy	II	21	28	Passed BHMS and MD (Homo.) Degree from a recognised University established by law & Registration in concerned Board.
14.	Resident medical officer ( R.M.O) Homoeopathy / Resident medical officer ( R.S.O) Homoeopathy/ Medical officer Homoeo.male/ Medical officer Homoeo. female/ Clinical registrar.	II	21	28	Passed BHMS Degree from a recognised University established by law & Registration in concerned Board.
15.	Deputy superintendent Unani	II	21	28	Passed BUMS Degree from a recognised University established by law & a recognised M.D (Unani) degree in Clinical subject . Minium 10 year experience with B.U.M.S. .Registration in concerned Board. Preference to PG Diploma/ Degree in Hospital management/administration.
16.	Ass. superintendent Homoeopathy	II	21	28	Passed BHMS & M.D. (Homo) Degree from a recognised University established by law & Registration in concerned Board.
17	Resident Medical officer/ Clinical Registrar/ Medical officer Unani	II	21	28	Passed BUMS Degree from a recognised University established by law & Registration in concerned Board.
18.	Medical Specialist (Allopathy)	II	21	28	Passed MBBS Degree from a recognised University established by law & a recognised MD Medicine degree .Registration in concerned Board.
19.	Surgical Specialist (Allopathy)	II	21	28	Passed MBBS Degree from a recognised University established by law & MS in Surgery recognised degree .Registration in concerned Board.

20.	Obstretician & Gyenacologist(Allopathy)	II	21	28	Passed MBBS Degree from a recognised University established by law & a MD in Gyenacology & Obstretics recognised degree. Registration in concerned Board.
21.	Radiologist	II	21	28	Passed MBBS Degree from a recognised University established by law & a MD in Radiology recognised degree. Registration in concerned Board.
22.	Pathologist	II	21	28	Passed MBBS Degree from a recognised University established by law & MD in Pathology recognised degree. Registration in concerned Board.
23.	Anaesthetist	II	21	28	Passed MBBS Degree from a recognised University established by law & MD in Anaesthesia recognised degree. Registration in concerned Board.
24.	Dentist	II	21	28	Passed BDS & MDS Degree from a recognised University established by law. Registration in concerned Board.
25.	Biotechnologist	II	21	28	Passed MSc Biotechnology/M Tech/MPharma Degree from a recognised University established by law. Preference to PhD Holder.
26.	Pharmaceutical Chemist	II	21	28	Passed MSc in chemistry OR Pharmaceutical Chemistry Degree from a recognised University established by law. Preference to PhD Holder.
27.	Microbiologist	II	21	28	A Post- Graduate Degree in Microbiology from a recognised University established by law. Preference to PhD Holder.
28.	Pharmacognosist	II	21	28	A Post- Graduate Degree in Pharmacognosy/Botany from a recognised University established by law. Preference to PhD Holder.
29.	Pharmacologist	II	21	28	A Post- Graduate Degree in Pharmacology OR M.pharma / MD Pharmacology from a recognised University established by law. Preference to PhD Holder.
30.	Analytical Chemist	II	21	28	A Post- Graduate Degree in Chemistry OR Analytical Chemistry from a recognised University established by law. Preference to PhD Holder.
31.	Bio Chemist	II	21	28	A Post- Graduate Degree in Bio-Chemistry from a recognised University established by law. Preference to PhD Holder.
32.	Statistician	II	21	28	A Post- Graduate Degree in Mathematics OR Statistics from a recognised University established by law.
33.	Sports Officer	II	21	28	A Post- Graduate Degree in Physical education (MPed or equivalent) from a recognised University established by law. Preference to PhD Holder.

34.	Librarian	II	21	28	A Post- Graduate Degree in Library Science (MLib) from a recognised University established by law. Preference to PhD Holder.
35.	Deputy Manager	II	21	28	Passed BAMS Degree from a recognised University established by law & a recognised MD(Ayurveda)Degree in Rasashastra&Bhaisajya kalpana subject.Registration in concerned Board.
36.	Research Officer (Ayurveda)	II	21	28	Passed BAMS Degree from a recognised University established by law & a recognised MD(Ayurveda) Degree in Samhita subject.Registration in concerned Board. Preference to PhD Holder.
37.	Botanist cum Pharmacognosist	II	21	28	A Post- Graduate Degree in Pharmacognosy/Botany from a recognised University established by law. Preference to PhD Holder.
38.	Nursing Superintendent	II	21	28	A Post- Graduate Degree in Nursing from a recognised University established by law. Registration in concerned Board.Ten years work experience in nursing out of which Three years as Matron.
39.	Nurse/staff nurse	III	18	25	Passed BSc Nursing /GNM examination from a recognised University established by law. Registration in concerned Board.
40.	Junior Engineer	III	18	25	Passed Diploma in civil engineering from a University established by law. Preference to degree holder.
41.	Physiotherapist	III	18	25	Passed Bachelor in Physiotherapy (BPT) from a University established by law. Registration in MP Paramedical council. Preference to Post-Graduate Degree holder.
42.	Garden Superintendent	III	18	25	Passed Post-graduate degree in Agriculture/Horticulture from a University established by law. 2 years work experience in Plantation & survey of plants. Preference to MSc Degree holder in Horticulture.
43.	Steno	III	18	25	Passed Higher Secondary(10+2) or equivalent examination from Board of Higher secondary Education Bhopal OR any Board . Passed Steno examination from MP Steno &Typist Board or from any Board established by law. 1 Year Diploma in Computer application.
44.	Computer Programmer	III	18	25	Passed a Degree examination in Computer science. Preference to Post-graduate Degree holder.
45.	Computer Operator	III	18	25	Passed Graduate Degree from a recognised University established by law. Passed Hindi Typing course from Typist Board or from any Board established by law, Passed PGDCA
46.	Assistant Grade-3	III	18	25	Passed Higher Secondary(10+2) or equivalent examination from Board of Higher Secondary Education Bhopal OR any Board . Passed typing examination from MP Steno &Typist Board or from any Board established by law 1 Year Diploma in Computer application.
47.	Computer Operator Cum Assistant(for Academic departments)	III	18	25	Passed Higher Secondary(10+2) or equivalent examination from Board of Higher Secondary Education Bhopal OR any Board. 1 Year Diploma in Computer application. Preference to Degree holder.

48.	Data entry Operator(for Hospital)	III	18	25	Passed Higher Secondary(10+2) or equivalent examination from Board of Higher Secondary Education Bhopal OR any Board . 1 Year Diploma in Computer application Preference to Degree holder.
49.	Library Superintendent	III	18	25	Passed Bachelor in library science(BLib) examination from a recognised University established by law. Knowledge of computer. Preference to Post- graduate Degree holder.
50.	Assistant Librarian	III	18	25	Passed Bachelor in library science(BLib) examination from a recognised University established by law.Knowledge of computer. Preference to Post- graduate Degree holder.
51.	Research Librarian	III	18	25	Passed Bachelor in library science(BLib) examination from a recognised University established by law.Knowledge of computer. Preference to Post- graduate Degree holder.
52.	Librarian- Unani	III	18	25	Passed Bachelor in library science(BLib) examination from a recognised University established by law.Knowledge of computer. Preference to Post- graduate Degree holder. Passed 10th standard in Urdu.
53.	Artist/Kalakār	III	18	25	Passed a Diploma in fine Arts from a recognised University established by law.2 Years work experience in fine arts. Preference to Degree holder.
54.	Photographer	III	18	25	Passed a Diploma in Photography from a recognised University established by law.2 Years work experience in clinical slide preparation photography. Preference to Degree holder
55.	Refractionist	III	18	25	Passed Higher Secondary(10+2) or equivalent examination from Board of secondary Education Bhopal OR any Board with Physics, Chemistry & Biology subject. Passed refraction certificate course.Registration in MP Paramedical council.
56.	Audiometrist	III	18	25	Passed Higher Secondary(10+2) or equivalent examination from Board of secondary Education Bhopal OR any Board with Physics, Chemistry & Biology subject. Passed audiometry certificate course.Registration in MP Paramedical council.
57.	Demonstrator science	III	18	25	Passed M.Sc. from a University established by law.
58.	Physical education teacher	III	18	25	Passed a degree in Physical education (BPED) or equivalent from a University established by law.Preference to Post-graduate degree holder.
59.	Machine Operator	III	18	25	Passed Higher Secondary(10+2) or equivalent examination from Board of secondary Education Bhopal OR any Board . Passed ITI in Mechanical trade.Preference to experience holder in concerned field.



60.	Pump Mechanic	III	18	25	Passed Higher Secondary(10+2) or equivalent examination from Board of secondary Education Bhopal OR any Board . Passed ITI in Mechanical trade.Preference to experience holder in concerned field.
61.	Animal feeder	III	18	25	Passed Higher Secondary(10+2) or equivalent examination from Board of secondary Education Bhopal OR any Board . Preference to experience holder in concerned field.
62.	Panchakarma Technician	III	18	25	Passed Higher Secondary(10+2) or equivalent examination from Board of secondary Education Bhopal OR any Board with Physics, Chemistry& Biology subject. Passed Panchakarma technician course. Registration in MP Paramedical council.
63.	OT Technician	III	18	25	Passed Higher Secondary(10+2) or equivalent examination from Board of secondary Education Bhopal OR any Board with Physics, Chemistry& Biology subject. Passed OT technician course.Registration in MPParamedical council.
64.	Ksharasutra Technician	III	18	25	Passed Higher Secondary(10+2) or equivalent examination from Board of secondary Education Bhopal OR any Board with Physics, Chemistry& Biology subject. Passed Ksharasutra or OT technician course.Registration in MP Paramedical council.
65.	X-Ray Technician	III	18	25	Passed Higher Secondary(10+2) or equivalent examination from Board of secondary Education Bhopal OR any Board with Physics, Chemistry& Biology subject. Passed X-Ray technician course.Registration in MP Paramedical council.
66.	ECG Technician	III	18	25	Passed Higher Secondary(10+2) or equivalent examination from Board of secondary Education Bhopal OR any Board with Physics, Chemistry& Biology subject. Passed ECG technician certificate course.Registration in MP Paramedical council.
67.	Lab. Technician	III	18	25	Passed Higher Secondary(10+2) or equivalent examination from Board of secondary Education Bhopal OR any Board with Physics, Chemistry& Biology subject. Passed Laboratory technician course.Registration in MP Paramedical council.
68.	Pathology Technician (Homeopathy)	III	18	25	Passed Higher Secondary(10+2) or equivalent examination from Board of secondary Education Bhopal OR any Board with Physics, Chemistry& Biology subject. Passed Laboratory technician certificate course.Registration in MP Paramedical council.
69.	Radiographer/Darkroom Assistant/Dark room Attendant	III	18	25	Passed Higher Secondary(10+2) or equivalent examination from Board of secondary Education Bhopal OR any Board with Physics, Chemistry& Biology subject. Passed Radiographer course.

					Registration in MP Paramedical council.
70.	Pharmacist (Ayurveda)	III	18	25	Passed Higher Secondary(10+2) or equivalent examination from Board of secondary Education Bhopal OR any Board with Physics, Chemistry & Biology subject. Passed Diploma in ayurveda Pharmacy course. Registration in MP Paramedical council.
71.	Pharmacist Homeopathy	III	18	25	Passed Higher Secondary(10+2) or equivalent examination from Board of secondary Education Bhopal OR any Board with Physics, Chemistry & Biology subject. Passed degree/diploma in pharmacy course. Registration in concerned council.
72.	Bhaisajya Kalpak (Ayurveda)	III	18	25	Passed Higher Secondary(10+2) or equivalent examination from Board of secondary Education Bhopal OR any Board with Physics, Chemistry & Biology subject. Passed Diploma in ayurveda Pharmacy course. Registration in MP Paramedical council.
73.	Phone operator cum Receptionist	III	18	25	Passed Higher Secondary(10+2) or equivalent examination from Board of secondary Education Bhopal OR any Board .Diploma in computer science. Preference to Degree holder.
74.	Museum Keeper	III	18	25	Passed Higher Secondary(10+2) or equivalent examination from Board of secondary Education Bhopal OR any Board. And Diploma course in museum Keeping . or a recognized passed certificate of museum keeping.
75.	Museum Keeper cum Artist	III	18	25	Passed Higher Secondary(10+2) or equivalent examination from Board of secondary Education Bhopal OR any Board in science .Diploma/Certificate course in museum Keeping. A Diploma in fine arts from any Institute established by law.
76.	Librarian cum Museum keeper	III	18	25	Passed Higher Secondary(10+2) or equivalent examination from Board of secondary Education Bhopal OR any Board in science .Diploma/Certificate course in museum Keeping .Diploma in Library science from any Institute established by law.
77.	Museum Assistant cum Librarian	III	18	25	Passed Higher Secondary(10+2) or equivalent examination from Board of secondary Education Bhopal OR any Board in science .Diploma/Certificate course in museum Keeping .Diploma in Library science from any Institute established by law.
78.	Junior research Vaidya-Ayurveda	III	18	25	Passed BAMS Degree from a recognised university established by law. Registered in concerned board.
79.	Panchakarma assistant	III	18	25	Passed Higher Secondary(10+2) or equivalent examination from Board of secondary Education Bhopal OR any Board with Physics, Chemistry & Biology subject. Passed Panchkarma certificate course. Registration in MP Paramedical council.

80.	Assistant Lab.technician	III	18	25	Passed Higher Secondary (10+2) or equivalent examination from Board of secondary Education Bhopal OR any Board with Physics, Chemistry & Biology subject. Passed Laboratory technician certificate course. Registration in MP Paramedical council.
81.	Laboratory Assistant	III	18	25	Passed Higher Secondary (10+2) or equivalent examination from Board of secondary Education Bhopal OR any Board with Physics, Chemistry & Biology subject. Passed Laboratory technician certificate course. Registration in MP Paramedical council.
82.	X-Ray Assistant	III	18	25	Passed Higher Secondary (10+2) or equivalent examination from Board of secondary Education Bhopal OR any Board with Physics, Chemistry & Biology subject. Passed X-Ray/Radiographer certificate course. Registration in MP Paramedical council.
83.	Dresser	III	18	25	Passed Higher Secondary(10+2)or equivalent examination from Board of Secondary Educaton,Bhopal. First- Aid training certificate. 2 years work experience in any recognised institute as a dresser.
84.	Compounder (ayurveda)	III	18	25	Passed Higher Secondary(10+2)or equivalent examination from Board of Secondary Educaton,Bhopal or anyBoard . Passed Compounder certificate or equivalent course in ayurveda. Registration in paramedical council .
85.	P.T.I.	III	18	25	BPEd or equivalent recognised degree from any University established by law.preference will be given to PG holder.
86.	Biochemist-Homoeopathy	III	18	25	M.Sc.Biochemistry or M.Sc Biochemistry from medical Science from any University established by law.
87.	Dietician	III	18	25	Diploma in Human Nutrition from any University established by law. Registration in MP paramedical council.Preference to Degree holder in Nutrition.
88.	Museum Clerk	III	18	25	Passed Higher Secondary(10+2)or equivalent examination from Board of Secondary Educaton,Bhopal or anyBoard .Passed hindi or english typing test from any recognised Board.computer typing knowledge.Knowledge of specimen preservation in museum.
89.	Museum assistant	III	18	25	Passed Higher secondary (10+2) in science stream or equivalent.Diploma in Museum keeping or certificate in museum keeping.
90.	Steward (homeopathy)	III	18	25	Passed Higher Secondary(10+2)or equivalent examination from Board of Secondary Educaton,Bhopal or anyBoard .Passed hindi or english typing test from any recognised

					Board.computer typing knowledge.
91.	Electrician	III	18	25	Passed Higher Secondary(10+2)or equivalent examination from Board of Secondary Educaton,Bhopal or anyBoard by law.Certificate in electrician from ITIPreference to experience holder.
92.	Compounder/ Ausadhi Samyojak Homeopathy	III	18	25	Passed Higher Secondary(10+2)or equivalent examination from Board of Secondary Educaton,Bhopal or anyBoard . Passed homoeopathy compounder training Certificate course .Registration in MP paramedical council.
93.	ANM	III	18	25	Passed GNM examination Course from any recognized Institute established by law. Registration in concerned council.
94.	Laboratory Assistant	III	18	25	Passed Higher secondary(10+2) examination with Physics, chemistry &Biology or equivalent examination. Passed lab. Technician certificate course. Registration in MP Paramedical council.
95.	Pharmacist Unani	III	18	25	Passed Higher secondary(10+2) examination with Physics, chemistry &Biology or equivalent examination. Passed Diploma in Pharmacy (Unani). Registration in MP Paramedical council.
96.	Compounder Unani	III	18	25	Passed Higher Secondary(10+2)or equivalent examination from Board of Secondary Education, Bhopal or any Board with urdu . Passed unani compounder tanning Certificate course Registration in MP Paramedical Council.
97.	Driver	III	18	25	Passed High school certificate examination or equivalent Exam. License from RTO to drive LMV&H MV. Preference to experience holder of driving LMV/HMV.
98	Head cook	III	18	25	Passed Higher Secondary(10+2)or equivalent examination from Board of Secondary Educaton,Bhopal or anyBoard .Preference to cooking knowledge holder.
99a	Laboratory Attendant	III	18	25	Passed Higher secondary(10+2) examination with Physics, chemistry &Biology or equivalent examination. Passed lab. Technician certificaate course.Registration in MP Paramedical council.
99b	Laboratory Attendant	IV	18	25	Passed 8 th Examination or equivalent from recognized institute
100a	Carpenter	III	18	25	Passed Higher Secondary(10+2)or equivalent examination from Board of Secondary Education, Bhopal or any Board . ITI certificate in Carpenter trade. Preference to the experience holder in the concerned field.
100b	Carpenter	IV	18	25	Passed 8 th Examination or equivalent from recognized institute. Preference to the experience holder in the concerned field
101	Plumber	IV	18	25	Passed High school certificate examination or equivalent Exam ITI certificate in Plumber

					trade.Preference to experience holder.
102	Cook/KitchenServan t/attendant		18	25	Passed 8 th Examination or equivalent from recognized institute..Preference to cooking knowledge holder.
103	Mali/Head Mali	IV	18	25	Passed 8 th Examination or equivalent from recognized institute .Preference to experience holder.
104	Library/Laboratory/ OPD/OT Attendant	IV	18	25	Passed 8th Examination or equivalent from recognized institute
105	Dawasaj Ayurveda	IV	18	25	Passed 8th Examination or equivalent from recognized institute
106	Labor Room attendant	IV	18	25	Passed 8 th Examination or equivalent from recognized institute. preference given to.Passed Mahila Ayurveda Swasthya Karyakarta Certificate Examination.
107	Attendant (for Academic Departments)	IV	18	25	Passed 8th Examination or equivalent from recognized institute
108	Massure (Male/Female)	IV	18	25	Passed 8th Examination or equivalent from recognized institute
109	Ambulance Attendant	IV	18	25	Passed 8th Examination or equivalent from recognized institute
110	Store Attendant	IV	18	25	Passed 8th Examination or equivalent from recognized institute
111	Bhritya/Chowkidar/F harrash	IV	18	25	Passed 8th Examination or equivalent from recognized institute
112	Liftman	IV	18	25	Passed 8th Examination or equivalent from recognized institute
113	Midwife/Wardboy/A ya/Dai	IV	18	25	Passed High school certificate Examination or equivalent examination from Board of Secondary Educaton,Bhopal or any Board, Passed Mahila Ayurveda Swasthya Karyakarta Certificate Examination.
114	Daftari/Jamadar	IV	18	25	Passed 8th Examination or equivalent from recognized institute
115	Dhobi/Washerman/ Waterman	IV	18	25	Passed 8th Examination or equivalent from recognized institute
116	Cleaner(collector rate)/Khallasi	IV	18	25	Passed 8th Examination or equivalent from recognized institute
117	Servant/Inferior/Raw at /Stretcher man	IV	18	25	Passed 8th Examination or equivalent from recognized institute
118	Peon&Cyclist/Store attendant	IV	18	25	Passed 8th Examination or equivalent from recognized institute
119	Body Lifter	IV	18	25	Passed 8th Examination or equivalent from recognized institute
120	Sweeper	IV	18	25	Passed 8th Examination or equivalent from recognized institute
121	Assistant Electrician	IV	18	25	Passed 8th Examination or equivalent from recognized institute

NOTE:- Relaxation and determination in the above age limit for residents of MP will be in accordance with the circular no. 3-8 / 2016/3-dated 12 May 2017 of M.P. General Administration Department or amendments made by the Government from time to time as below:-

1	S.No.	Type of Recruitment	For the fulfillment of post (Gazetted/Non Gazetted/Executive) by the M.P. Public service Commission	For the fulfillment of post of class III/IV class out of the circumference of Public service Commission
	Minimum/Maximum age limit (in years)			
1		For the fulfillment of post by direct recruitment	21 to 28	18 to 25

## 2 Maximum relaxation in age limit for the domicile of Madhya Pradesh

1	Male Applicant (Unreserved class)	21 to 28	18 to 25
2	Female Applicant (Unreserved class)	28+17=45	25+20=45
3	Male/Female Applicant (Government/Corporation/Board/Autonomous Employee and Home guard)	28+17=45	25+20=45
4	Male/Female Applicant (Reserved Class-Schedule caste/Schedule tribe/other backward class)	28+17=45	25+20=45
5	Male/Female Applicant (Reserved class-Government/Corporation/Board/Autonomous Employee and Home guard)	28+17=45	25+20=45
6	For Physically Handicapped applicants	28+17=45	25+20=45
Candidates outside the state will never receive any relaxation in age at any stage.			

## 3 Candidates should have valid registration in Madhya Pradesh employment exchange office for all the post of class III and IV.

**Schedule - IV**  
(See Rule 13 and 14)

Sl. No.	Name of Service or post from which Promotion is to be made	Name of Service or post from to which promotion is to be made	Minimum Service in the post of column (2) for promotion to post in column (3)	Name of members of Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Deputy Superintendent (Ayurved) / Ayurveda Medical Officer (R.M.O)/ Female Ayurveda Medical Officer / Senior Research Vaidya	Hospital Superintendent (Ayurveda)	5 years	1. Principal Secretary / Secretary-Chairman 2. Commissioner / Director - Member 3. Representative from Reserved Category - Member 4. Principal / CEO of Concerned College - Member Secretary
2	Senior chikitsak (specialist) / Resident medical officer (R.M.O) Homoeopathy / Resident surgical officer (R.S.O) Homoeopathy/ Medical officer Homoeo.male/ Medical officer Homoeo.female/ Clinical registrar.	Superintendent/ Assistant superintendent (Homoeopathy)	5 years	- do -

3	Deputy Superintendent (Unani) / Clinical Registrar (Unani) / Resident Medical Officer / Medical Officer (Unani)	Hospital Superintendent (Unani)	5 years	- do -
4	Assistant Matron / Nursing Sister	Matron	5 years	- do -
5	Nurse/staff nurse – Ayurveda	Assistant Matron	5 years	1. Principal & C.E.O of concerned college – Chairman 2. Divisional AYUSH Officer - Member 3. District AYUSH Officer - Member 4. Representative from Reserved Category – Member
6	Nurse/ Staff Nurse	Nursing Sister	5 years	-do-
7	Office superintendent – Ayurveda & Unani	Administrative officer	5 years	-do-
8	Assistant grade – 1	Office superintendent	5 years	-do-
9	Assistant grade – 2/ Accountant/ Mukhya lipik / Head clerk/	Assistant / Assistant grade –	5 years	-do-

	Computer operator	1		
10	Cashier (Homoeopathy)	Accountant	5 years	-do-
11	Assistant grade – 3	Assistant grade – 2/ Accountant	5 years	-do-
12	A.N.M. – Homoeopathy	Staff Nurse / Nurse	5 years	- do-
13	Panchkarma assistant- Ayurveda	Panchkarma Technician – Ayurveda	5 years	-do-
14	Darkroom assitant - Homoeopathy	Radiographer/ X-Ray Technician	5 years	-do-
15	Dark- room attendant / X-Ray assistant	Radiographer/ X-Ray Technician	5 years	-do-
16	Laboratory / Lab. Assistant	Lab Technician	5 years	-do-
17	Bhaisiya Kalpaka- Ayurveda	Pharmacist Ayurveda	5 years	-do-
18	Museum Assistant	Museum Keeper/ Museum clerk	5 years	-do-
19	Dawasaj/Male paricharak/ Female paricharak/ Ward boy/ Ward attendant	Compounder	5 years	-do-
20	Rasoija/ Cook	Head Cook	5 years	-do-
21	Bhritya/Pharrash/ Chowkidar/ Paniwala/ Chaprasi/ Peon cum cyclist/ Khallasi/ Inferior/ Rawat	Assistant grade – 3	5 years	-do-
22	Assistant electrician	Electrician	5 years	-do-